



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8]
No. 8]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1971 (फाल्गुन 1, 1892)
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1971 (PHALGUNA 1, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रकाश संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4 (PART I—SECTION 4)

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रकाशनों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence)

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1970

सं० 334, दिनांक 28 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के स्थायी अधिकारी श्री मोहिन्द्र सिंह को दिनांक 15-11-70 से 31-12-70 तक के लिए सेवा के सलेक्शन ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

श्री मोहिन्द्र सिंह को उपयुक्त समय के लिए राष्ट्रपति रक्षा-मंत्रालय में उप सचिव के रूप में भी नियुक्त करते हैं।

अजीत सिंह, अवर सचिव

सं० 335, दिनांक 7 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित स्थायी सहायकों को उनके सामने दी गई अवधि के लिए रक्षा मंत्रालय में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. श्री हन्द्र वर्मा | 1-12-70 से 15-1-71 |
| 2. श्री राम समुझ | 1-12-70 से 15-1-71 |
| 3. श्री आर०पी० अडयानी | 1-12-70 से 15-1-71 |
| 4. श्री आर० के दास गुप्ता | 1-12-70 से 15-1-71 |
| 5. श्री हरनेक सिंह | 1-12-70 से 15-1-71 |
| 6. श्री ए० चौधरी | 1-12-70 से 8-1-71 |
| 7. श्री टी० सी० सांगर | 1-12-70 से 15-1-71 |
| 8. श्री सहदेव प्रसाद | 1-12-70 से 15-1-71 |

M 464 GI/70

- | | |
|-------------------------|---|
| 9. श्री एस० सी० बरमानी | 1-12-70 से 15-1-71 |
| 10. श्री एस० एन० शर्मा | 1-12-70 से 31-12-70
और
4-1-71 से 6-2-71 |
| 11. श्री ओंकार नाथ | 1-12-70 से 8-1-71 |
| 12. श्री एस० एस० पांडे | 30-11-70 से 31-12-70 |
| 13. श्री राम गोपाल | 16-12-70 से 15-1-71 |
| 14. श्री के० अभिनारायनन | 10-12-70 से 31-12-70 |
| 15. श्री के० सी भल्ला | 30-11-70 से 31-12-70 |

सं० 336, दिनांक 7 जनवरी, 1971—सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचने पर रक्षा मंत्रालय क स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी श्री के० सी० भल्ला, स्थायी सहायक को 1 जनवरी, 1971 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त किया जाता है।

सी० एल० हींगरा, अवर सचिव

सेना विभाग

सं० 336, दिनांक 19 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्ति करते हैं :

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

श्री चन्द्र भान, स्थायी अधिकार को सीविलियन स्टाफ अफसर के पद पर स्थानापन्न रूप से 26 दिसम्बर, 1970 से अगले आदेश तक, श्री पी० बी० पन्त के स्थान पर जो सेवा से निवृत्त हो गये।

डी० जे० बराट

सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

सं० 337, दिनांक 15 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री मैसूर सुब्बाराव लोक नाथ की नौसेना इंजीनियरी कालिज, भा० नौ० पो० शिवाजी, लोनावला में अस्थायी ज्येष्ठ वैज्ञानिक अफसर कोटि II के पद पर दो वर्ष की परखावधि पर।

25 नवम्बर, 1970 (पूर्वाह्न)

बी० एस० कपूर, उप सचिव

रक्षा उत्पादन विभाग

सं० 338, दिनांक 16 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

श्री वैकुण्ठा विनायक राव टुमडे, अस्थायी वरिष्ठ तकनीकी सहायक, मुख्य निरीक्षणालय नौसेना भण्डार बम्बई, इसी निरीक्षणालय में स्थानापन्न कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर, 6 अक्टूबर, 1970 (पूर्वाह्न)

श्री कमल रत्नन राय चौधरी, अस्थायी वरिष्ठ तकनीकी सहायक, युद्धपोत आयोजना अनुभाग कलकत्ता को युद्धपोत आयोजना निदेशालय, नई दिल्ली में स्थानापन्न कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर, 10 नवम्बर, 1970 (पूर्वाह्न)

रक्षा उत्पादन विभाग

सं० 339, दिनांक 25 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री प्रमोद त्रीम्बक चोबल को मुख्य निरीक्षणालय इंजीनियर्स, डिंडी, पूना में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, 10 दिसम्बर, 1970 (पूर्वाह्न)

श्रीमती थिरुवलानगदू रुवराकौटी कनकलथाको मुख्य निरीक्षणालय इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलूर में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी कनिष्ठ अधिकारी के पद पर, 14 दिसम्बर, 1970 (पूर्वाह्न)

सं० 340, दिनांक 25 जनवरी 1971—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित करते हैं :-

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री पी० डी० मागों, स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी II (स्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी), मुख्य निरीक्षणालय विशेष मोटर-गाडी, देह-रोड़ को मोटर-गाडी निरीक्षणालय, दक्षिणी जोन, मद्रास में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी I के पद पर, 26 अक्टूबर, 1970 (पूर्वाह्न)।

सं० 341, दिनांक 25 जनवरी, 1971—निम्नलिखित अधिकारी उनके सामने दी गई तिथि से सेवा निवृत्त हुआ :-

रक्षा विज्ञान सेवा

डा० एस० ए० त्रीवेदी, स्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी I, सामान्य भण्डार निरीक्षणालय, केन्द्रीय भारत, कानपुर, 28 दिसम्बर, 1970 (अप्रान्त)।

के० आर० गोयल, उपनिदेशक (कार्मिक)

राष्ट्रीय केडेट कोर निदेशालय

सं० 342, दिनांक 29 जनवरी, 1971—रक्षा लेखा विभाग से बदली होने पर राष्ट्रपति निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय केडेट कोर निदेशालयों में उनके नाम के आगे दी तारीखों से लेखा अधिकारी (सिविलियन) नियुक्त करते हैं :-

अधिकारी का नाम	तारीख
श्री बी० सेन माजुमदार	20-11-70(पूर्वाह्न)
श्री तरन सिंह लांबा	11-11-70(पूर्वाह्न)

बी० ए० बालियापारीम्पल, अवर सचिव

राष्ट्रीय केडेट कोर

सं० 343, दिनांक 10 फरवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 5431/एन०सी० सी०/पर्स(डी०)/755-III/डी०(जी० एस०-III) दिनांक 21 दिसम्बर, 1963 में दी गई शर्तों के अन्तर्गत कमीशन प्रदान करते हैं।

सीनियर डिब्रीज (नौ सेना संकथ)**सब लेफ्टि० के रूप में**

योगेन्द्र प्रताप सिंह(एन० सी०सी०एन०/11874), 27 जनवरी, 1969 पदोन्नति तथा वेतन के लिए वरिष्ठता 7 फरवरी, 1964 से।

(जहां तक उपर्युक्त अफसर का संबंध है रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या 2019, दिनांक 23 जुलाई 1970 जो कि भारत के राजपत्र में 8 अगस्त 1970 को प्रकाशित हुई थी एतद्द्वारा रद्द की जाती है)।

सं० 344, दिनांक 29 दिसम्बर, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित को कमीशन प्रदान करते हैं :-

सीनियर डिब्रीज (सेना स्कन्ध)**2/लेफ्टि० के रूप में****मध्य प्रदेश**

राधेश्याम पाणिग्रही (एन०सी०सी०/13083), 5 दिसम्बर, 1969।

पंजाब

जगजीत सिंह सिधू (एन०सी०सी०/6392) तथा राजिन्दर सिंह पवन (एन०सी०सी०/6393), 20 मार्च, 1970।

राजस्थान

कमलाकर सोपान जोली (एन०सी०सी०/9492), 1 सितम्बर 1970

गुजरात

विपिन चन्द्र लड़ाभाई किकानी (एन०सी०सी०/10149), काला भाई पटेल (एन०सी०सी०/10150), नाथालाल तेजा

भाई खुन्त (एन०सी०सी०/10151) तथा चन्दन सिंह नथूसिंग
घेलोत (एन०सी०सी०/10153), 18 अगस्त, 1970।

प्रेम लाल किशन चन्द मरवीजा (एन०सी०सी०/10152),
3 सितम्बर, 1970।

बालिका डिबीजन (सीनियर स्कूध)

2/लेफ्टि० के रूप में

तमिल नाडू

कुमारी एन० सम्पूर्णा चन्द्र (एन०सी०सी०/जी०डी०/5437),
25 फरवरी, 1970।

श्रीमती रानी कन्धास्वानी (एन०सी०सी०/जी०डी०/5436),
3 फरवरी, 1970।

मध्य प्रदेश

कुमारी प्रोमीला कपूर (एन०सी०सी०/जी०डी०/5733),
17 मार्च, 1970।

कुमारी कुमुदिनी व्यास (एन०सी०सी०/जी०डी०/5734),
17 मार्च, 1970।

उत्तर प्रदेश

कुमारी निर्मला देवी (एन०सी०सी०/जी०डी०/6676),
1 जुलाई, 1970।

केरल

कुमारी बी० प्रेमा वशी (एन०सी०सी०/जी०डी०/7828),
19 मार्च 1970।

गुजरात

कुमारी भट्ट कलावती मुगतलाल (एन०सी०सी०/जी०डी०/
8762), 18 अगस्त 1970।

कुमारी ठाकुर सुलोचना हृन्नाज (एन०सी०सी०/जी०डी०/
8763), 18 अगस्त, 1970।

जूनियर डिबीजन (वायु सेना स्कूध)

तृतीय अधिकारी के रूप में

राजस्थान

गिरधारी सिंह (एन०सी०सी०जे०ए०/31408), 8 जून
1970 पदोन्नति के लिए बरिष्ठता दिनांक 8 नवम्बर, 1965
से पूर्व दिनांकित।

जूनियर डिबीजन (सेना स्कूध)

तृतीय अफसर के रूप में

तमिल नाडू

चेलइया विन्सेंट मनोहर राज (एन०सी०सी०जे०/51596),
अलगी रीसामी नायडू गोविन्द राजुल (एन०सी०सी०/51597),
जयशीलन निर्मला कुमार सेलवाहन सेसिल जैसूदासन (एन०
सी०सी०जे०/51598), सोमा सुन्दरम जानावेलू (एन०सी०
सी०जे०/51599), करुपइया चन्द्रशेखरन (एन०सी०सी०जे०/
51600), रेथीनेवल स्वामीनाथन वल्लीवल (एन० सी० सी० जे०/
51601), सेन्वामन्गलन वरदाराजुलू उदयार रामास्वामी
(एन०सी०सी०जे०/51602), कुप्पामुथू थेवर अलगरसामी
(एन०सी०सी०जे०/51604), सोलाई गूंडर पेरीसामी (एन०सी०

सी०जे०/51605), सीनी अलगप्पा मुथियाह (एन० सी०सी०जे०/
51606), कासीलिगागुंजेनपुदूर अप्पाजी सुवैयाह
(एन०सी०सी०जे०/51607), कन्नीमुथु राजा गोपालन (एन०
सी०सी०जे०/51608), सैयद अन्तेर (एन०सी०सी०जे०/
51609), पिचैया पिल्ले शिवासुब्रा मणियन (एन०सी०सी०
जे०/51610), पौन्नन लाल धन राजन (एन०सी०सी०जे०/
52611), समनैकिन पलायम कुप्पूस्वामी गूंडर रंगा स्वामी
(एन०सी०सी०जे०/52612) मम्बावकम पार्थसारथी राघवन
(एन०सी०सी०जे०/51613) देबादसन सेमुअल संतोषम
सरगूनराज (एन०सी०सी०जे०/51614), नाडूथयन थिगा-
राजन (एन०सी०सी०जे०/51615), थन्नासी सरगूनम (एन०
सी०सी०जे०/51616), मुथइयाह सुवइया (एन०सी०सी०
जे०/51617), सबरीमुथु मरीआ माइकिल (एन०सी०सी०
जे०/51618), पनाई यान्दू राजू (एन० सी०सी०जे०/51619),
पलानीगुंडर मुसुगन (एन०सी०सी०जे०/51620), बैकटे-
सन कृष्णा कुमार (एन०सी०सी०जे०/51621), रामा समी
नायडू राजाराम पण्डी (एन०सी०सी०जे०/51622), जोधी
गौडर वेल्ली (एन०सी०सी०जे०/51623), वलीविता थेवर
बेलूचामी (एन०सी०सी०जे०/51624), सुवइयाह पिलाई
मणिकसगम (एन०सी०सी०जे०/51625), संगीली चेटियर
लोगराज (एन०सी०सी०जे०/51626), बीरासामी रफायल
देवा सुन्दरम (एन०सी०सी०जे०/51627), थानूमलयान पम्मा-
नीअप्पन (एन०सी०सी०जे०/51628), 28 अगस्त 1970।

पश्चिम बंगाल

पुरनेन्द्र सालवी (एन०सी०सी०जे०/15242), दिलीप कुमार
भट्टाचार्य (एन०सी०सी०जे०/15243), कालीदास दे (एन०
सी०सी०जे०/15244), जीवेश चन्द्र पाल (एन०सी०सी०जे०/
15245), प्रबीर कुमार चौधरी (एन०सी०सी०जे०/15246)
28 अगस्त, 1970।

पंजाब

काबल सिंह (एन०सी०सी०जे०/8127), सेर्वासिंह (एन०
सी०सी०जे०/8128), गुरचरन सिंह (एन०सी०सी०जे०/
8129), धर्मपाल वर्मा (एन०सी०सी०जे०/8130), हरीश
चन्द्र गुप्ता (एन०सी०सी०जे०/8133), मोहिन्दर सिंह सागू
(एन०सी०सी०जे०/8134), गुरुदीप सिंह (एन०सी०सी०
जे०/8135), प्रेम चन्द्र शर्मा (एन०सी०सी०जे०/8136),
कंसल किशोर धीर (एन०सी०सी०जे०/8137), गुरमेल सिंह
(एन० सी०सी०जे०/8138), अमर नाथ (एन०सी०सी०जे०/
8139), नजर सिंह (एन० सी०सी०जे०/8140), 28 अगस्त,
1970।

हरियाणा

सुभाष चन्द्र गुप्ता (एन०सी०सी०जे०/8068), 4 जून
1969।

असम

मती देव शर्मा (एन०सी०सी०जे०/483), 15 फरवरी,
1970।

मैसूर

बंगलौर संजीवप्पा वजनामा (एन०सी०सी०जे०/23440), यशवन्त मारुती राव निक्कम (एन०सी०सी०जे०/23441), कृष्णाप्पा रामचन्द्र (एन०सी०सी०जे०/23442), इन्दर सिंह डुंगर पुरिया (एन०सी०सी०जे०/23443), मगनाहल्ली बसरा-जप्पा (एन०सी०सी०जे०/23444), पेराजे मोहन दास शेटी (एन०सी०सी०जे०/23445), 28 अगस्त, 1970 ।

केरल

पुथेनवीटल रफेल जोन (एन० सी०सी०जे०/25544), कीमूरीदाथिल भुवनदासन बभुन्नावर (एन० सी०सी०जे०/25546), मैसूर सीथारामा राव आनन्द राव (एन०सी०सी०जे०/25547), कोल्लेन्तायाथू माथून्नी जोन (एन०सी०सी०जे०/25548), काइक्ल जोन थोमस (एन०सी०सी०जे०/25549), ईरब उञ्जेर (एन०सी०सी०जे०/25551), चे रियन बेबी कुट्टी (एन०सी०सी०जे०/25552), मानाथानाथ कोवा बचलील संकरा थुन्नी नायर (एन०सी० जी०/25553), 28 अगस्त, 1970 ।

उड़ीसा

नारायण दास (एन०सी०सी०जे०/61384), 15 फरवरी, 1970, टांकेबर विस्वाल (एन०सी०सी०जे०/61394), विश्वम्भर मलिक (एन०सी०सी०जे०/61395), आनन्द चन्द्र दास (एन०सी०सी०जे०/61396), गोविन्द चन्द्र रथ (एन०सी०सी०जे०/61397), परितोष भूषण दत्ता (एन०सी०सी०जे०/61398) बनबैर सबूत (एन०सी०सी०जे०/61399), रनजीत कुमार दास (एन०सी०सी०जे०/61400), मनरंजन दास (एन०सी०सी०जे०/61402), डेनियल जोजो (एन०सी०सी०जे०/61404), 28 अगस्त, 1970 ।

राजस्थान

नारायण सिंह सोधा (एन० सी० सी० जे०/31414), पिशोरी लाल (एन० सी० सी० जे०/31415), रघुनाथ सिंह (एन० सी० सी० जे०/31416), गंगा प्रसाद मिश्रा (एन० सी० सी० जे०/31417), महेश चन्द्र शर्मा (एन० सी० सी० जे०/31418), मुर्लीधर शर्मा (एन० सी० सी० जे०/31419)—28 अगस्त, 1970 ।

गुजरात

प्रताप सिंह रामजीभाई दोदिया (एन० सी० सी० जे०/35575) —28 अगस्त, 1970 ।

जूनियर डिबीजन (नौसेना स्कन्ध)**तृतीय अफसर के रूप में****महाराष्ट्र**

भीम राव भारोतराव बान्दिले (एन० सी० सी० जे० एन०/81511)—7 जुलाई, 1968 ।

पंजाब

रविन्दर सिंह मेहता (एन० सी० सी० जे० एन०/8125)—5 जुलाई, 1970 ।

असम

तीर्थनाथ बोरठाकुर (एन० सी० सी० जे० एन०/487), श्री गौरी प्रसाद बह्वा (एन० सी० सी० जे० एन०/488)—5 जुलाई, 1970 ।

मैसूर

पुसुर वैकटरामन (एन० सी० सी० जे० एन०/23429), गौरीविदनूर रामा राव आविनारायणा राव (एन० सी० सी० जे० एन०/23430), रघुपती राव (एन० सी० सी० जे० एन०/23432), संतोष पोन्नूरंगम सेमुअल (एन० सी० सी० जे० एन०/23433), पादुविदरी राघवेन्द्र नवदा (एन० सी० सी० जे० एन०/23434), होलेनर सीपुर नारायणास्वामी सत्यनारायण (एन० सी० सी० जे० एन०/23435), अंतोनी डी० सोजा (एन० सी० सी० जे० एन०/23436), तिलक हनुमंत राव नागराजन (एन० सी० सी० जे० एन०/23437), अब्दुल रशीद (एन० सी० सी० जे० एन०/23438), भंडारमाने चन्द्रशेखर हेगडे (एन० सी० सी० जे० एन०/23439)—5 जुलाई, 1970 ।

उड़ीसा

मोहन चन्द गौड (एन० सी० सी० जे० एन०/61392)—5 जुलाई, 1970 ।

राजस्थान

सुरेश चन्द सैनी (एन० सी० सी० जे० एन०/31413)—5 जुलाई, 1970 ।

गुजरात

अनिल कुमार मणिशंकर जोशी (एन० सी० सी० जे० एन०/35369), कान्ती लाल रणछोड लखानी (एन० सी० जे० एन०/35370)—5 जुलाई, 1970 ।

जूनियर डिबीजन (वायु सेना स्कन्ध)**तृतीय अफसर के रूप में****तमिल नाडू**

सेल्लपामपलायम वैयापुरी सक्तीबेलू (एन० सी० सी० जे० ए०/51555) कोल्लप्पन चेरी अलगिया मानवालन (एन० सी० सी० जे० ए०/51562)—8 जून, 1970 ।

मध्य प्रदेश

मोहम्मद शफी (एन० सी० सी० जे० ए०/5741)—8 जून, 1970 ।

असम

नोन्देश्वर बोरपात्रागोहियन (एन० सी० सी० जे० ए०/486)—8 जून, 1970 ।

बालिका डिबीजन (जूनियर स्कन्ध)**तृतीय अफसर के रूप में****विस्ली**

श्रीमती नरिन्दर गिल (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/15050) तथा कुमारी भारती बनर्जी (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/15051)—13 नवम्बर, 1969 ।

मैसूर

कुमारी प्रभा श्री कृष्णा सबनिस (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/18557)—17 अगस्त, 1970 ।

कुमारी बी० एन० निर्मला (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/18558)—25 अगस्त, 1970 ।

गुजरात

कुमारी सैयद रज़िया सुल्ताना (एन० सी० सी० जे०/जी० डी०/22037)—1 जून, 1970 ।

सं० 345 तारीख 4 जनवरी, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं :—

सीनियर डिप्टीजन (सेना स्कन्ध)**कैप्टन मैसूर के रूप में****पश्चिम बंगाल**

एस० के० भक्त (एन० सी० सी० /2454)—14 अगस्त, 1969 ।

एच० डी० विस्वास (एन० सी० सी०/2459)—2 अप्रैल, 1970 ।

मैसूर

ई० एस० कृष्णाया (एन० सी० सी०/7025)—23 सितम्बर 1970 ।

गुजरात

पी० एल० भिंगे (एन० सी० सी०/9630)—1 अक्टूबर, 1970 ।

लेफ्ट कैप्टन के रूप में**तमिल नाडु**

पी० एस० जेसुदसन (एन० सी० सी०/1654)—30 अगस्त, 1970 ।

मध्य प्रदेश

बी० के० राय (एन० सी० सी०/2383)—5 दिसम्बर, 1967 ।

पश्चिम बंगाल

पी० आर० चौधरी (एन० सी० सी०/2626) तथा के० सी० चटर्जी (एन० सी० सी०/2625)—28 जून, 1969 ।

पी० मुकर्जी (एन० सी० सी०/2645)—29 सितम्बर, 1969 ।

आर० के० भक्ता (एन० सी० सी०/2648)—30 जनवरी, 1970 ।

आर० के० राय (एन० सी० सी०/2659)—27 जून, 1970 ।

बिहार

एम० क्यू० तञ्जीद (एन० सी० सी०/3456)—19 अक्टूबर, 1966 ।

उत्तर प्रदेश

बी० आर० कपूर (एन० सी० सी०/4372)—28 जून, 1969 ।

हरियाणा

टी० आर० वैद (एन० सी० सी०/5943)—26 जुलाई, 1967 ।

बी० एम० शर्मा (एन० सी० सी०/6031)—27 जून, 1970 ।

मैसूर

एम० एन० हेमचन्द्र (एन० सी० सी०/7132)—11 अक्टूबर 1970 ।

एन० एस० बालिया (एन० सी० सी०/7116)—28 सितम्बर, 1970 ।

एस० जी० धिवरी (एन० सी० सी०/7250)—1 अक्टूबर, 1970 ।

अहमदुल्ला खान (एन० सी० सी०/7087)—30 जनवरी, 1970 ।

केरल

एम० जी० कुजाचन (एन० सी० सी०/7709)—27 जून, 1970 ।

एम० के० अब्राहम (एन० सी० सी०/7702)—29 सितम्बर, 1969 ।

गुजरात

ए० एम० उपाध्याय (एन० सी० सी०/9773)—28 सितम्बर, 1970 ।

2 लेफ्टि लेफ्टि के रूप में**पश्चिम बंगाल**

ए० के० भट्टाचार्य (एन० सी० सी०/3099)—26 जून, 1969 ।

ए० के० बनर्जी (एन० सी० सी०/3071)—30 जून, 1968 ।

उत्तर प्रदेश

देवेन्द्र स्वरूप (एन० सी० सी०/5236)—7 अप्रैल, 1970 ।

बिल्ली

एस० पी० वेदी (एन० सी० सी०/5624)—26 जून, 1969 ।

हरियाणा

एस० आर० नेहरा (एन० सी० सी०/10522)—तथा एम० डी० गुप्ता (एन० सी० सी०/10523)—1 अगस्त, 1970 ।

मैसूर

एस० जी० वेलारी (एन० सी० सी०/7376)—3 जनवरी, 1970 ।

आर० सी० होनाबाद (एन० सी० सी०/7482) तथा ए० वी० शिवय्यानामथ (एन० सी० सी०/7483)—18 अगस्त, 1970 ।

एस० एस० नेसारीकर (एन० सी० सी०/7465) तथा जी० एस० कल बुर्गी (एन० सी० सी०/7464)—1 अगस्त, 1970 ।

केरल

एम० जे० जोय (एन० सी० सी०/8035)—1 अप्रैल, 1968 ।

उड़ीसा

के० के० पण्डा (एन० सी० सी०/8957)—30 दिसम्बर, 1967 ।

डी० सी० दास (एन० सी० सी०/8982)—26 जून, 1969 ।

एस० एस० सूत्रसल्लया (एन० सी० सी०/8986)—1 जनवरी, 1969 ।

राजस्थान

पी० एन० श्री वास्तव (एन० सी० सी०/9425)—13 सितम्बर, 1970 ।

महावीर हिह (एन० सी०/9454) 30 मार्च 1970

गुजरात

के० डी० पटेल (एन० सी० सी०/10095)—6 अक्टूबर, 1970 ।

बी० एस० पाण्डया (एन० सी० सी०/10097)—10 अक्टूबर 1970

सीनियर डिबीजन (वायुसेना) स्कंध

फ्लाइट लेफ्टि स्क्वाड्रन लीडर के रूप में

पश्चिम बंगाल

डी० मुखर्जी (एन० सी० सी० ए०/2455)—29 अगस्त, 1969 ।

फ्लाइट अफसर फ्लाइट लेफ्टि के रूप में

बिहार

बी० जी० शाह (एन० सी० सी० ए०/3652)—16 जुलाई, 1969 ।

फ्लाइट अफसर फ्लाइट के रूप में

हरियाणा

एस० के० जैन० (एन० सी० सी० ए०/10521)—20 जुलाई, 1970 ।

जूनियर डिबीजन (वायु सेना स्कंध)

स्रोत्र अधिकारी द्वितीय अधिकारी के रूप में

राजस्थान

गिरधारी सिंह (एन० सी० सी० जे० ए०/31408)—8 नवम्बर, 1968 ।

सं० 346, दिनांक 1 फरवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 22 दिसम्बर, 1970 से राष्ट्रीय कैंडेट कोर से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं । उनके नामों के संपन्न कोष्ठकों में दिया गया समय राष्ट्रीय कैंडेट कोर में बरिष्ठता अथवा पदोन्नति अथवा किसी अन्य लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा :—

सीनियर डिबीजन (सेना स्कंध)**उत्तर प्रदेश**

मेजर डी० एस० पाण्डे (एन० सी० सी०/4119), (1 नवम्बर 1969 से 21 दिसम्बर 1970) ।

केरल

कैप्टन के० वी० देवासिया (एन० सी० सी०/7662), (1 जुलाई 1970 से 21 दिसम्बर, 1970) ।

आंध्र प्रदेश

ले० पी० रयात्ता (एन० सी० सी०/8486), (1 जुलाई, 1970 से 21 दिसम्बर 1970) ।

बिहार

लेफ्टि० रेहनी श्याम सिन्हा (एन० सी० सी०/3935), (14 जुलाई 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

कैप्टन के० डी० बैनर्जी (एन० सी० सी०/3427), (1 फरवरी 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक),

उत्तर प्रदेश

लेफ्टि० मान प्रकाश (एन० सी० सी०/5134), (1 जून 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

असम

लेफ्टि० एच० घुमजाओ सिंह (एन० सी० सी०/6819), (16 अक्टूबर 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

गुजरात

कैप्टन के० एम० आर्चाय (एन० सी० सी०/9642), तथा मेजर एच० एन० जानी (एन० सी० सी०/9604), (1 अक्टूबर 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

सीनियर डिबीजन (वायु सेना स्कंध)**आंध्र प्रदेश**

फ्लाइट अफसर पी० बेंकटारामन (एन० सी० सी० ए०/8425), (3 जून 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक), फ्लाइट अफसर जी० नारायण (एन० सी० सी० ए०/8789), (1 सितम्बर 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

सं० 347 दिनांक 1 फरवरी 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 22 दिसम्बर 1970 से राष्ट्रीय कैंडेट

कोर से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं। उनके नामों के सामने कोष्ठकों में दिया गया समय राष्ट्रीय कैंडेट कोर में बरिष्ठता अथवा पदोन्नति अथवा किसी अन्य लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा :—

सीनियर डिबीजन (सेना स्कन्ध)

मध्य प्रदेश

कैप्टन आर० के० राय (एन० सी० सी०/1894), (25 जुलाई 1969 से 21 दिसम्बर 1970),

लेफ्टि० पी० के० देशमुख (एन० सी० सी०/2150), (1 अप्रैल 1969 से 21 दिसम्बर 1970)।

बिहार

कैप्टन एच० पी० सिंह (एन० सी० सी०/3564) (25 जनवरी 1969 से 21 दिसम्बर 1970)।

उत्तर प्रदेश

लेफ्टि० आर० एस० यादव (एन० सी० सी०/4950), (6 अप्रैल 1970 से 21 दिसम्बर 1971)।

हिमाचल प्रदेश

लेफ्टि० पी० एस० रावत (एन० सी० सी०, 6466) (14 मार्च 1967 से 21 दिसम्बर 1970)।

केरल

लेफ्टि० ए० आर० बालाकृष्णा पिल्ले (एन० सी० सी०/7865) (18 जुलाई 1968 से 21 दिसम्बर 1970)।

2/लेफ्टि० टी० टी० डेनियल (एन० सी० सी०/7948), (1 मार्च 1968 से 21 दिसम्बर 1970)।

2/लेफ्टि० पी० वी० चक्कुनी (एन० सी० सी०/7949) (1 अगस्त 1968 से 21 दिसम्बर 1970)।

लेफ्टि० के० जे० जोसेफ (एन० सी० सी०/7782) (1 अगस्त 1968 से 21 दिसम्बर 1970)।

राजस्थान

लेफ्टि० डी० एस० यादव (एन० सी० सी०/9286) (28 अगस्त 1969 से 21 दिसम्बर 1970)।

2/लेफ्टि० ओ० जार्ज (एन० सी० सी०/9453) (17 सितम्बर 1969 से 21 दिसम्बर 1970)।

लेफ्टि० एम० आई० खान (एन० सी० सी०/9384) (11 सितम्बर 1969 से 21 दिसम्बर 1970)।

कैप्टन जे० एन० बोहरा (एन० सी० सी०/9150) (26 जुलाई 1969 से 21 दिसम्बर 1970)।

गुजरात

2/लेफ्टि० वी० सी० पटेल (एन० सी० सी०/10094) (1 फरवरी 1969 से 21 दिसम्बर 1970)।

सीनियर डिबीजन (वायु सेना स्कन्ध)

मंसूर

फ्लाईंग अफसर जी० शिवराम प्रसाद (एन० सी० सी०/7391) (1 अगस्त 1968 से 21 दिसम्बर 1970)।

सीनियर डिबीजन (सेना स्कन्ध)

तमिल नाडु

कैप्टन एस० कुलन्दाइनाथन् (एन० सी० सी०/1278), (15 जून 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

लेफ्टि० ए० जी० रामचन्द्रनाथय्यर (एन० सी० सी०/1511) (18 मई 1968 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

मध्य प्रदेश

2/लेफ्टि० यशवन्त सिंह (एन० सी० सी०/13055), 4 जुलाई 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

उत्तर प्रदेश

लेफ्टि० के० सी० शाह जगती (एन० सी० सी०/5019) (23 जुलाई 1968 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

कैप्टन के० एस० नागर (एन० सी० सी०/4250) (1 अगस्त 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

लेफ्टि० पी० वी० वर्मा (एन० सी० सी०/4674) (1 जुलाई 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

लेफ्टि० ए० पी० वैजल (एन० सी० सी०/4253) (1 फरवरी 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक), लेफ्टि० आर० एस० त्रिपाठी (एन० सी० सी०/4255) (1 अक्टूबर 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

पंजाब

2/लेफ्टि० ए० एस० गिन्न (एन० सी० सी०/6248) (24 नवम्बर 1964 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

लेफ्टि० के० जे० सिंह (एन० सी० सी०/6243), (1 नवम्बर 1967 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

2/लेफ्टि० बी० एल० कपूर (एन० सी० सी०/6376) (4 जुलाई 1968 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

लेफ्टि० जगतार सिंह (एन० सी० सी०/6054) (22 दिसम्बर 1966 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

असम

लेफ्टि० एस० के० बर्धन (एन० सी० सी०/6558) (19 दिसम्बर 1967 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

2/लेफ्टि० शिव कुमार तिवारी (एन० सी० सी०/6646) (1 जुलाई 1964 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

मंसूर

लेफ्टि० के० श्रीनिवासासाराव (एन० सी० सी०/7139) (15 अक्टूबर 1968 से 2 नवम्बर 1970), लेफ्टि० ए० एल० पिउस (एन० सी० सी०/7207) (15 अक्टूबर 1968 से 2 नवम्बर 1970 तक), लेफ्टि० जी० नागभूषण चारी (एन० सी० सी०/7215) (31 जुलाई 1968 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

लेफ्टि० एच० कृष्णप्पा (एन० सी० सी०/7209) (1 अगस्त 1968 से 2 नवम्बर 1970 तक), 2/लेफ्टि० एस० होन्नाइया

(एन० सी० सी०/7493) (15 अक्टूबर 1968 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

केरल

कैप्टन के० जी० मुरारीनायर (एन० सी० सी०/7609) (1 जून 1967 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

गुजरात

लेफ्टि० एम० एल० शाह (एन० सी० सी०/9967) (15 नवम्बर 1969 से 27 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० एच० बी० नायक (एन० सी० सी०/9695) (22 जून 1968 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० आर० सी० पटेल (एन० सी० सी०/10083) (15 जून 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

मेजर एन० एन० उदवादिवा (एन० सी० सी०/9628) (27 जून 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० डी० बी० मेहता (एन० सी० सी०/9856) (1 दिसम्बर 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० के० एम० पटेल (एन० सी० सी०/9901) (29 दिसम्बर 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० एम० एस० पटेल (एन० सी० सी०/9961) (15 जून 1966 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

कैप्टन एन० एम० पटेल (एन० सी० सी०/9631) (लेफ्टि० आर० एस० कलोडवाल (एन० सी० सी०/9707); लेफ्टि० बी० एन० साठे (एन० सी० सी०/9657); लेफ्टि० एन० बी० जोगलेकर (एन० सी० सी०/9644); लेफ्टि० वाई० ए० राइकर (एन० सी० सी०/9782); तथा 2/लेफ्टि० एल० एफ० रवारी (एन० सी० सी०/9734) (1 जुलाई 1964 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० एन० टी० शेठ (एन० सी० सी०/9632) (21 अगस्त 1961 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० के० आर० दीक्षित (एन० सी० सी०/9692), (14 अक्टूबर 1962 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० आर० एम० ठक्कर (एन० सी० सी०/9711) (1 जुलाई 1965 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० ए० पी० दलवादी (एन० सी० सी०/9820) (15 जून 1965 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० डी० जे० जानी (एन० सी० सी०/9900) (4 जून 1967 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० ए० डी० सतबेदी (एन० सी० सी०/9870) (1 जून 1966 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० आर० आर० राठौर (एन० सी० सी०/9957) (15 जून 1966 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० एम० एम० ओजा (एन० सी० सी०/9899) (14 जून 1966 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० टी० जी० शर्मा (एन० सी० सी०/9749) (11 जून 1965 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० एन० पी० शास्त्री (एन० सी० सी०/9844) (15 जून 1965 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० एस० स्वादिवा (एन० सी० सी०/10068) (30 मार्च 1966 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० टी० एस० देवीदाम (एन० सी० सी०/9704), (15 जून 1963 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० आर० जे० सरवैया (एन० सी० सी०/9811) (18 सितम्बर 1967 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० एस० सी० शेठ (एन० सी० सी०/9843) (1 दिसम्बर 1965 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

कैप्टन पी० बी० वैद्या (एन० सी० सी०/9601) (8 अगस्त 1958 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० पी० डी० देसाई (एन० सी० सी०/9849) (12 जून 1964 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० एन० जे० पटेल (एन० सी० सी०/9719) (1 फरवरी 1966 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० जी० बी० गगलानी (एन० सी० सी०/9947) (15 जून 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० सी० सी० व्यास (एन० सी० सी०/10062) । (1 फरवरी 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० एन० एम० पटेल (एन० सी० सी०/9867) (1 दिसम्बर 1965 से 2 दिसम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० के० एम० पटेल (एन० सी० सी०/9779) (1 अक्टूबर 1964 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० आर० एम० देसाई (एन० सी० सी०/9852) (1 जुलाई 1966 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

2/लेफ्टि० एम० पी० द्विवेदी (एन० सी० सी०/9818) (1 अगस्त 1964 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० एल० वी० राठौड़ (एन० सी० सी०/9816) (15 जून 1967 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० एन० आर० पटेल (एन० सी० सी०/9839) (31 मई 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० बी० एम० देसाई (एन० सी० सी०/9785) (18 जुलाई 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० डी० सी० बन्सल (एन० सी० सी०/10037) (15 जून 1970 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० सी० डी० देसाई (एन० सी० सी०/9754) (1 फरवरी 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

लेफ्टि० एस० एन० दाते (एन० सी० सी०/9877) (1 अगस्त 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक) ।

जम्मू तथा कश्मीर

2/लेफ्टि० आर० पी० मन्हास (एन. सी० सी०/10282),
(1 अक्तूबर 1967 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

लेफ्टि० एम० एल० रेना (एन० सी० सी०/10252) (31
जुलाई 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

लेफ्टि० भार० पी० शर्मा (एन० सी० सी०/10247) (1
जुलाई 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

2/लेफ्टि० जी० एल० धर (एन० सी० सी०/10285) (28
फरवरी 1968 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

2/लेफ्टि० बलदेव सिंह (एन० सी० सी०/10274) 1 मई
1970 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

लेफ्टि० वाई ए० वाजोवाला (एन० सी० सी०/10276)
(21 जुलाई 1966 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

सोनियर डिबीजन (नौसेना स्कन्ध)**गुजरात**

सब लेफ्टि० एन० बी० दावे (एन० सी० सी० एन०/9978)
(15 अगस्त 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

सोनियर डिबीजन (वायु सेना स्कन्ध)**केरल**

फ्लाईंग अफसर पी० जान (एन. सी० सी०/7669) (19
सितम्बर 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

फ्लाईंग लेफ्टि० एम० एल० कौल (एन० सी० सी० एन०/
10223) (23 मई 1969 से 2 नवम्बर 1970 तक)।

सं० 348 दिनांक 1 फरवरी 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित
अधिकारियों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से राष्ट्रीय
कैबेट कोर से सेवा निवृत्त करते हैं :—

सोनियर डिबीजन (सेना स्कन्ध)**आंध्र प्रदेश**

लेफ्टि० एन० मुनास्वामी नायडू (एन० सी० सी०/8673),
18 दिसम्बर 1967।

केरल

कैप्टन के० वी० जैकव (एन० सी० सी०/7621)—1 सितम्बर
1970।

सोनियर डिबीजन (सेना स्कन्ध)**मध्य प्रदेश**

2/लेफ्टि० आर० पी० अवध्या (एन० सी० सी०/2233),
10 जनवरी 1968।

लेफ्टि० एम० पुट्टासुबाना (एन० सी० सी०/7173)—
10 जून 1969।

लेफ्टि० करिगुध्या (एन० सी० सी०/7323)—9 जुलाई,
1968।

म० 349 दिनांक 8 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित
अधिकारी को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से जूनियर (सेना

स्कन्ध) से जूनियर डिबीजन (नौसेना स्कन्ध) में स्थानान्तरित
करते हैं :—

जूनियर डिबीजन (नौसेना स्कन्ध)**उड़ीसा**

तृतीय अधिकारी हिमांगू भूषण दाम (पुराना पी० नं० एम०
सी० सी० जे०/61301) (नया पी० नं० एन० सी० सी० जे० एन०/
61301) 5 जुलाई 1970।

सं० 350 दिनांक 19 जनवरी 1971—**शुद्धिपत्र**

(I) भारत के राजपत्र दिनांक 12 जुलाई 1969 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1649, दिनांक 27 जून
1969 में “जूनियर डिबीजन (सेना स्कन्ध)” और “तृतीय
अधिकारियों के रूप में” उपशीर्षकों के अन्तर्गत “हिमाचल प्रदेश”
के नीचे “राम पाल मिश्रा (एन० सी० सी० जे०/23716)” के
स्थान पर “राम पाल मिश्रा (एन० सी० सी० जे०/23745)”
पढ़ें।

(II) भारत के राजपत्र दिनांक 19 सितम्बर 1970 में
प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2464, दिनांक
26 अगस्त 1970 में “जूनियर डिबीजन (नौसेना स्कन्ध)” और
“तृतीय अधिकारियों के रूप में” उपशीर्षकों के अन्तर्गत “दिल्ली”
के नीचे “फूल सिंह रेवालिया (एन० सी० सी० जे० एन०/5737)
के स्थान पर “फूल सिंह रेवालिया (एन० सी० सी० जे० एन०/
6309)” पढ़ें।

वी० फराख, डाइरेक्टर आफ पर्सनल

निरीक्षण महानिदेशालय**(युद्धपोत परियोजना निदेशालय)**

सं० 351 दिनांक 15 जनवरी, 1971—निवर्तन की आयु
को प्राप्त होने पर, डी० डब्ल्यू० पी०, रक्षा मंत्रालय के स्थायी
अधीक्षक श्री बी० एल० पासी, का निवर्तन संस्थापन को अन्तरण
किया जाता है। दिनांक 15-1-1971 (प्रातः)

सैन्य चिकित्सा सेवा महानिदेशालय

सं० 352 दिनांक 4 फरवरी, 1971—राष्ट्रपति श्री जे०
के० गुप्ता, स्थायी सहायक, को 12-10-1970 से 22-12-1970
तक श्री प्रकाश प्राशर, स्थायी अधीक्षक, जो कि अवकाश पर थे,
के स्थान पर अस्थायी अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने की कृपा
करते हैं।

रघवीर सिंह, सहायक मुख्य
[प्रशासनिक अधिकारी

सं० 354 दिनांक 27 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित नियुक्ति करते हैं :—

कमान और स्टाफ

एक कोर के आर्टिलरी ब्रिगेड के कमाण्डर के रूप में
ब्रिगेडियर एम० एस० ओवेराय (आई० सी० 1353),
आर्टिलरी—29 अप्रैल, 1970।

इनफैंट्री ब्रिगेड के कमाण्डर के रूप में

लेफ्टीनैन्ट कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर), ए० पी० भारद्वाज,
(आई० सी०-3966) वी० एस० एम०—गार्ड्स 30 जून, 1970

एक मान्यनैत ब्रिगेड के कमांडर के रूप में

लैफ्टिनेंट कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर) जे० सी० जोशी (आई० सी०-4186) पारा,—18 अक्टूबर, 1970।

लैफ्टि० कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर) डब्ल्यू० एस० बक्शी, (आई० सी०-4189) राज राइफल—8 दिसम्बर, 1970।

लैफ्टिनेंट कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर) ए० एच० ई० मिचिगन (आई० सी०-4190) ग्रेनेडियर—9 दिसम्बर, 1970।

एक आर्टी ब्रिगेड के कमांडर के रूप में

लैफ्टिनेंट कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर) जगजीत सिंह आई० सी०-1541) आर्टिलरी—23 दिसम्बर, 1969।

सं० 354 दिनांक 27 जनवरी, 1971—

सेना मुख्यालय**जी० एस० शाखा**

अधिवर्ष आयु प्राप्त करने पर, श्री जे० एस० भटनागर स्थायी अधीक्षक को पेंशन सिद्धि में स्थानांतरित—3 दिसम्बर, 1970।

सं० 355 दिनांक 22 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्ति करते हैं :—

सेना मुख्यालय**ई० एन सी० शाखा**

डी० जी० ए० एफ० एम० एस० से बदली होने पर श्री जे० के० गुप्ता, स्थायी सहायक को ए० एफ० एच० क्यू० सिविल सचिव में अधीक्षक के पद पर 22 दिसम्बर 1970 अपराह्न से स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परब अवधि पर, श्री आर० सी० सूद के स्थान पर जिन की बदली कर दी गई थी।

बिक्रित्सा निर्वेशालय

1. श्री आर० पी० भटनागर, स्थाई अधीक्षक को स्थानापन्न रूप से सी० एस० ओ० के पद पर दिनांक 17 नवम्बर 1970 से 26 दिसम्बर 1970 तक श्री आर० सी० जैन, सी० एस० ओ० के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

2. श्री के० बी० सिंह, स्थायी सहायक को स्थानापन्न रूप से अधीक्षक के पद पर दिनांक 17 नवम्बर 1970 से 26 दिसम्बर 1970 तक श्री आर० पी० भटनागर अधीक्षक के स्थान पर जिनकी पदोन्नति कर दी गई थी।

3. श्री महाराजकृष्ण, स्थाई अधीक्षक को स्थानापन्न रूप से सी० एस० ओ० के पद पर दिनांक 2 दिसम्बर, 1970 से 2 जनवरी 1971 तक श्री विजय बहादुर सी० एस० ओ० के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

4. श्री के० एल० गुप्ता, स्थाई सहायक को स्थानापन्न रूप से अधीक्षक के पद पर दिनांक 2 दिसम्बर 1970 से 2 जनवरी 1971 तक श्री महाराजकृष्ण अधीक्षक के पद पर जिनकी पदोन्नति कर दी गई थी।

5. श्री आर० सी० चेटल, स्थाई सहायक को स्थानापन्न रूप से अधीक्षक के पद पर दिनांक 2 नवम्बर 1970 से 19 दिसम्बर 1970 तक श्री जगजीत सिंह अधीक्षक के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

आर० डी० जैन, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

(एम० एस० ब्रांच)

सं० 356 दिनांक 27 जनवरी, 1971—श्री प्रकाश चंद सूद स्थाई अधीक्षक 22 दिसम्बर 1970 से सेवा निवृत्ति की आयु होने पर पेंशन सिद्धि में बदली किया गया।

डी० जे० बैरट, सहायक सी० ए० ओ०

सं० 357 दिनांक 4 फरवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित जनरल अफसर को 13 जनवरी, 1971 से उन की स्थल सेनाध्यक्ष पद की अवधि तक 61 रिसाला के कर्नल के रूप में नियुक्त करते हैं :—

जनरल एस० एच० एफ० जे० मानिकशा (आई० सी० -14 एम० सी०)।

पद्मनाभ कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

सं० 458, दिनांक 27 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्ति करते हैं :—

बल सेना मुख्यालय**डी० डी० एम० टी० (ए०) के रूप में**

ब्रिगेडियर एस० के० जोशुआ (आई० सी० 957), 23 नवम्बर 1970।

डायरेक्टर ऑफ बर्कस (सेना) ई० एन० सीज ब्रांच के रूप में ब्रिगेडियर टी० बी० नन्दा (आई० सी० 1001), इन्जीनियर्स, 25 नवम्बर 1970।

डायरेक्टर ऑफ बर्कस (वायु) इ० एन० सीज ब्रांच के रूप में लैफ्टिनेंट कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर) आर० के० कालरा (आई० सी० 4205), इन्जीनियर्स, 9 नवम्बर 1970।

कान्तिचन्द्र बोस, उप सचिव

सं० 359, दिनांक 23 जनवरी 1971—राष्ट्रपति सहर्ष निम्ननियुक्तियां करते हैं :—

नियमित सेवा**नियमित कमीशन**

आपत्कालीन कमीशन त्यागने पर अपने विरुद्ध दफाई गई तिथियों से बरीयता तथा बेतन उद्देश्यों सहित 16 अप्रैल 1970 से लैफ्टिनेंट हुए।

जसपाल सिंह सेठी (बी० ई० 1108 अब बी० 251) आर० बी० सी०, 11 अक्टूबर 1966।

राजवन्त सिंह बाजवा (बी० ई० 1123 अब बी० 252) आर० बी० सी०, गुरचरन सिंह मोगां (बी० ई० 1125 अब बी० 253), आर० बी० सी०, 18 जनवरी 1967 ।

गोविन्द स्वरूप श्रीवास्तव (बी० ई० 1109 अब बी० 254), आर० बी० सी०, 11 अक्टूबर 1966 ।

सूर्यपाल सिंह (बी० ई० 1118 अब बी० 255), आर० बी० सी० 12 अक्टूबर 1966 ।

श्रवण कुमार बिरनोई (बी० ई० 1106 अब बी० 256), आर० बी० सी०, 11 अक्टूबर 1966 ।

(अधोरिटी : ए० आई० 219/50 के प्रसंग में पढ़ा जाये भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या ए०/00080/जी०/आर० बी०-1/819-आर०/डी० (क्यू० एस०) तारीख 4 मई 1965) ।

बी० एस० राघवन, अवर सचिव

सं० 360, दिनांक 20 जनवरी 1971— राष्ट्रपति ए० आई० 222/57 के उपबधों के अधीन जो रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 15158/डी० जी० ए० एफ०एम० एस०/एम० एन० एस०/1638/एस० डी० मेडिकल) दिनांक 31 दिसम्बर 1966 के साथ पढ़ा जाये, निम्नलिखित नर्सिंग अफसर की उस के नाम के समाने दी गई तारीख से वेतन तथा पदोन्नति के लिये वरिष्ठता की पूर्ण तारीख नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा (अस्थायी) लेफ्टिनेंट के रूप में

कुमारी बिसुवन डिगडो, (एन० एस० 14695), 21 नवम्बर 1969 ।

तारीख 21 नवम्बर 1967 से वरिष्ठता सहित

सं० 361, दिनांक 29 जनवरी 1971—राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 222/57, यथा संशोधित, के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा (अस्थायी)

लेफ्टिनेंट के रूप में (कुमारी पीजीभू बासन्धा कुमारी (एन० एस० 14766), 1 जुलाई 1970 ।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

सेनिक इंजीनियर सेवाएं

सं० 362, दिनांक 22 जनवरी 1971—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्ति की :—

श्री पी० सी० सिबल स्थाई सुपरिन्टेन्डेन्ट नौ० आर० I तथा ए० ई० ई० अस्थाई को अपने कार्य के अतिरिक्त जी० ई० (पी०) न० I मिसामारी के वर्तमान कार्य के करने के लिए दिनांक 24 अप्रैल 1970 से 10 जून 1970 तक नियुक्त किया गया ।

श्री डी० पी० माथुर स्थाई सुपरिन्टेन्डेन्ट कलैरीकल तथा अस्थाई ए० ओ० II को अपने कार्य के अतिरिक्त 2 जून 70 से 4 जुलाई 1970 तक सी० ई० सैनटर्ल, जोन के वफतार में ए० ओ० I का पूर्ण कार्य करने के लिए नियुक्त किया ।

बी० ए० वलियापरमापिल, अवर सचिव

सं० 363, दिनांक 25 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित आपाती कमीशन अधिकारी को दिनांक 1-8-1968 से थल सेना अनुदेश 13/एस०/65 के अन्तर्गत आपाती आपाती कमीशन छोड़ देने की अनुमति देते हैं । आपाती कमीशन अधिकारी को जिसे स्थायी कमीशन प्रदान की गई है, पारस्परिक वरियता बही रहेगी जो कि आपाती कमीशन से सम्बन्धित राजपत्र में निर्धारित की गई है । इसको इसी तारीख से 2/लेफ्टिनेन्ट के पद पर जिसकी ज्येष्ठता पदोन्नति के लिए 15-7-1965 है । किन्तु वेतन में वार्षिक वृद्धि के लिए 26-1-1964 है, स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं । ज्येष्ठता के अनुसार इस अधिकारी को 1-8-1968 से लेफ्टिनेन्ट के पद पर, किन्तु इसकी ज्येष्ठता 15-7-67 से पदोन्नति की जाती है ।

स्थायी कमीशन

पी० एस० सूर्य पन्डियन (ई० सी० 54666 अब आई० सी० 20801), इन्जीनियर्स ।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

सं० 364, दिनांक 22 जनवरी 1971—परख अवधि पूरी होने पर राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की नियुक्ति को पक्का करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टेन एच० एस० भाटिया (एम० एस०-7983), ए० एम० सी०, 22 जुलाई 1968 ।

कैप्टेन जी० बी० रमाना, (एम० एस०-8058), ए० एम० सी०, 27 जनवरी 1969 ।

कैप्टेन एस० बी० चन्दीरकर, (एम० एस०-8059), ए० एम० सी०, 27 जनवरी 1969 ।

कैप्टेन के० पी० ऊश्री, (एम० एस०-8060), ए० एम० सी०, 27 जनवरी 1969 ।

कैप्टेन बी० के० मोहनती (एम० एस०-8061), ए० एम० सी०, 27 जनवरी 1969 ।

कैप्टेन वाई० एस० भटनागर, (एम० एस०-8073), ए० एम० सी०, 13 अप्रैल 1969 ।

कैप्टेन बी० इरुवू० महाजन, (एम० एस०-8079), ए० एम० सी०, 13 अप्रैल 1969।

कैप्टेन एन० ए० एन० मूर्ति (एम० एस० 8081), (11999), ए० एम० सी०, 13 अप्रैल 1969।

कैप्टेन ए० एन० दान, (एम० एस० 8097), ए० एम० सी०, 13 अप्रैल 1969।

लेफ्टिनेन्ट ए० के० मालवीय, (एम० एस० 8100), ए० एम० सी०, 13 अप्रैल 1969।

सं० 365, दिनांक 25 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल के मूल रैंक में (टाइम-स्केल)

एच० सिंह (आई० सी० 9755), इन्फैन्ट्री, 13 अक्टूबर 1970।

कैप्टेन से मेजर के रैंक में

पी० एस० चौधरी, (एम० आर० 1581), सैनिक डाक्टरी कोर, 8 अक्टूबर 1969।

डी० एस० सेठना (एम० आर० 1678), सैनिक डाक्टरी कोर, 5 सितम्बर 1970।

आई० एस० बाल (आई० सी० 10002), एम० के० बहल (आई० सी० 10020), एस० एस० वाजवा (आई० सी० 10029), ए० के० चैटरजी (आई० सी० 10037), आई० एस० सेठी (आई० सी० 10047), एस० पी० शर्मा (आई० सी० 10051), एस० के० गुप्ता (आई० सी० 10057), ई० बी० रोजारयो (आई० सी० 10061), ए० के० गोयर (आई० सी० 10083), और यु० के० भार्गवा (आई० सी० 10095), आर्टिलरी, 15 दिसम्बर 1970।

डी० मैकफारलैन्ड (आई० सी० 10014), के० एस० सिन्हा (आई० सी० 10022), सुरजीत सिंह (आई० सी० 10035), अरबेल सिंह (आई० सी० 10039), हरी प्रकाश (आई० सी० 10042), बी० डी० शर्मा (आई० सी० 10048), सुखदेव सिंह (आई० सी० 10056), एस० एम० हिन्दुजा (आई० सी० 10090), एम० एस० डिहल्लन (आई० सी० 10118) और आई० लोकरन्दर (आई० सी० 10121), आर्टिलरी, 15 दिसम्बर 1970

लेफ्टिनेन्ट से कैप्टेन

एस० साठ (आई० सी० 12993), आर्टिलरी, 17 दिसम्बर 1967।

एम० चन्द्र (आई० सी० 15017) और जमराव सिंह (आई० सी० 14599), इन्फैन्ट्री, 30 जून 1969।

एस० डी० प्रसाद (आई० सी० 16072), इन्जीनियर्स, 2 अगस्त 1970।

के० डी० सेगान (आई० सी० 15586), आर्टिलरी, 2 सितम्बर 1969।

(आपाती कमीशन)

कैप्टेन से स्थायी समान मेजर के रैंक में

(श्रीमति) वल्लम्मा लक्ष्मी मृनालिनी एथिराजुलु (पहले) (कुमारी) एस० एल० मृनालिनी (एम० 30541), (8091), सैनिक डाक्टरी कोर, 22 जून 1970।

आर० एस० काले, (एम० 30481), सैनिक डाक्टरी कोर, 8 सितम्बर 1970।

अल्पकालीन कमीशन

2. लेफ्टि० से लेफ्टिनेन्ट

ए० के० सेन गुप्ता (एस० एम० 20002) ए० ओ० सी०, 6 अगस्त 1969।

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी

संपटीनेन्ट को कैप्टेन के रूप में

कुमारी एस० ढिडसा (एन० एस० 13088), 8 फरवरी 1970।

सं० 366, दिनांक 25 जनवरी 1971—राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 15158/डी० जी० ए० एफ० एम०/एम० एन० एस०/1638/एस०/डी० (मैडिकल) दिनांक 31 दिसम्बर 1966 के अधीन निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा (अस्थायी)

लेफ्टिनेन्ट को स्थायीवत् कैप्टेन रूप में

कुमारी टी० सरस्वती (एन० एस० 13849), 7 नवम्बर 1970।

सं० 367, दिनांक 4 फरवरी 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

अफसरों का नियमित रिजर्व (श्रेणी 'ए०')

लेफ्टिनेन्ट से कैप्टेन के रैंक में

एम० एस० ताहिर (आर० आर० 32) ए० एस० सी० 26 नवम्बर 1969।

इन्फैन्ट्री

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० बाबू राम (सं० 3943268 अब जे० सी० 58980), 4 मई 1970।

सी० एच० एम० मंगल सिंह (सं० 3947290 अब जे० सी० 58981), 19 जून 1970*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1970 से दी जाएगी।

1 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शेरबहादुर पुत (सं० 5031732 अब जे० सी० 59008), 1 सितम्बर 1970 ।

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवालदार चित्रा गुरूंग (सं० 5032089 अब जे० सी० 59009), 23 मई 1970 ।

11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बुद्धीहंग लिम्बू (सं० 9402576 अब जे० सी० 59015), 19 जून 1970 ।

हवलदार हरीशजंग राणा (सं० 9403298 अब जे० सी० 59016), 11 अगस्त 1970 ।

महार रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सयाजी सालवे (सं० 4533167 अब जे० सी० 58982), 2 मई 1970 ।

हवलदार मिलखी राम (सं० 3940209 अब जे० सी० 58983), 5 मई 1970 ।

हवलदार मुन्शी राम (सं० 9200139 अब जे० सी० 58984), हवलदार दबिन्दर नाथ (सं० 9200229 अब जे० सी० 58985), 15 मई 1970 ।

हवलदार सदाशिव जंजाबले (सं० 4533719 अब जे० सी० 58986), 22 मई 1970 ।

मराठा लाइट इम्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गोविदा जाधव (सं० 4141663 अब जे० सी० 58987), 25 मार्च 1970 ।

हवलदार उमाकांत नाइक (सं० 2744083 अब जे० सी० 58988), 26 मार्च 1970 ।

हवलदार ज्ञानू कदम (सं० 4143332 अब जे० सी० 58989), 1 मई 1970 ।

हवलदार दिनकर सावंत (सं० 2738457 अब जे० सी० 58990), 25 मई 1970 ।

पंजाब रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भाग सिंह (सं० 2437377 अब जे० सी० 59003), 29 अप्रैल 1970 ।

हवलदार हरी दास (सं० 2437568 अब जे० सी० 59004), 15 मई 1970 ।

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं० 2439445 अब जे० सी० 59005), 27 जून 1970 ।

हवलदार रंगीला राम (सं० 2438277 अब जे० सी० 59006), 20 जुलाई 1970 ।

हवलदार केवल सिंह (सं० 2440135 अब जे० सी० 59007), 22 जुलाई 1970 ।

पराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सिरीनारायन सिंह विश्वकरम (सं० 5032183 अब जे० सी० 58991), 27 अप्रैल 1970 ।

सी० एच० एम० नारायण सिंह (सं० 4144091 अब जे० सी० 58992), 6 जून 1970 ।

नायब सूबेदार (कलर्क) के रैंक में

हवलदार कलर्क विजय सिंह (सं० 2740108 अब जे० सी० 58998), 23 जुलाई 1970 ।

राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रसन लाल (सं० 2943729 अब जे० सी० 59017), 19 मार्च 1970 ।

हवलदार राम सिंह (सं० 2943736 अब जे० सी० 59018), 23 मई 1970 ।

हवलदार राम प्रताप सिंह (सं० 2944275 अब जे० सी० 59019), 24 मई 1970 ।

हवलदार धर्मी बल सिंह (सं० 2943631 अब जे० सी० 59020), 1 जुलाई 1970 ।

हवलदार उत्तम सिंह (सं० 2945094 अब जे० सी० 59021), 13 जुलाई 1970 ।

सिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कृपाल सिंह (सं० 3338359 अब जे० सी० 59022), 2 मई 1970 ।

हवलदार श्याम सिंह (सं० 3344120 अब जे० सी० 59023), 26 जुलाई 1970 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 5 मई 1970 से दी जायेगी) ।

हवलदार निर्मल सिंह (सं० 3344538 अब जे० सी० 59024), 23 मई 1970 ।

सी० एच० एम० तलोक सिंह (सं० 3340395 अब जे० सी० 59025), 13 जून 1970 ।

हवलदार हरभजन सिंह (सं० 3344289 अब जे० सी० 59026), सी० एच० एम० काबल सिंह (सं० 3343882 अब जे० सी० 59027), 20 जून 1970 ।

सी० क्यू० एम० एच० इन्द्र सिंह (सं० 3338694 अब जे० सी० 59028), 23 जून 1970 ।

सी० क्यू० एम० एच० बहादुर सिंह (सं० 3343947 अब जे० सी० 59029), 24 जून 1970 ।

हवलदार रछपाल सिंह (सं० 3338454 अब जे० सी० 59030), 11 जुलाई 1970 ।

हवलदार करनैल सिंह (सं० 3338517 अब जे० सी० 59031), 12 जुलाई 1970 ।

हवलदार सवरन सिंह (सं० 3338053 अब जे० सी० 59032), 15 जुलाई 1970 ।

हवलदार अवतार सिंह (सं० 3341067 अब जे० सी० 59033), 30 जुलाई 1970 ।

सी० एच० एम० जोगिन्द्र सिंह (सं० 3344587 अब जे० सी० 59034), 2 अगस्त 1970 ।

तोपखाना रेंजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

आर० एच० एम० धर्म सिंह गिल (सं० 1145395 अब जे० सी० 59010), 20 मई 1970* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मई, 1970 से दी जाएगी) ।

विशेष सूचि

तोपखाना रेंजिमेंट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सिपाई (ए० ए०) अंबिका पाठक (सं० 6809776 अब जे० सी० 59014), 27 जून 1970 ।

गढ़वाल राइफलस

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगत सिंह असवाल (सं० 4034071 अब जे० सी० 59040), 16 मार्च 1970 ।

हवलदार श्याम सिंह रावत (सं० 4034859 अब जे० सी० 59041), 27 मार्च 1970 ।

हवलदार विजय सिंह रावत (सं० 4031385 अब जे० सी० 59042), 9 मई 1970* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 मई, 1970 से दी जायेगी) ।

हवलदार सत्या किशोर बिजवाल (सं० 4034578 अब जे० सी० 59043), 11 जून 1970 ।

हवलदार हरी प्रसाद थपलियाल (सं० 4035089 अब जे० सी० 59044), 14 जून 1970 ।

जम्मू और काश्मीर राइफलस

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रताप सिंह (सं० 13717392 अब जे० सी० 58993), 23 मार्च 1970 ।

हवलदार केशव चन्द्र (सं० 13718736 अब जे० सी० 58994), 11 जुलाई 1970* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मार्च 1970 से दी जायेगी) ।

हवलदार अजमेर सिंह (सं० 13717963 अब जे० सी० 58995), 14 अप्रैल 1970 ।

हवलदार दया कृष्ण (सं० 13713731 अब जे० सी० 58996), 7 मई 1970 ।

हवलदार उत्तम सिंह (सं० 13718128 अब जे० सी० 58997), 4 जून 1970 ।

गारद ब्रिगेड

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगजीवन राम (सं० 4139896 अब जे० सी० 59012), 29 जून 1970 ।

हवलदार गिरधारी लाल (सं० 3950255 अब जे० सी० 59013), 19 जुलाई 1970 ।

प्रिनेडियरस

नायब सूबेदार के रैंक में

बी० एच० एम० बाघसिंह (सं० 13406126 अब जे० सी० 59035), 23 जून 1970 ।

बी० एच० एम० मंगला राम (सं० 2634111 अब जे० सी० 59036), सी० क्यू० एम० एच० बालक राम (सं० 2634365 अब जे० सी० 59037), सी० क्यू० एम० एच० नारायण सिंह (सं० 2634052 अब जे० सी० 59038), 1 जुलाई 1970 ।

सी० एच० एम० पिरथी चन्द (सं० 2640661 अब जे० सी० 59039), 12 जुलाई 1970 ।

बक्सरबन्द कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

एस० डी० एम० के जोरावर सिंह (सं० 1022237 अब जे० सी०-58999)—14 मई, 1970 ।

एस० डी० एम० आर० रविन्द्र नायर (सं० 1022292 अब जे० सी०-59000)—13 जुलाई, 1970 ।*

*(नायब रिंसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मई, 1970 से दी जाएगी) ।

दफादार गुरदियाल सिंह (सं० 1011903 अब जे० सी०-59001)—29 मई 1970 ।

दफादार मेलासिंह (सं० 1011875 अब जे० सी०-59002) 10 जुलाई, 1970 ।

सैनिक शिक्षा कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शिव चन्द यादव (सं० 9500722 अब जे० सी०-59011)—1 मई, 1970 ।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

सं० 368, दिनांक 23 जनवरी, 1971—राष्ट्रपाल निम्न-लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं।

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

कुमाऊँ रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार नन्दन सिंह (जे० सी०-37032),
16 अगस्त 1970।
नायब सूबेदार निता नन्द (जे० सी०-36882)
16 नवम्बर 1970।
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जे० सी०-36144),
24 नवम्बर 1970।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

- नायब सूबेदार क्लर्क कृष्णा सिंह (जे० सी०-39289)—11
दिसम्बर 1970।

4 जी० आर०

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार नून बहादुर गुरूंग (जे० सी०-25504)—
1 दिसम्बर 1970।
नायब सूबेदार गगन सिंह गुरूंग (जे० सी०-27373)—18
दिसम्बर 1970।

जम्मू और काश्मीर राइफलस

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार गम्भीर सिंह (जे० सी०-33953)—15
अगस्त, 1970।
नायब सूबेदार सेवा सिंह (जे० सी० 35940)—3 अक्टूबर,
1970।
नायब सूबेदार लाल बहादुर (जे० सी० 27554)—11
अक्टूबर, 1970।
नायब सूबेदार बीर सिंह (जे० सी० 32953)—24 अक्टूबर,
1970।
नायब सूबेदार हंस राज (जे० सी०-41740)—4 नवम्बर,
1970।
नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद (जे० सी० 34253)—1 दिसम्बर,
1970।

राजपूताना राइफलस

सूबेदार मेजर के रैंक में

- सूबेदार सुगन सिंह (जे० सी० 5759), सूबेदार बहादुर सिंह
(जे० सी० 9738)—1 नवम्बर, 1969।
सूबेदार मुरजभान सिंह (जे० सी० 5497)—20 दिसम्बर,
1969।
सूबेदार मुकन्द सिंह (जे० सी० 12890)—16 सितम्बर,
1970।

सूबेदार हनुमान सिंह (जे० सी० 7407)—28 अक्टूबर,
1970।

सूबेदार भोलहर सिंह (जे० सी० 7403)—21 नवम्बर,
1970।

प्रिन्सिपलस

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार मुनीर अहमद (जे० सी०-33995)—
8 दिसम्बर, 1969।
नायब सूबेदार फतेह सिंह (जे० सी०-28924)—1 अप्रैल
1970।
नायब सूबेदार नासिर खां (जे० सी०-27378)—
24 जुलाई, 1970।

गारब ब्रिगेड

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

- नायब सूबेदार क्लर्क दलीप सिंह (जे० सी०-26095)—
24 अक्टूबर, 1970।

पाईनियर कोर

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार मंगल राम (जे० सी०-31995)—
30 अक्टूबर, 1970।
नायब सूबेदार झबर (जे० सी०-31996)—31 अक्टूबर,
1970।
नायब सूबेदार राम कुमार (जे० सी०-31998)—
9 दिसम्बर, 1970।

कोर आउट सिगनलस

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

- सूबेदार क्लर्क जगदीश महाई कपीला (जे० सी०-1074)
—2 दिसम्बर, 1970।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

- नायब सूबेदार जुदसन (जे० सी०-32116)—2 दिसम्बर,
1970।
नायब सूबेदार लल्लू सिंह (जे० सी०-32470)—
7 दिसम्बर 1970।
नायब सूबेदार गुरु दास (जे० सी०-32471)—12 दिसम्बर,
1970।
नायब सूबेदार टी० शंकरा नारायण नम्बूदरी (जे० सी०-
32472)—16 दिसम्बर, 1970।
नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-32476), नायब
सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-32484)—23 दिसम्बर,
1970।

नायब सूबेदार स्वरन सिंह (जे० सी०-32488)—
28 दिसम्बर, 1970 ।

नायब सूबेदार राम लाल (जे० सी०-32489)—
30 दिसम्बर, 1970 ।

सूबेदार (कलर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार सी० कुमारन एल्लुताचन (जे० सी०-28038)
—2 दिसम्बर, 1970 ।

नायब सूबेदार पी० कृष्णन नायर (जे० सी०-28039)
4 दिसम्बर, 1970 ।

सूबेदार (साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी०-30284)—27
दिसम्बर 1970 ।

सूबेदार (एफ० आफ० एस०) रैंक में

नायब सूबेदार भीम सेन (जे० सी०-49733), नायब सूबेदार
वाई राया कृष्णन (जे० सी०-49734), नायब सूबेदार रामा
कृष्णन पी० सी० (जे० सी०-49735), नायब सूबेदार विरेन्द्र
सिंह राथवा (जे० सी०-49738)—28 दिसम्बर, 1970 ।

पी० के० कुमारन, अवर सचिव

सं० 369, दिनांक 17 जनवरी, 1971—राष्ट्रति निम्न-
लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना¹

बिजली और मशीनी इंजीनियरी कोर

सूबेदार मेजर आर्माइन्ट आर्ट और आरटीजन (इलिजिबिल
कोटेगरीज) के रैंक में

सूबेदार गंगाधर प्रसाद (जे० सी०-3516)—1 जनवरी,
1969 ।

सूबेदार बचन सिंह सोहल (जे० सी०-47650)—1 अप्रैल,
1969 ।

सूबेदार बी० लजर पाभामनी (जे० सी०-3563), सूबेदार
अमृत चंद्रा श्याम (जे० सी०-3565), सूबेदार गुंडे राव कुलकर्णी
(जे० सी०-3485) सूबेदार पी० जयराम धोमस (जे० सी०-
3568), सूबेदार एम० के० वासुदेव पिल्ले (जे० सी०-3594),
सूबेदार सुन्दर सिंह (जे० सी०-3596)—1 अक्टूबर,
1969 ।

सूबेदार मेजर संभार के रैंक में

सूबेदार सौदागर सिंह (जे० सी०-51014)—1 नवम्बर,
1969 ।

सूबेदार मेजर इन्फिग विंग के रैंक में

सूबेदार बलविंदर सिंह (जे० सी०-3404)—1 जनवरी,
1969 ।

सूबेदार एस० सोलेमन (जे० सी०-3416)—1 मार्च,
1969 ।

टी० जेम्स, अवर सचिव

सं० 370, दिनांक 20 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर
कम्पनी हवालदार मेजर से नायब सूबेदार आर्माइन्ट आर्ट (राबार)
के रैंक में

राम कृष्णा विश्वित (सं० 7031570 अब जे० सी०-58770),
1 अगस्त 1970 ।

धीसा राम यादव (सं० 7033041 अब जे० सी०-58771),
1 अक्टूबर 1970 ।

तंगुडु गनपति (सं० 7029867 अब जे० सी०-58772)
1 अगस्त 1970 ।

जे० अरोकिया स्वामि (सं० 7034500 अब जे० सी०-
58773)—1 अक्टूबर, 1970 ।

कम्पनी हवालदार मेजर से नायब सूबेदार आर्माइन्ट आर्ट
(इलेक्ट्रीसियन) के रैंक में

मुरली मनोहर (सं० 7019225 अब जे० सी०-58774)
1 अगस्त 1970 ।

दीना नाथ (सं० 7020397 अब जे० सी०-58775)—14
अगस्त 1970 ।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1970 से दी जाएगी) ।

कम्पनी हवालदार मेजर से नायब सूबेदार आर्माइन्ट आर्ट
(इम्सट्रॉट मेकेनिक) के रैंक में

सुमतान (सं० 7028997 अब जे० सी०-58776)—1 अगस्त
1970 ।

बालकृष्णन प्रसाद नैथानी (सं० 7028940 अब जे० सी०-
58777), माया राम कंडवाल (सं० 4035398 अब जे० सी०-
58778), कुलवन्त सिंह (सं० 702997 अब जे० सी०-58779)
1 सितम्बर 1970 ।

कम्पनी हवालदार मेजर से नायब सूबेदार आर्माइन्ट आर्ट (बी०
वहिकल) के रैंक में

हीरा बल्लभ (सं० 7030525 अब जे० सी०-58780),
1 अगस्त 1970 ।

जगजीवन सिंह (सं० 7024908 अब जे० सी०-58781)
—25 अगस्त 1970 ।*

लक्ष्मण सिंह (सं० 7023720 अब जे० सी०-58782)
1 अगस्त 1970 ।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1970 से दी जाएगी) ।

कम्पनी हवालदार मेजर से नायब सूबेदार आर्माइन्ट आर्ट (बी०
वहिकल) के रैंक में

रूपाल सिंह (सं० 7023963 अब जे० सी०-58783)

सुखवीर सिंह सुलंखी (सं० 7029945 अब जे० सी०-58784), विशानु डालवि (सं० 70325 अब जे० सी०-58785), सत नारायण जतुकेर्न (सं० 7035978 अब जे० सी०-58786) और कृष्णा बल्लभ (सं० 7033290 अब जे० सी०-58787)—1 अगस्त 1970 ।

हवलदार से नायब सूबेदार बलर्क (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

एस० मनित्रेल स्वामी (सं० 7025736 अब जे० सी०-58788), और पी० एम० एफरेम (सं० 7026574 अब जे० सी०-58789)—1 अक्टूबर, 1970 ।

हवलदार से नायब सूबेदार (भंडार) के रैंक में

मुनि लाल राय यादव (सं० 6866544 अब जे० सी०-58790) और एस० पी० एल० लक्षमनन (सं० 7030830 अब जे० सी०-58791)—1 अगस्त 1970 ।

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोरर के रैंक में

भगवती प्रसाद परेदी (सं० 7008302 अब जे० सी०-58792)—1 अगस्त 1970 ।

हरदवार सिंह (सं० 7011921 अब जे० सी०-58793)—1 जून 1970 ।

ललता प्रसाद मिश्रा (सं० 7013496 अब जे० सी०-58794)—12 अक्टूबर, 1970 ।

हवलदार से नायब सूबेदार आरटोजन (माने इलिजिबिल कटेगरीज) के रैंक में

मशीनीष्ट

जसवन्त सिंह (सं० 7009811 अब जे० सी०-58795)—6 अगस्त 1970 ।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1970 से दी जाएगी) ।

कारपोटर और ज्वाइनर

देवान राम (सं० 6347837 अब जे० सी०-58796), धरम सिंह भंडारी (सं० 7031366 अब जे० सी०-58797) और टी० के० मुथु कृष्णन (सं० 7031453 अब जे० सी०-58798)—1 अगस्त, 1970 ।

अपहोलस्टरर

सी० परमेस्वरन (सं० 7031373 अब जे० सी०-58799)—1 अगस्त 1970 ।

ब्लैक स्मिथ

भीम राव वाडे (सं० 7028173 अब जे० सी०-58800)—1 अगस्त 1970 ।

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइविंग विंग के रैंक में

मदन मोहन शारदा (सं० 7010635 अब जे० सी०-58801)—1 अक्टूबर, 1970 ।

एस० वडिवेल (सं० 7013581 अब जे० सी०-58802) 1 अक्टूबर 1970 ।*

जगत सिंह (सं० 7013745 अब जे० सी०-58803) 8 नवम्बर, 1970 ।*

ओंकार सिंह (सं० 7022350 अब जे० सी०-58804)—1 जुलाई, 1970 ।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1970 से दी जाएगी) ।

विजय कुमार, अवर सचिव

सं० 371, दिनांक 19 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार लाल चन्द तिवारी, (जे० सी०-43372)—30 जुलाई, 1970 ।

नायब सूबेदार हिरदय नारायण पांडे (जे० सी०-43373)—4 अगस्त, 1970 ।

नायब सूबेदार हरी सिंह (जे० सी०-43374)—5 अगस्त 1970 ।

नायब सूबेदार उदैवीर सिंह (जे० सी०-43375), नायब सूबेदार राम लगन शुक्ला (जे० सी०-43376), नायब सूबेदार फूल सिंह (जे० सी०-43377), नायब सूबेदार लाल सिंह (जे० सी०-43378) और नायब सूबेदार शिव कुमार तिवारी (जे० सी०-43379)—14 सितम्बर, 1970 ।

नायब सूबेदार राम किशन (जे० सी०-43380), नायब सूबेदार भूतनभी मिश्रा (जे० सी०-43381), नायब सूबेदार ब्रज नाथ (जे० सी०-43382), नायब सूबेदार चरन सिंह (जे० सी०-43383)—18 सितम्बर, 1970 ।

सप्लाइ

सूबेदार मेजर (बलर्क) (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

सूबेदार आरकाट सिद्धालिन्ग बलराम (जे० सी०-2931)—22 जून 1970 ।

सूबेदार (बलर्क सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

नायब सूबेदार कुन्दन लाल (जे० सी०-44126)—29 अप्रैल, 1970 ।

नायब सूबेदार त्रिलोकि नाथ पान्डे (जे० सी०-44127)—1 मई, 1970 ।

नायब सूबेदार किशन सिंह (जे० सी०-44128)—2 मई 1970 ।

नायब सूबेदार पारकाश चन्द (जे० सी०-44129), नायब सूबेदार गिरधारी लाल (जे० सी०-44130), नायब सूबेदार लाभ सिंह (जे० सी०-44131), नायब सूबेदार हरिहरय्यर रामय्या (जे० सी०-44132), नायब सूबेदार बटकृष्ण मोहन्ति (जे० सी०-44133) और नायब सूबेदार सुधीर रन्जन गोस (जे० सी०-44134)—14 जून 1970 ।

नायब सूबेदार पिलिपोस जान पिलिपोस (जे० सी०-44135),
नायब सूबेदार चत्तर सिंह (जे० सी०-44136), नायब सूबेदार
कोलप चिदभरम पिल्लै (जे० सी०-44139), नायब सूबेदार
पनककल पॉलस जाव (जे० सी०-44140), नायब सूबेदार गज्जन
सिंह कुलार (जे० सी०-45693), नायब सूबेदार तामस जार्ज
(जे० सी०-45694), नायब सूबेदार जमियत सिंह (जे० सी०-
45695), नायब सूबेदार गियान सिंह (जे० सी०-45696) और
नायब सूबेदार मेहन्गा राम (जे० सी०-45698)—9 जुलाई,
1970 ।

नायब सूबेदार चत्तर सिंह (जे० सी०-45699), नायब सूबेदार
दरम जास (जे० सी०-48651), नायब सूबेदार राम नाथ
(जे० सी०-48652), नायब सूबेदार अजीत चन्द्र चक्रवर्ती,
(जे० सी०-48668), नायब सूबेदार प्रफुल्ल चन्द्र मजुमदार
(जे० सी०-48653), नायब सूबेदार तुलसी राम (जे० सी०
48669), नायब सूबेदार अमर कान्ति नाग (जे० सी०-48654),
नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-48655), नायब सूबेदार
लक्ष्मी नारायण (जे० सी०-48670), नायब सूबेदार चन्द्रतिल
पदमनाभ पदमनाभन नायर (जे० सी०-48671), नायब सूबेदार
बीरबल सिंह (जे० सी०-48672), नायब सूबेदार पिर्ती राज
(जे० सी०-49027) और नायब सूबेदार दरम पाल (जे० सी०-
49028),—23 जुलाई, 1970 ।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र (जे० सी०-49029)—
नायब सूबेदार पल्लपुरम्बल बालसुभ्रमनियन (जे० सी०-49030),
नायब सूबेदार सीता राम (जे० सी०-49031), नायब सूबेदार
सूरज भान्या सिंह (जे० सी०-49032)—26 जुलाई, 1970 ।

नायब सूबेदार परयान्कावल मताय वरगीस (जे० सी०-
49033), नायब सूबेदार पलेपु दिन्कर राव (जे० सी०-49201),
नायब सूबेदार मनीन्द्र नाथ चक्रवर्ती (जे० सी०-49681), नायब
सूबेदार पानि भूशन पाल (जे० सी०-49682), नायब सूबेदार
गिरधारी लाल शर्मा (जे० सी०-49683), नायब सूबेदार सत पाल
(जे० सी०-49684), नायब सूबेदार श्रीधरन मैनन तरैमल
संकरन (जे० सी०-49685), नायब सूबेदार राम किशन (जे० सी०
50277), नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जे० सी०-50278),
नायब सूबेदार दन्वन्ट सिंह (जे० सी०-50279), नायब सूबेदार
मलकियट सिंह (जे० सी०-50280), नायब सूबेदार देव नन्दन
प्रसाद (जे० सी०-50281) और नायब सूबेदार कमलेश्वर प्रसाद
सिंह (जे० सी०-50282)—12 सितम्बर, 1970 ।

सूबेदार मेजर (भंडार) के रैंक में

सूबेदार दयानन्द टन्डन (32996 जे० सी०)—12 नवम्बर
1969 ।

सूबेदार हरकिशन लाल टन्डन (32997 जे० सी०)—14
नवम्बर 1969 ।

सूबेदार (क्लर्क भंडार) के रैंक में

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जे० सी०-26877), और नायब
सूबेदार ज्ञान चन्द (जे० सी०-26879)—1 अक्टूबर, 1969 ।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-26882)—4 अक्टूबर,
1969 ।

नायब सूबेदार केशवचन्द्र मजुमदार (जे० सी०-30084)
—20 अक्टूबर, 1969 ।

नायब सूबेदार विशम्बर दयाल (जे० सी०-26883)—23
अक्टूबर, 1969 ।

नायब सूबेदार बलदेव राज (जे० सी०-26884)—28
अक्टूबर 1969 ।

नायब सूबेदार राधाकिशन (जे० सी०-29696)—1
नवम्बर 1969 ।

नायब सूबेदार हरवंस सिंह (जे० सी०-29697)—4
नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार अकान्त कृशन (जे० सी०-29698), और नायब
सूबेदार भगवान चन्द्र शर्मा (जे० सी०-29699)—6 नवम्बर
1969 ।

नायब सूबेदार खदत जोशी (जे० सी०-29701)—7
नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार नगेश गणेश इनामदार (जे० सी०-29703) और
नायब सूबेदार केशव नारायण बोस (जे० सी०-21925)—12
नवम्बर 1969 ।

नायब सूबेदार त्रिधी सिंह चौहान (जे० सी०-29708)—
13 नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार शैलेन्द्रप्रसाद (जे० सी०-29709), और नायब
सूबेदार जगदीश चन्द्र राय (जे० सी०-29712)—14 नवम्बर,
1969 ।

नायब सूबेदार शिव नारायण (जे० सी०-29713), और नायब
सूबेदार कालीपदाडे (जे० सी०-29714)—15 नवम्बर,
1969 ।

नायब सूबेदार बाल कृष्ण वामन देशपांडे (जे० सी०-29715),
और नायब सूबेदार मोहन लाल (जे० सी०-29716)—17
नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार बचन सिंह (जे० सी०-30085)—19
नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार मल्लिकारजन अगंटी (जे० सी०-29718)
20 नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार चंद्रिका सिंह (जे० सी०-29719)—21
नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार चन्द्र देव चौधरी (जे० सी०-21982)—23
नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार रामनारायण पटनायक (जे० सी०-29720),
और नायब सूबेदार कैलाश सिंह (जे० सी०-30088)—25
नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार गोपालकृष्ण बक्शी (जे० सी०-29721)—
29 नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार कालियावन हमजा (जे० सी०-29722)
30 नवम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार राम शकल सिंह यादव (जे० सी०-29723)
—3 दिसम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार होशियार सिंह राणा (जे० सी०-29724)
8 दिसम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार त्रिलोकी नाथ पंडित (जे० सी०-29725)
—12 दिसम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार मांगेराम (जे० सी०-29726), नायब सूबेदार
राम सनेही लाल (जे० सी०-29727)—13 दिसम्बर 1969 ।

नायब सूबेदार नहेमिहा नाग (जे० सी०-29728)—19
दिसम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार कुन्दन सिंह (जे० सी०-29729)—23
दिसम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार विश्वनाथ (जे० सी०-29730)—24
दिसम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जे० सी०-29731)—25
दिसम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जे० सी०-29732)—28
दिसम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार श्रीराम (जे० सी०-29733)—1 जनवरी,
1970 ।

नायब सूबेदार नारायण भांगले (जे० सी०-29734)
नायब सूबेदार हरी चन्द्र गुप्ता (जे० सी०-29735)—5
जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार के० सी० घामस पानीकर (जे० सी०-29736)
—6 जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार टी० आर० अण्णुकुट्टन (जे० सी० 29737)
12 जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार धरम सिंह (जे० सी०- 29738)—15
जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी०-29739)—22
जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार व्ही आर० नारायणा राव (जे० सी०-29740)
23 जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार मोहनी राज विधाते (जे० सी०-29741)
—23 जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार भवानी फेर गुकला (जे० सी०-29742)
—27 जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार मदन लाल बाली (जे० सी०-29743)
—28 जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जे० सी०-29744)—30
जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार मधुकर भटवीडेकर (जे० सी०-29746)—
4 फरवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार अमलबिकास आचार्य (जे० सी०-29748)
—5 फरवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार सत्यनारायण सिंह (जे० सी०-29749)
10 फरवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-29750)—10
फरवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार खुशाल सिंह नेगी (जे० सी०-29752)—16
फरवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार राम सरन कोटनाला (जे० सी०-29753)
—23 फरवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार एम० कृष्णन थम्पी (जे० सी०-29754)
—27 फरवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार के० गोविन्दन कुट्टी (जे० सी०-29755)
—4 मार्च, 1970 ।

नायब सूबेदार सोहल लाल यादव (जे० सी०-29758)—
9 मार्च, 1970 ।

नायब सूबेदार प्रभाकर गोसावी (जे० सी०-29759)—9
मार्च, 1970 ।

नायब सूबेदार शिवनाथ मुखर्जी (जे० सी०-29760)—12
मार्च, 1970 ।

नायब सूबेदार राम कुमार चमु (जे० सी०-29761)—
नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जे० सी०-29762)—16 मार्च,
1970 ।

नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जे० सी०-29763)—17
मार्च, 1970 ।

नायब सूबेदार धनजय मुखर्जी (जे० सी०-29764)—30
मार्च, 1970 ।

नायब सूबेदार पुण्य देव चौबे (जे० सी०-29765)—30
मार्च, 1970 ।

सूबेदार (क्लर्क सामान्य इयुटी) (स्टाफ इयुटी) के रैंक में
नायब सूबेदार धोपील जौन जौन (जे० सी०-23610)—
18 दिसम्बर, 1969 ।

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जे० सी०-26854)—1
जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार श्री नारायण तिवारी (जे० सी०-26855)—
2 जनवरी, 1970 ।

नायब सूबेदार अधिर चन्द्रा बनर्जी (जे० सी०-26861,
नायब सूबेदार सुधिर चन्द्रा चक्रवर्ती (जे० सी०-26863),
नायब सूबेदार शुशील कुमार दत्ता (जे० सी०-26866)—20
फरवरी, 1970 ।

सूबेदार (कॉन्ट्रिब्यूटिंग) के रैंक में
नायब सूबेदार जोशी प्रकाश (जे० सी०-37509)—1
अगस्त, 1970 ।

बी० एस० राघवन, अवर सचिव

स० 372, दिनांक 3 फरवरी, 1971—राष्ट्रपति ने निम्न-
लिखित अफसर की तरफकी की है —

टैरिटोरियल आर्मी

टैरिटोरियल कमीशन

संफिटनेंट स कॅप्टन के पद में तरफकी

पी० के० देशमुख (टी० ए०-40678) इंजीनियर्स—6 जून
1967 । ।

आर० के० आर० गोतेला, अवर सचिव

स० 373, दिनांक 4 फरवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित स्थाई सेजर जनरलों और ब्रिगेडियरो को, अपने अपने

रैंकों की सामान्य न्यूनतम सेवा-निवृत्ति की आयु के उपरान्त रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 24(4)/69/2010-एस०/डी०/(ए० जी०-II) दिनांक 29 दिसम्बर, 1969 और 24(4)/69/597-एस०/डी०/(ए० जी० II) दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के अधीन, उनके नामों के सम्मुख लिखी गई अवधि तक के लिए, सेवा में बने रहने की सहर्ष स्वीकृति देते हैं :—

मेजर जनरल

मेजर जनरल शिव चरण सिंह (आई० सी०-334) 10 मई, 1971 से 9 मई, 1973 तक ।

मेजर जनरल मोहिन्द्र सिंह (आई० सी०-1021) ए० एस० सी०—25 अप्रैल, 1970 से 31 जनवरी, 1972 तक ।

मेजर जनरल के० ए० एस० राजा (आई० सी०-801) पी० वी० एस० एम०—9 जनवरी 1971 से 8 जनवरी, 1973 तक ।

मेजर जनरल के० के० सिंह (आई० सी०-2014) एम० वी० सी०—3 मार्च, 1971 से 2 मार्च, 1973 तक ।

मेजर जनरल एन० एस० नायर, (आई० सी०-2042)—2 फरवरी, 1971 से 1 फरवरी, 1973 तक ।

मेजर जनरल बी० बी० तुली (आई० सी०-3470)—6 जनवरी, 1971 से 19 मई, 1972 तक ।

मेजर जनरल एस० वाई० मुन्शी (आई० सी० 919)—19 जून 1971 से 18 जून 1973 तक ।

ब्रिगेडियर

ब्रिगेडियर (कार्यकारी मेजर जनरल) जोरावर सिंह बक्शी (आई० सी०-1510) एम० वी० सी०, वीर चक्र, वी० एस० एम०—2 जनवरी, 1971 से 1 जनवरी, 1973 तक ।

ब्रिगेडियर ओ० पी० दत्ता, (आई० सी०-857) ए० वी० एस० एम०, इंजीनियर—31 मार्च, 1971 से 30 मार्च, 1973 तक ।

ब्रिगेडियर बी० एन० उपाध्याय, (आई० सी०-2958) पी० वी० एस० एम०—16 जून 1971 से 15 जून 1973 तक ।

ब्रिगेडियर एस० एस० पन्वार (आई० सी० 492) आर्टिलरी—1 जुलाई, 1971 से 30 जून 1973 तक ।

ब्रिगेडियर सी० वी० अड़वाणी (आई० सी०-2581) आर्टिलरी 1 मई, 1971 से 30 अप्रैल, 1973 तक ।

ब्रिगेडियर एफ० पी० शिन्डे (आई० सी०-1879) वी० एस० एम०—3 जून, 1971 से 2 जून, 1973 तक ।

ब्रिगेडियर एम० पी० जोसफ (आई० सी० 976) इंजीनियर—20 फरवरी, 1971 से 19 फरवरी, 1973 तक ।

ब्रिगेडियर एस० एस० मल्हौत्रा (आई० सी०-929)—21 मार्च, 1971 से 20 मार्च, 1973 तक ।

ब्रिगेडियर बी० एस० चांद (आई० सी०-905) वीर चक्र—28 मार्च, 1971 से 21 मई 1972 तक ।

ब्रिगेडियर जे० एस० कालरा (आई० सी० 1432) सिग्नल—24 मई, 1971 से 23 मई 1973 तक ।

ब्रिगेडियर बी० शोशमणी (आई० सी०-1204) सिग्नल—28 जनवरी, 1971 से 27 जनवरी, 1973 तक ।

ब्रिगेडियर कुन्दन सिंह (आई० सी०-1522)—15 जून, 1971 से 14 जून, 1973 तक ।

ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह (आई० सी०-3264)—19 मई, 1971 से 9 दिसम्बर, 1972 तक ।

सं० 374, दिनांक 4 फरवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित स्थाई मेजर जनरलों और ब्रिगेडियरों को, अपने अपने रैंकों की सामान्य न्यूनतम सेवा-निवृत्ति की आयु के उपरान्त रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 24(4)/69/2010 एस०/डी० (ए० वी०-II) दिनांक 29 दिसम्बर, 1969 के अधीन, उनके नामों के सम्मुख लिखी गई अवधि-तक के लिए, सेवा में बने रहने की सहर्ष स्वीकृति देते हैं ।

आर्म्ड कोर

मेजर जनरल के० रनजीत सिंह (आई० सी०-1742)—25 नवम्बर, 1970 से 24 नवम्बर, 1972 तक ।

ब्रिगेडियर टी० के० त्योंगराज (आई० सी०-4321) एम० वी० सी०—1 जनवरी, 1970 से 29 नवम्बर, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर भरत सिंह (आई० सी०-1777)—1 जनवरी, 1970 से 20 नवम्बर, 1970 तक ।

आर्टिलरी

मेजर जनरल एफ० डी० लारकिन्स (आई० सी०-482)—20 जुलाई, 1970 से 19 मई, 1972 तक ।

मेजर जनरल जी० एस० गिल (आई० सी०-560)—1 जनवरी, 1970 से 4 सितम्बर, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर (कार्यकारी मेजर जनरल) आर० एन० सेन (आई० सी०-516) एस० एम०—1 जनवरी, 1970 से 14 सितम्बर, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर के० डी० वसिष्ठ (आई० सी०-627)—28 मार्च, 1970 से 27 मार्च, 1972 तक ।

ब्रिगेडियर जे० एस० सन्धु (आई० सी०-635)—1 जनवरी, 1970 से 5 अक्टूबर, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर आर० पी० मित्तल (आई० सी०-1183)—1 जनवरी, 1970 से 7 मार्च, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर जे० एस० पुनिया (आई० सी०-1033) —1 जनवरी, 1970 से 14 नवम्बर, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर आर० एस० एल० पसरिचा (आई० सी०-3259) —1 जनवरी, 1970 से 30 मई, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर बी० वी० भटनागर (आई० सी०-2709)—1 जनवरी, 1970 से 31 अक्टूबर, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर ए० जे० आई० चेरिया (आई० सी०-3546)—1 जनवरी, 1970 से 23 सितम्बर, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर पी० तोमस (आई० सी०-536)—1 जनवरी, 1970 से 4 अगस्त, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर अरजिन्दर सिंह (आई० सी०-3549)—12 सितम्बर, 1970 से 20 मई, 1972 तक ।

ब्रिगेडियर पी० एस० गिल (आई० सी०-559)—1 जनवरी, 1970 से 2 अगस्त, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर एन० एन० राओ (आई० सी०-5455)—25 अक्टूबर, 1970 से 21 मई 1972 तक ।

ब्रिगेडियर एस० कोलनडावेलू (आई० सी०-3196) ए० बी० एस० एम०—1 जनवरी, 1970 से 21 मई 1970 तक ।

ब्रिगेडियर रजिन्द्र सिंह (आई० सी०-599)—1 जनवरी, 1970 से 30 जनवरी, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर छजू राम (आई० सी०-1351) वीरचक्र —22 मार्च, 1970 से 21 मार्च, 1972 तक ।

इंजीनियर

मेजर जनरल पी० आर० कुमार (आई० सी०-566)—1 जनवरी, 1970 से 14 दिसम्बर, 1970 तक ।

मेजर जनरल एम० एम० नाथ (आई० सी०-303) —29 जनवरी, 1970 से 28 जनवरी, 1972 तक ।

ब्रिगेडियर एन० बी० ग्रान्ट (आई० सी०-1201)—1 जनवरी, 1970 से 16 नवम्बर, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर जे० जी० सिपाहीमलानी (आई० सी०-506) —3 जुलाई, 1970 से 19 मई, 1972 तक ।

ब्रिगेडियर नरेश प्रशाद (आई० सी० 624)—बी० एस० एम०—26 दिसम्बर, 1970 से 20 मई, 1972 तक ।

ब्रिगेडियर पी० आर० चाहवान (आई० सी०-1384)—1 जनवरी, 1970 से 31 जनवरी, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर ई० डी० सा० (आई० सी० 3122)—बी० एस० एम०—1 जनवरी, 1970 से 3 दिसम्बर 1970 तक ।

ब्रिगेडियर के० जे० सिंह (आई० सी०-952)—20 मार्च 1970 से 19 मार्च, 1972 तक ।

ब्रिगेडियर के० यू० के० पण्डाला (आई० सी०-4167)—1 जनवरी, 1970 से 21 मई, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर बलाढेटेस (आई० सी०-4310) बी० एस० एम० 20 मई, 1970 से 19 मई, 1972 तक ।

ब्रिगेडियर आर० जे० नेरुरकर (आई० सी०-3927), —1 जनवरी, 1970 से 2 फरवरी, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर त्रिलोचन सिंह (आई० सी० 973) बी० एस० एम० —1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1971 तक ।

सिगनल

मेजर जनरल जसवंत सिंह (आई० सी०-433)—25 अगस्त, 1970 से 19 मई, 1972 तक ।

मेजर जनरल ई० जी० पेटिंगेल (आई० सी०-795)—1 जनवरी, 1970 से 13 अक्टूबर, 1971 तक ।

मेजर जनरल एस० एन० आन्टिया (आई० सी०-2130) पी० बी० एस० एम०—1 जनवरी, 1970 से 5 फरवरी, 1970 तक ।

मेजर जनरल आर० जेड० कात्राजी (आई० सी०-796) ए० बी० एस० एम०—1 जनवरी, 1970 से 30 जुलाई, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर बी० मेहता (आई० सी०-1494)—1 जनवरी, 1970 से 28 जुलाई, 1970 तक ।

इन्फैंट्री

मेजर जनरल (कार्यकारी लेफ्टी० जनरल) आर० एस० तोरोना (आई० सी०-531) पी० बी० एस० एम०, एम० सी०—1 जनवरी, 1970 से 6 सितम्बर, 1971 तक ।

मेजर जनरल ओ० एस० कलकत (आई० सी०-810) पी० बी० एस० एम०—1 फरवरी, 1970 से 31 जनवरी, 1972 तक ।

मेजर जनरल ए० के० लूथरा (आई० सी०-1404) एम० सी०—6 सितम्बर, 1970 से 5 सितम्बर, 1972 तक ।

मेजर जनरल पी० एस० गरवाल (आई० सी०-2039)—1 जनवरी, 1970 से 17 अक्टूबर 1971 तक ।

ब्रिगेडियर (कार्यकारी मेजर-जनरल) बी० एस० आहलूवालिया (आई० सी०-1778)—15 मार्च, 1970 से 14 मार्च, 1972 तक ।

ब्रिगेडियर हरीलाल सिंह (आई० सी०-3258)—1 जनवरी, 1970 से 7 मार्च, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर एच० एल० कपूर (आई० सी०-2471)—1 जनवरी, 1970 से 17 अगस्त 1970 तक ।

ब्रिगेडियर एम० एस० रिख (आई० सी०-2057)—1 जनवरी, 1970 से 19 दिसम्बर, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर एस० जे० एस० भौसले (आई० सी०-3260) बी० एस० एम०—19 नवम्बर, 1970 से 22 जुलाई, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर बी० मलहोत्रा (आई० सी०-3178)—1 जनवरी, 1970 से 10 जनवरी, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर ए० एस० सीधू (आई० सी०-1398)—1 जनवरी 1970 से 9 फरवरी, 1970 तक ।

ब्रिगेडियर जे० एस० सिधू (आई० सी०-3742)—1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर के० एस० सिधू (आई० सी० 1411)—1 जनवरी 1970 से 10 जनवरी, 1971 तक ।

ब्रिगेडियर डी० डी० बोहरा (आई० सी०-2462)—1 जून 1970 से 31 मई, 1972 तक ।

ब्रिगेडियर जय सिंह (आई० सी०-2141)—28 मार्च, 1970 से 27 मार्च 1972 तक ।

ब्रिगेडियर रण सिंह (आई० सी०-3749)—11 जुलाई, 1970 से 10 जुलाई, 1972 तक ।

सं० 375, दिनांक 4 फरवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित जनरल अफसर को 30 नवम्बर 1970 से 61 रिसाला के कर्नल के पद से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

लेफ्टिनेन्ट जनरल एम० एस० वडालिया (ए० आई०-947,) (रिटायर्ड)

पद्मनाभ कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

सं० 376, दिनांक 22 जनवरी, 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को 15 मार्च, 1970 में सैनिक डाक्टरी कोर, में अपने अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17100/- डी० जी० ए० एफ० एम०एस०/डी० जी० 1 (एक्स)/6910/डी० (ग्रेड) दिनांक 31 दिसम्बर 1965 द्वारा यथा परिवर्तित थलसेना अनुदेश 191/62 के आदेश उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:—

(नियमित सेना)

(स्थायी कमीशन)

कैप्टेन रैंक में

हरभजन सिंह भाटिया, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस० 7983 अब एम० आर० 2687), सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 जनवरी, 1968 से दी जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 6 मास पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

सं० 377, तारीख 25 जनवरी—राष्ट्रपति निम्नलिखित नूनियर कमीशन अफसरों व एन० सी० ओ० को प्रादेशिक सेवा में डल से पुरस्कृत करते हैं।

प्रादेशिक सेना

इन्फैन्ट्री

112 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी० ए०)

सूबेदार जाशर सिंह (टी० जे० 57) सूबेदार गुरमीत सिंह (टी० जे० 689) सूबेदार होशनाकी राम (टी० जे० 1174) सूबेदार जागीर सिंह (टी० जे० 1223) सूबेदार गुरदयाल सिंह (टी० जे० 1225) नायब सूबेदार ओमधान (टी० जे० 1309)।

124 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी० ए०)

सूबेदार बलबीर सिंह मानिक (टी० जे० 863) नायब सूबेदार राम सरूप सिंह (टी० जे० 981) सूबेदार रौशनलाल धूमैजा (टी० जे० 1042) सूबेदार इन्द्र सिंह (टी० जे० 1044) सूबेदार शिव लाल (टी० जे० 1235) सूबेदार बलबन्त सिंह (टी० जे० 1236) नायब सूबेदार शिवदत्त शर्मा (टी० जे० 1546)।

125 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी० ए०)

सूबेदार पी० आर० टोडामान (टी० जे० 677) सूबेदार सेलवारज (टी० जे० 833)।

इंजीनियर्स (रेलवे)

968 एच० ब्यू० रेलवे इंजीनियर्स (टी० ए०)

नायब सूबेदार राम सरूप (टी० जे० 875) हवलदार क्लर्क शिव चन्द (नं० 12088935)।

सं० 378, तारीख 23 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न लिखित जे० सी० ओ० को सेवा निवृत्त होने पर अपना रैंक रखने की अनुमति देते हैं:—

टैरिटरियल आर्मी

110 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी० ए०)

सूबेदार मेजर पी० गोविन्दा मेनन (टी० जे०-129) 7 नवम्बर 1970।

सूबेदार औन्डन परामबाथ शिवाशंकर (टी० जे०-319), 13 सितम्बर 1970।

आर० के० आर० गोनीला,
अवर सचिव

सं० 379, तारीख 20 जनवरी 1971—निम्नलिखित अफसर को नेहरू पर्वतारोहण संस्था में उप-प्रधान के पद पर कार्य करते हुए मेजर का स्थानीय पद तारीख 11 दिसम्बर 1970 से प्रदान किया जाता है:

(नियमित सेना)

(नियमित कमीशन)

कैप्टेन बी० सी० पचोरी (आई० सी० 13800), 5/1 जी० आर०।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

सं० 380, दिनांक 23 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु को प्राप्त करने पर थल सेना से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

ब्रिगेडियर ई० डीसा (आई० सी० 3122) बी० एस० एम, इंजीनियर्स, 4 दिसम्बर 1970।

सं० 381, दिनांक 16 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसकी अपनी प्रार्थना पर निजी कारणों से थल सेना से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

ब्रिगेडियर डब्ल्यू० एस० आहलूवालिया (आई० सी० 3089) ए० बी० एस० एम० ई० एन. ई०—7 दिसम्बर 1970

ब्रिगेडियर एम० कामत (आई० सी० 5266) ए० एस० सी०, 8 दिसम्बर 1970।

ब्रिगेडियर आर० के० एस० बिन्द्रा (आई० सी० 1930)
ए० एस० सी०, 6 जनवरी 1971

कर्नल डी० आर० पुरी (आई० सी० 2927) ए० एस० सी०,
28 दिसम्बर 1970।

कर्नल एन० एल० जामवाल (आई० सी० 3263) शौर्य
चक्र, 1 जनवरी 1971।

सं० 384, दिनांक 23 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अफसर को उनकी अपनी प्रार्थना पर निजी कारणों से
थल सेना से निवृत्त होने की ओर तबादला अफसरों के नियमित
रिजर्व (श्रेणी 'एक्स') में करने की अनुमति देते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

कर्नल एस० के० कानडाड़े (आई० सी० 1787), 15
दिसम्बर 1970।

कान्ति चन्द्र वसु, उपसचिव

सैनिक इंजीनियर सेवायें

सं० 383, तिथि 27 जनवरी 1971—निम्नलिखित
अधिकारी उनके नाम के सामने लिखित तिथि से सेवा से निवृत्त
हुए:—

एम० ई० एस० 25007, श्री जे० आर० छिबरा स्थाई ए०
ओ०-1, 5 सितम्बर 1970 (अपराह्न)।

सं० 384, तिथि 3 फरवरी 1971—निम्नलिखित
अधिकारी का उनके नाम के सामने लिखित तिथि को देहांत
हुआ:—

एम० ई० एस० 86 श्री साधू सिंह सुपरिन्टेंडेंट बी०/आर०
ग्रेड I स्थाई और अस्थाई ई० ई०, 12 जनवरी 1971 (पूर्वाह्न)

टी० जेकब,
अवर सचिव

सं० 385, दिनांक 20 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अधिकारियों को उनके नामके सामने दी गई तिथियों
से थल सेना अनुदेश 9/एस/62 (पहरा 15(अ) (तीन) के
अंतर्गत सेना से सेवा मुक्त करते हैं:

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

लेफ्टिनेंट एस० बी० डोंग्रा (ई० सी० 52419) इन्फैंट्री,
1 नवम्बर 1967।

लेफ्टिनेंट टी० आर० मलिक (ई० सी० 56357)
इंजीनियर्स, 5 दिसम्बर 1969।

लेफ्टिनेंट रविन्द्र शर्मा (ई० सी० 59532) आर्टिलरी,
1 अप्रैल 1970।

लेफ्टिनेंट के० चन्दर (ई० सी० 58818) ई० एम० ई०,
10 मई 1970।

लेफ्टिनेंट आर० भिवसिलम (ई० सी० 59565)
आर्टिलरी, 5 जुलाई 1970।

सं० 386, दिनांक 20 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अधिकारियों को 1 सितम्बर 1970 से थल सेना अनुदेश
9/एस०/62 (पहरा 15 (अ) तीन) के अंतर्गत सेना से सेवा
मुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

आपात्ती कमीशन

लेफ्टिनेंट एच० एस० ओबराय (ई० सी० 59458)
ई० एम० ई० लेफ्टिनेंट दीनानाथ शर्मा (ई० सी० 59511)
ई० एम० ई० लेफ्टिनेंट महेंद्र सिंह यादव (ई० सी० 59536)
ई० एम० ई० लेफ्टिनेंट राज पोल गुप्ता (ई० सी० 59617)
ई० एम० ई० लेफ्टिनेंट रमेश प्रशाद कपूर (ई० सी०
59642) ई० एम० ई० लेफ्टिनेंट स्टेनले कुमिला जोसुआ
(ई० सी० 59658) ई० एम० ई० लेफ्टिनेंट बल्लाक नगिश्वरा
राय (ई० सी० 59746) ई० एम० ई० लेफ्टिनेंट
प्रेम प्रकाश कौशिक (ई० सी० 59728) ई० एम० ई० लेफ्टिनेंट
उमेश चन्द्र प्रसाद पाण्डे (ई० सी० 59478) ए० ई० सी०
लेफ्टिनेंट उमेश चन्द्र शर्मा (ई० सी० 59576) ए० ई० सी०
लेफ्टिनेंट विरेन्द्र प्रताप (ई० सी० 59509) ए० ओ० सी०
लेफ्टिनेंट डेविड जीन मेश्रमलार (ई० सी० 59619) ए०
ओ० सी० लेफ्टिनेंट योगेन्द्र पोल मल्होत्रा (ई० सी० 59708)
ए० ओ० सी० लेफ्टिनेंट नरेन्द्र कुमार मंह (ई० सी० 59711)
ए० ओ० सी० लेफ्टिनेंट क्रिशम मुर्धई (ई० सी० 59722)
ए० ओ० सी० लेफ्टिनेंट खेमसिंह लाथर (ई० सी० 59531)
ए० ओ० सी० ।

सं० 387, दिनांक 22 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित अधिकारियों को 30 सितम्बर 1970 से थल सेना
अनुदेश 9एस०/62 (पहरा 15(अ) (तीन) के अंतर्गत सेना
से सेवा मुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

आपात्ती कमीशन

लेफ्टिनेंट विरेन्द्र कुमार (ई० सी० 59557) आर्टिलरी
लेफ्टिनेंट एस० एम० दास (ई० सी० 58175) इन्फैंट्री,
लेफ्टिनेंट एस० एल० दत्ता (ई० सी० 52830) आर्टिलरी,
लेफ्टिनेंट सी० पी० एस० मान (ई० सी० 53638) ए० एम०
सी०, लेफ्टिनेंट सी० डी० कुन्नेती (ई० सी० 59237) ए०
एस० सी०, लेफ्टिनेंट मोहन लाल गुलाटी (ई० सी० 56994)
आर्टिलरी, लेफ्टिनेंट ए० एस० होस्कोटे (ई० सी० 59699)
इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट एस०, जे० कांजले (ई० सी० 59742)
इंजीनियर्स, लेफ्टिनेंट सी० वा० आर० नम्बिआर (ई० सी०
52444) ए० ओ० सी० ।

सं० 388, तारीख 29 जनवरी 1971—राष्ट्रपति
निम्नलिखित नसिंग अफसर को विवाह के आधार पर सेवा
समाप्त करते हैं:—

नियमित सेना

मिलिट्री नसिंग सेवा (अस्थायी)

लेफ्टिनेंट (कुमारी) पी० एम० वासन्था कुमारी (एन०
एस० 14766) 15 नवम्बर 1970।

सं० 389, दिनांक 29 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को जिन्हें मैनिक सेवा के लिये बुलाया गया था, रिजर्व में वापस जाने की अनुमति देते हैं:—

अफसरों का नियमित रिजर्व (श्रेणीएं)

लेफ्टिनेंट एम० एम० ताहिर (आर० आर० 32) ए० एस० सी०—1 अप्रैल 1968।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

नौ सेना मुख्यालय

सं० 392, तारीख 23 जनवरी 1971—राष्ट्रपति श्री एस० एम० सोही, स्थायी सहायक की स्थानापन्न अधीक्षक के पद पर श्री बी० डी० भादुड़ी के स्थान पर नियुक्त करते हैं जिन्हें 17 सितम्बर 1970 से 17 अक्तूबर 1970 तक छुट्टी प्रदान की गई।

आर० डी० जैन, सहायक मुख्य प्रशासन अफसर

नौसेना विभाग

सं० 393, तारीख 4 फरवरी 1971—राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग III, अध्याय 4 के खण्ड II के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एकजीवपूटिव ब्रांच में निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

भारतीय नौसेना

(अल्प सेवा कमीशन)

एकजीवपूटिव ब्रांच

कार्य सब-लेफिट० के पद पर परखाधीन:—

आशित भट्टाचार्जी	}	आज 10 नवम्बर 1969
भारत भूषण		
बहराम दौराब आर्देशिर झाइवर		
बलजिन्दर सिंह ग्रेवाल		
दिलीप कुमार कालरा		
रमेश मनोहर कानिल्कर		
कादुगी रामचन्द्र राव		
चामराजनगर वंकेटस सत्येन्द्रनाथ		
रामास्वामी अय्यंगर शेषद्रवासन		
धर्मपाल सिंह		
अर्बिंद कुमार बिल्सन	}	आज 11 नवम्बर 1969
समीरकान्ति बसु		
सीता राम कुमार		
शशि प्रकमश	}	आज 13 नवम्बर 1969।
कुलदीप चन्द कौशल		

जवाहर सिंह, अवर सचिव

लेफ्टिनेंट दर्शन लाल, भा० नौ० की 12 दिसम्बर 1970 (पूर्वाह्न) से लेफ्टिनेंट आर० ए० एम० गुप्ता, भा० नौ० के स्थान पर जिसकी रिक्ति हुई।

एल० वी० परियार, अवर सचिव

सं० 395, तारीख 25 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

श्री वी० रांगियाह, स्थायी वरिष्ठ फोरमेन (गोला-बारूद) की स्थानापन्न सिविल तकनीकी अफसर (गोला-बारूद और विस्फोटक) के पद पर 27 नवम्बर 1970।

श्री वी० आर० गोपाल, स्थायी फारमेन (मैकेनिक) और स्थानापन्न वरिष्ठ फोरमेन (मैकेनिक) की स्थानापन्न सिविल तकनीकी अफसर (मैके०) के पद पर—4 दिसम्बर 1970।
वे दो वर्ष की परखावधि पर रहेंगे।

श्री सी० सुदर्शन, फोरमेन आफ स्टोर को सहायक नौसेना स्टोर अफसर के वर्तमान कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने के लिए श्री जी० वी० कार्नािक सहायक नौसेना स्टोर अफसर के स्थान पर नियुक्त किया गया जिन्हें 14 सितम्बर 1970 से 15 अक्तूबर 1970 तक छुट्टी प्रदान की गई।

श्री एन० एस० सहोता, स्थायी मुख्य ड्राफ्ट्समेन (विद्युत) की तकनीकी सहायक (डिजाइन/विद्युत) के वर्तमान कार्यों को स्वतंत्ररूप से करने के लिए श्री एन० कृष्णमूर्ति तकनीकी सहायक (डिजाइन/विद्युत) के स्थान पर जिन्हें 20 जुलाई 1970 से 29 अगस्त 70 तक छुट्टी प्रदान की गई।

वी० ए० बलियापरम्पिल, अवर सचिव

सं० 396, तारीख 4 फरवरी 1971—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

भारतीय नौसेना

(स्पेशल ड्यूटी लिस्ट)

एकजीवपूटिव ब्रांच

लेफिट० (एस० डी० बी०) की लेफिट० कमाण्डर (एस० डी० ए० बी०) के पद पर

के० चन्द्रन—30 सितम्बर, 1970

लेफिट० (एस० डी० ए० बी०) की लेफिट० कमाण्डर (एस० डी० ए० बी०) के पद पर

निरंजन सिंह, 30 सितम्बर, 1970

सब-लेफिट० (एस० डी० जी०) की लेफिट० (एस० डी० बी०) के पद पर

एस० एन० सरीन, रामेश्वर सिंह और गंधर्व सिंह, 30 सितम्बर 1970।

सब-लेफिट० (एस० डी० बी०) की लेफिट० (एस० डी० बी०) के पद पर

सं० 394, तारीख 22 जनवरी 1971—राष्ट्रपति ने अपने निजी स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति की है:—

एड० डी० कैम्प के पद पर

नस्था सिंह, शिव भरत, महावीर सिंह और डी० एस० टटवालिया, 30 सितम्बर 1970

सब-लेफ्टि० (एस० डी० एच०) की लेफ्टि० (एस० डी० एच०) के पद पर

हर भजन सिंह (भ्येण्ड), 30 सितम्बर, 1970।

सब-लेफ्टि० (एस० डी० पी० आर०) की लेफ्टि० (एस० डी० पी० आर०) के पद पर

बी० के० जान और डी० एम० नौहान, 30 सितम्बर 1970

सब-लेफ्टि० (एस० डी० सी०) की लेफ्टि० (एस० डी० सी०) के पद पर

एम० पी० मेहता, और बी० के० नायर, 30 सितम्बर 1970

सब-लेफ्टि० (एस० डी० ए० बी०) की लेफ्टि० एस०-डी०-कैम्प के पद पर

मी० एफ० हेंजी, गुरदयाल सिंह और जे० एम० आर० क्षीर-सागर 30 सितम्बर 1970।

इंजीनियरी ब्रांच

सब-लेफ्टि० (एस० डी० एम० ई०) की लेफ्टि० (एस० डी० एम० ई०) के पद पर

बलवीर सिंह और एन० एस० ब्रंस, 30 सितम्बर, 1970।

सब-लेफ्टि० (एस० डी० ए० ई०) की लेफ्टि० (एस० डी० ए० ई०) के पद पर

होशियार सिंह, 30 सितम्बर 1970।

सब-लेफ्टि० (एस० डी० एस० डब्ल्यू०) की लेफ्टि० (एस० डी० एस० डब्ल्यू०) के पद पर

एम० पी० टी० मेथ्यू, 30 सितम्बर, 1970।

इंफैक्ट्रिकल ब्रांच

सब-लेफ्टि० (एस० डी० ए० एस०) की लेफ्टि० (एस० डी० ए० एस०) के पद पर

मी० रेगिस, 30 सितम्बर 1970।

सब-लेफ्टि० (एस० डी० आर०) की लेफ्टि० (एस० डी० आर०) के पद पर

जे० एस० बाजवा, 30 सितम्बर 1970।

सब-लेफ्टि० (एस० डी० ए० आर०) की लेफ्टि० (एस० डी० ए० आर०) के पद पर

के० पी० एन० के० मेतन, 30 सितम्बर, 1970।

सल्लाई एण्ड सेक्टेरियट ब्रांच

लेफ्टि० (एस० डी० डब्ल्यू०) की लेफ्टि० कमाण्डर (एस० डी० डब्ल्यू०) के पद पर

के० सी० लक्ष्मणन, 30 सितम्बर 1970।

सब-लेफ्टि० (एस० डी० एस०) की लेफ्टि० एस० डी० एस०) के पद पर

एन० के० जे० पिल्ले, 30 सितम्बर 1970।

सब-लेफ्टि० (एस० डी० डब्ल्यू०) की लेफ्टि० (एस० डी० डब्ल्यू०) के पद पर

एन्दर सिंह, 30 सितम्बर 1970।

स्थायी कमीशन

इंफैक्ट्रिकल ब्रांच

ई० ए० आर० 3, ओ० नं० 50825 एम० डी० पाल की कार्य० सब-लेफ्टिनेन्ट के पद पर 10 फरवरी 1969 में नो० अनु० 141/61 के अन्तर्गत।

कार्य० सब-लेफ्टि० की सब-लेफ्टि० के पद पर

एम० बी० पाल 15 फरवरी 1970, 10 फरवरी 1969 की बरिष्ठता सहित (केवल पदोन्नति के लिए) नो० अनु० 141/61 के अन्तर्गत।

जवाहिर सिंह,
अवर सचिव

सं० 397, तारीख 25 जनवरी 1971—भारत के राजपत्र तारीख 26 अप्रैल, 1969 में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सं० 1043 तारीख 15 अप्रैल, 1969 तथा भारत के राजपत्र तारीख 14 फरवरी 1970 में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सं० 445 तारीख 3 फरवरी, 1970 के प्रसंग में, राष्ट्रपति सर्वश्री अशोक कुमार आनन्द और मोहिन्दर नारायण माथुर की अस्थायी अनुवाद अफसर (रूसी भाषा) के रूप में 31 दिसम्बर, 1971 तक अथवा सैन्य अफसरों की उपलब्धि के समय तक, जो भी पहले ही, बने रहने की अनुमति देने हैं।

वी० ए० वलियापरम्पिल, अवर सचिव

वायु सेना मुख्यालय

सं० 398, तारीख 25 जनवरी 1971—राष्ट्रपति श्री के० आर० कृष्णामूर्थी, अधीक्षक, के विस मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर चले जाने पर श्री रसन लाल, स्थायी सहायक को 18 जुलाई, 1970 से आगामी आदेश होने तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थानापन्न अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वह दो वर्ष तक परखाधीन रहेंगे।

आर० डी० जैन, सहायक मुख्य प्रशासन अफसर

(वायु शाखा)

सं० 399, तारीख 11 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के यथा संशोधित पत्र सं० वा० से० मु०/6765/42/पी० ओ० 2/5814/

डी० (ए०) तारीख 28 अप्रैल, 1952 के साथ पठनीय यथा संशोधित वा० से अनु० 49/51 तथा 23/48 के अधीन स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं:—

भारतीय वायु सेना
जी० डी० (नेवी) शाखा

(भूतपूर्व एन० डी० ए० फ्लाइट कैप्टेन पाइलट अफसर के रूप में) गुरबक्स सिंह गधोक (12420), राज पाल कपूर (12421), देव दत्त ककरा (12422), अशोक गोविन्दम थडानी (12428), सौमेन्द्र कुमार पटनायक (12429) और कोनरड एन्थोनी डाल्टन (12430)—13 जून 1970।

(भूतपूर्व वायु सैनिक फ्लाइट कैप्टेन पाइलट अफसर के रूप में) देवी शंकर त्रिवेदी (12426) और मोहम्मद फारूक सिद्दी की (12427)—13 जून, 1970।

आर० वी० पाठक, अवर सचिव

सं० 400, तारीख 14 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित को ए० फो० अनु० 4/एस०/50 के साथ पठनीय ए० फो० अनु० 19/63 के अन्तर्गत अल्पकालिक कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं:—

इण्डियन एयर फोर्स
टेक्निकल/सिगनलज ब्रांच

(भूतपूर्व एयरमैन फ्लाइट कैप्टेन-पाइलट अफसर के रूप में) (202151) वारंट अफसर शंगारा सिंह (12120)—30 अगस्त, 1969।

होशनाक सिंह, अवर सचिव

सं० 401, तारीख 8 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को ग्रुप कैप्टेन के कार्यकारी रैंक में पदोन्नत करते हैं:—

इण्डियन एयर फोर्स

जी० डी० (नेवीगैटर) ब्रांच

विंग कमांडर ई० पी० आर० नायर (3837)—18 मई, 1970।

कुलवन्त सिंह, उप सचिव

सं० 402, तारीख 12 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट को स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं:—

भारतीय वायुसेना

जी० डी० (पी०) शाखा

वी० तवैरा (5679)—7 फरवरी, 1970।

सं० 403 तारीख 12 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित फ्लाइट अफसरों को फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं:—

भारतीय वायुसेना

टेक० (सिग्न०) शाखा

एन० जे० पिल्ले (8802)—3 जुलाई, 1969।

जी० डी० (पी०) शाखा

एस० सी० बत्रा (8739)—1 अगस्त, 1969।

सं० 404, तारीख 12 जनवरी 1971—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर का परखाधीन अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं:—

भारतीय वायुसेना

टेक० (सिग्न०) शाखा

पाइलट अफसर जे० पी० गुप्ता (11749)—21 जून 1969।

होशनाक सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th February 1971

No. 334, dated 28th Jan 1971.—The President is pleased to appoint Shri Mohinder Singh, permanent Grade I officer of the CSS to officiate in the Selection Grade of the Service for the period from 15-11-1970 to 31-12-1970.

The President is also pleased to appoint Shri Mohinder Singh as Dy. Secy., Min. of Def. for the aforesaid period.

AJIT SINGH, Under Secy.

No. 335, dated 7th Jan, 1971.—The President is pleased to appoint the following permanent Assys. to officiate as S. O. Min. of Def. for the periods mentioned against them:—

1. Shri Inder Verma—from 1st Dec. 1970 to 15th Jan. 1971.
2. Shri Ram Samujh—from 1st Dec. 1970 to 15th Jan. 1971.
3. Shri R. P. Advaney—from 1st Dec, 1970 to 15th Jan. 1971.

4. Shri R. K. Das Gupta—from 1st Dec. 1970 to 15th Jan. 1971.
5. Shri Harnek Singh—from 1st Dec. 1970 to 15th Jan. 1971.
6. Shri A. Choudhury—from 1st Dec. 1970 to 8th Jan. 1971.
7. Shri T. C. Sangar—from 1st Dec. 1970 to 15th Jan. 1971.
8. Shri Sahdeo Prasad—from 1st Dec. 1970 to 15th Jan. 1971.
9. Shri S. C. Varmani—from 1st Dec. 1970 to 15th Jan. 1971.
10. Shri S. N. Sharma—from 1st Dec. 1970 to 31st Dec. 1970 and 4th Jan. 1971 to 6th Feb. 1971.
11. Shri Omkar Nath—from 1st Dec. 1970 to 8th Jan. 1971.
12. Shri S. S. Pandey—from 30th Nov. 1970 to 31st Dec. 1970.

13. Shri Ram Gopal—from 16th Dec. 1970 to 15th Jan. 1971.
14. Shri K. Adhinarayanan—from 10th Dec. 1970 to 31st Dec. 1970.
15. Shri K. C. Bhalla—from 30th Nov. 1970 to 31st Dec. 1970.

No. 336-A, dated 7th Jan. 1971.—Shri K. C. Bhalla, perm. Asstt. offg. S.O. Min. of Def. on attaining the age of superannuation retires from Govt. Service w.e.f. 1st Jan. 1971 (FN).

C. L. DHINGRA, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 336 dated 19th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointment :—

Office of the C.A.O.

Shri Chander Bhan, perm. Supdt. to be C.S.O in an offg. capacity w.e.f. 26th Dec. 1970 (FN) until further orders, vice Shri P. B. Pant, retired.

D. J. BARAT, Asstt. C.A.O.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 337, dated 15th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointment :—

Defence Science Service

SHRI MYSORE SUBBARAO LOKANATH to be tempy. S.S.O. Grade II in the Naval College of Engineering, I.N.S. SHIVAJI LONAVLA on probn. for a period of two years—25th Nov. 1970 (FN).

B. S. KAPOOR, Dy. Dir.

Department of Defence Production

No. 338, dated 16th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following promotions :—

Shri Vaikuntha Vinayakrao TUMBDE tempy. Senior Technical Asstt. Chief Inspectorate of Naval Stores, Bombay, to be offg. Junior Technical Officer in the same Inspectorate, 6th Oct. 1970 (FN).

Shri Kamal Ranjan Roy CHAUDHURI, tempy. Senior Technical Asstt. WP Cell Calcutta, to be offg. Junior Technical Officer, Dte. of Warship Projects, New Delhi, 10th Nov. 1970 (FN).

S. S. GUPTA, Dy. Director (Pers.)

Department of Defence Production

No. 339, dated 25th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointments :—

Defence Science Service

Shri Pramod Trimbak CHAUBAL to be tempy. J.S.O. Chief Inspectorate of Engineers, Dighi, Poona on probn. for a period of two years, 10th Dec. 1970 (FN).

Smt. Thiruvelangadu Rudrakoti KANAKALATHA to be tempy. J.S.O., Chief Inspectorate of Electronics, Bangalore on probn. for a period of two years, 14th Dec. 1970 (FN).

No. 340, dated 25th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following promotion :—

Defence Science Service

Shri P. D. BHARGO, offg. Sr. S. O. Grade II (Perm. Jr. S. O.), Chief Inspectorate of Special Vehicles, Dehu Road to be offg. Sr. S.O. Grade I, Inspectorate of Vehicles Southern Zone, Madras, 26th Oct. 1970 (FN).

No. 341, dated 25th Jan. 1971.—The undermentioned officer retired from service w.e.f. the date shown against his name :—

Defence Science Service

Dr. S. A. Trivedi, Perm. S.S.O. Grade I, Inspectorate of General Stores, Central India, Kanpur, 28th Dec. 1970 (AN).

K. R. GOEL, Dy. Dir. (Pers.).

National Cadet Corps Directorate

No. 342, dated 29th Jan. 1971.—On transfer from the Defence Accounts Department on deputation the President is pleased to appoint the following Accounts Officers as Accounts Officers (Civilian) in N.C.C. Dtes. w.e.f. the dates as shown against their names :—

Name of the Officer and Date

Shri B. SEN MAJUMDAR—20-11-1970 (FN).

Shri TARAN SINGH LAMBA—11-11-1970 (FN).

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

National Cadet Corps

No. 343, dated 1st Feb. 1971.—The President is pleased to grant commission to the following under the terms and conditions laid down in Govt. of India, Min. of Def. letter No. 5431/NCC/PERS(D)/775-III/D(GS-III), dated the 21st Dec. 1963 :—

Senior Division (Naval Wing)

To be Sub-Lt.

YOGENDRA PRATAP SINGH (NCCN/11874), 27th Jan. 1969, with seniority for promotion and pay from 7th Feb. 1964.

(M. of D. Notn. No. 2019 dated 23rd July, 1970, published in the G of I dated 8th Aug. 1970, is hereby cancelled, with all its connected entries, in so far as it relates to the above named officer.)

No. 344, dated 29th Dec. 1970.—The President is pleased to grant commission to the followings :—

Senior Division (Army Wing)

To be 2/Lts.

Madhya Pradesh

Radhe Shyam PANIGRAHI (NCC/13083), 5th Dec. 1969.

Rajasthan

Jagjit Singh SIDHU (NCC/6392) and Rajinder Singh PAWAN (NCC/6393), 20th Mar. 1970.

Rajasthan

Kamlakar Sopan JOSHI (NCC/9492), 1st Sep. 1970.

Gujarat

Vipinchandra Ladhhabhai KIKANI (NCC/10149), Kalabhai PATEL (NCC/10150), Nathalal Tejabhai KHUNT (NCC/10151) and Chandansing Nathusing GHELOT (NCC/10153), 18th Aug. 1970.

Premilal Kishanchand MAKHIJA (NCC/10152), 3rd Sep. 1970.

Girls Division (Senior Wing)

To be 2/Lt.

Tamil Nadu

Miss N. SAMPOORNA CHANDRA (NCC/GD/5437), 25th Feb. 1970.

Mrs. RANI KANDHASWAMI (NCC/GD/5436), 3rd Feb. 1970.

Madhya Pradesh

Miss PROMILA KAPOOR (NCC/GD/5733), 17th Mar. 1970.

Miss KUMUDINI VYAS (NCC/GD/5734), 17th Mar. 1970.

Uttar Pradesh

Miss NIRMALA DEVI (NCC/GD/6676), 1st July 1970.

Kerala

Miss V. PREMA VATHI (NCC/GD/7828), 19th Mar. 1970.

Gujarat

Miss BHATT KALAVATI MUGATLAL (NCC/GD/8762), 18th Aug. 1970.

Miss THAKUR SULOCHANA HUNDRAJ (NCC/GD/8763), 18th Aug. 1970.

Junior Division (Air Wing)

To be Third Officer

Rajasthan

GIRDHARI SINGH (NCCJA/31408), 8th June 1970, with antedate of seniority for promotion w.e.f. 8th Nov. 1965.

Tamil Nadu

CHELLIAH VINCENTI MANOLARA RAJ (NCCJ/51596), Alagirisamy Naidu GOVINDARAJULU (NCCJ/51597), JAYASEELAN NIRMALAKUMAR SELWYN CECIL JESUDASON (NCCJ/51598), Somasundaram GNANAVELU (NCCJ/51599), Karuppiah CHANDRASEKHARAN (NCCJ/51600), Rethinevel Swaminathan VETRIVEL (NCCJ/51601), Sendamangalam Varadarajulu Udayar RAMASWAMI (NCCJ/51602), Kuppamuthu Thevar ALAGARSAMY (NCCJ/51604), Solai Gounder PERIASAMY (NCCJ/51605), Seeni Alagappa MUTHIAH (NCCJ/51606), Kasilingagoundenpudur Appaji SUBBIAH (NCCJ/51607), Kanmuthu RAJA-GOPALAN (NCCJ/51608), SYED ANSER (NCCJ/51609), Pitchiah Pillai SIVASUBRAMANIAN (NCCJ/51610), PONNAN PAUL DHANARAJAN (NCCJ/51611), Samanathen Palayam Kuppaswamygounder RANGASWAMY (NCCJ/51612), Mambakkam Parthasrathy RAGHAVAN (NCCJ/51613), DEVADASON SAMUEL SANIHOSHAM SARGUNARAJ (NCCJ/51614), Naduppyan THIAGARAJAN (NCCJ/51615), Thannasi SARGUNAM (NCCJ/51616), Muthiah SUBBIAH (NCCJ/51617), Savarimuthu MARIAMICHAEL (NCCJ/51618), Panaiyandi RAJU (NCCJ/51619), Palani-gounder MURUGAN (NCCJ/51620), Venkatesan KRISHNA KUMAR (NCCJ/51621), Ramasamy Naidu Rajaram PANDI (NCCJ/51622), Joghee Gowder BELLIE (NCCJ/51623), Valivittathevar VELUCHAMY (NCCJ/51624), Subbiah Pillai MANICKAVASAGAM (NCCJ/51625), Sangili Chettiar LOGARA (NCCJ/51626), VEERASAMY RAPHAEL DEVASUNDARAM (NCCJ/51627), Thanumalayan PAZHANIAPPAN (NCCJ/51628), 28th Aug. 1970.

West Bengal

Purnendu SALVI (NCCJ/15242), Dilip Kumar BHATTACHARYA (NCCJ/15243), Kalidas DE (NCCJ/15244), Jibesh Chandra PAL (NCCJ/15245), Prabir Kumar CHAUDHURI (NCCJ/15246), 28th Aug. 1970

Punjab

KABAL SINGH (NCCJ/8127), SEWA SINGH (NCCJ/8128), GURCHARN SINGH (NCCJ/8129), Dharam Paul VERMA (NCCJ/8130), Harish Chander GUPTA (NCCJ/8133), Mohinder Singh SAGOQ (NCCJ/8134), GURDIP SINGH (NCCJ/8135), Prem Chand SHARMA (NCCJ/8136), Kanwal Kishore DHIR (NCCJ/8137), GURMEL SINGH (NCCJ/8138), AMAR NAJH (NCCJ/8139), NAZAR SINGH (NCCJ/8140), 28th Aug. 1970.

Haryana

Subhash Chander GUPTA (NCCJ/8068), 4th June 1969.

Assam

Mati Dev SHARMA (NCCJ/483), 15th Feb. 1970.

Mysore

Bangalore Sanjeevappa VAIRANABHA (NCCJ/23440), Yeshwant Marut Rao NIKKAM (NCCJ/23441), Krishnappa RAMACHANDRA (NCCJ/23442), Inder Singh DUNGERPIURIA (NCCJ/23443), Maganahalli BASAVARAJAPPA (NCCJ/23444), Peraje Mohandas SHETTY (NCCJ/23445), 28th Aug. 1970.

Kerala

PUIHENVEETIL RAPHEL JOHN (NCCJ/25544), KEEZHURIDATHIL BHUVANADASAN VAZHUNNAVAR (NCCJ/25546), Mysore Seetharama Rao Ananda RAO (NCCJ/25547), Kollentayyathu Mathunney JOHN (NCCJ/25548), KOICKAL JOHN THOMAS (NCCJ/25549), EARATH UMMER (NCCJ/25551), Cherian Baby KUTTY (NCCJ/25552), Manathanath Kodavachalil Sankaranunni NAIR (NCCJ/25553), 28th Aug. 1970.

Orissa

NARAYAN DAS (NCCJ/61384), 15th Feb. 1970.

Tanakadhar BISWAL (NCCJ/61394), Biswambhar MALLIK (NCCJ/61395), Anand Chandra DAS (NCCJ/61396), Govind Chandra RATH (NCCJ/61397), Paritosh Bhushan DATTA (NCCJ/61398), Banabei SABOUR (NCCJ/61399), Ranjit Kumar DAS (NCCJ/61400), Manatanjan DAS (NCCJ/61402), DANIEL JOJO (NCCJ/61404), 28th Aug. 1970.

Rajasthan

Narayan Singh SODHA (NCCJ/31414), PISHORI LAL (NCCJ/31415), RAGHUNATH SINGH (NCCJ/31416), Ganga Prasad MISRA (NCCJ/31417), Mahesh Chandra SHARMA (NCCJ/31418), Murli Dhar SHARMA (NCCJ/31419), 28th Aug. 1970.

Gujarat

Pratapsigh Ramjibhai DODIA (NCCJ/35375), 28th Aug. 1970.

Junior Division (Naval Wing)

To be Third Officers

Maharashtra

Bhinrao Maotrao WANDILE (NCCJN/81511), 7th July 1968.

Punjab

Ravinder Singh MEHTA (NCCJN/8125), 5th July 1970.

Assam

Tithanath BORTHAKUR (NCCJN/487), Shri Gauri Prasad BARUA (NCCJN/488), 5th July 1970.

Mysore

Puttur VENKATRAMANA (NCCJN/23429), Gauribidanur Rama Rao Adinarayana RAO (NCCJN/23430), Raghupathi RAO (NCCJN/23432), Santosh Ponnurangam SAMUEL (NCCJN/23433), Padubidri Raghavendra NAVADA (NCCJN/23434), Holenarasipur Narayanaswamy SATYANARAYANA (NCCJN/23435), ANTONY D'SOUZA (NCCJN/23436), Tallak Hanumantha Rao NAGARAJAN (NCCJN/23437), ABDUL RASHEED (NCCJN/23438), Bhandaramane Chandrashekar HEGDE (NCCJN/23439) 5th July 1970.

Orissa

Mohan Chand GOUD (NCCJN/61392), 5th July 1970.

Rajasthan

Suresh Chander SAINI (NCCJN/31413), 5th July 1970.

Gujarat

Anilkumar Manishankar JOSHI (NCCJN/35369), Kantilal Ranchhod LAKHANI (NCCJN/35370), 5th July 1970.

Junior Division (Air Wing)

To be Third Officers

Tamil Nadu

Sellappampalayam Vaiyapuri SAKTIVELU (NCCJA/51555), Collappanthei Alagia MANAVALAN (NCCJA/51562), 8th June 1970.

Madhya Pradesh

MOHAMMAD SHAFI (NCCJA/5741), 8th June 1970.

Assam

Nondeswar BORPATRAGOHAJIN (NCCJA/486), 8th June 1970.

*Girls Division (Junior Wing)**To be Third Officer**Delhi*

Mrs. NARINDER GILL (NCCJ/GD/15050) and Miss BHARATI BANERJEE (NCCJ/GD/15051), 13th Nov. 1969.

Mysore

Miss PRABHA SHIRKRISHNA SABNIS (NCCJ/GD/18357), 17th Aug. 1970.

Miss B. N. NIRMALA (NCCJ/GD/18558), 25th Aug. 1970.

Gujarat

Miss SYED RAZIA SULTANA (NCCJ/GD/22037), 1st June 1970.

No. 345, dated 4th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following promotions:—

*Senior Division (Army Wing)**Cpts. to be Majors**West Bengal*

S. K. Bhakut (NCC/2454), 14th Aug. 1969.

H. D. Biswas (NCC/2459), 2nd Apr. 1970.

Mysore

E. S. Krishnaya (NCC/7025), 23rd Sep. 1970.

Gujarat

P. L. Bhinge (NCC/9630), 1st Oct. 1970.

*Lts. to be Cpts.**Tamil Nadu*

P. S. Jesudasan (NCC/1654), 30th Aug. 1970.

Madhya Pradesh

B. K. Roy (NCC/2383), 5th Dec. 1967.

West Bengal

P. R. Chowdhury (NCC/2626) and K. C. Chatterjee (NCC/2625), 28th June, 1969.

P. Mukherji (NCC/2645), 29th Sep. 1969.

R. K. Bhakta (NCC/2648), 30th Jan. 1970.

R. K. Roy (NCC/2659), 27th June, 1970.

Bihar

M. Q. Tawheed (NCC/3456), 19th Oct. 1966.

Uttar Pradesh

B. R. Kapoor (NCC/4372), 28th June, 1969.

Haryana

T. R. Vaid (NCC/5943), 26th July 1967.

B. M. Sharma (NCC/6031), 27th June 1970.

Mysore

M. N. Hemachandrar (NCC/7132), 11th Oct. 1970.

N. S. Baliga (NCC/7116), 28th Sep. 1970.

S. G. Ghivari (NCC/7250), 1st Oct. 1970.

Ahamadulla Khan (NCC/7087), 30th Jan. 1970.

Kerala

N. G. Kunjachan (NCC/7709), 27th June 1970.

M. K. Abraham (NCC/7702), 29th Sep. 1969.

Gujarat

A. M. Upadhyaya (NCC/9773), 28th Sep. 1970.

*2/Lts. to be Lts.**West Bengal*

A. K. Bhattacharyya (NCC/3099), 26th June 1969.

A. K. Banerjee (NCC/3071), 30th June 1968.

Uttar Pradesh

Devendra Swarup (NCC/5236), 7th Apr. 1970.

Delhi

S. P. Bedi (NCC/5624), 26th June 1969.

Haryana

S. R. Nehra (NCC/10522) and M. D. Gupta (NCC/10523), 1st Aug. 1970

Mysore

S. G. Bellary (NCC/7376), 3rd Jan. 1970.

R. C. Honawad (NCC/7482) and A. B. Shivayyanamath (NCC/7483), 18th Aug. 1970.

S. S. Nesarikar (NCC/7465) and G. S. Kalburgi (NCC/7464), 1st Aug. 1970.

Kerala

M. J. Joy (NCC/8035), 1st Apr. 1968.

Orissa

K. K. Panda (NCC/8957), 30th Dec. 1967.

D. C. Das (NCC/8982), 26th June 1969.

S. S. Satrusallaya (NCC/8986), 1st Jan. 1969.

Rajasthan

P. N. Srivastava (NCC/9425), 13th Sep. 1970.

Mahabir Singh (NCC/9454), 30th Mar. 1970.

Gujarat

K. D. Patel (NCC/10095), 6th Oct. 1970.

B. S. Pandya (NCC/10097), 10th Oct. 1970.

*Senior Division (Air Wing)**Flt. Lt. to be Sqn. Ldr.**West Bengal*

D. Mukherjee (NCCA/2455), 29th Aug. 1969.

*Flg. Offr. to be Flt. Lt.**Bihar*

B. G. Shah (NCCA/3652), 16th July 1969.

*Plt. Offr. to be Flg. Offr.**Haryana*

S. K. Jain (NCCA/10521), 20th July 1970.

*Junior Division (Air Wing)**Third Officer to be Second Officer**Rajasthan*

GIRDHARI SINGH (NCCJA/31408), 8th Nov. 1968.

No. 346, dated 1st Feb. 1971.—The President is pleased to accept the resignation of the following officers from the NCC w.e.f. 22nd Dec. 1970. The period shown in brackets against their names shall not be counted for purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC:—

*Senior Division (Army Wing)**Uttar Pradesh*

Maj. D. S. Pande (NCC/4119), (1st Nov. 1969 to 21st Dec. 1970).

Kerala

Capt. K. V. Devasia (NCC/7662), (1st July 1970 to 21st Dec. 1970).

Andhra Pradesh

Lt. P. Rayanna (NCC/8486), (1st July 1970 to 21st Dec. 1970).

Bihar

Lt. Rehey Shyam Sinha (NCC/3935), (14th July 1970 to 2nd Nov. 1970), Capt. K. D. Banerji (NCC/3427), (1st Feb. 1970 to 2nd Nov. 1970).

Uttar Pradesh

Lt. Bhan Prakash (NCC/5134), (1st June 1970 to 2nd Nov. 1970).

Assam

Lt. H. Yumjao Singh (NCC/6819), (16th Oct. 1969 to 2nd Nov. 1970).

Gujarat

Capt. K. M. Acharya (NCC/9642), and Maj. H. N. Jani (NCC/9604), (1st Oct. 1969 to 2nd Nov. 1970).

*Senior Division (Air Wing)**Andhra Pradesh*

Flg. Offr. P. Venkataraman (NCCA/8425), (3rd June 1970 to 2nd Nov. 1970), Flg. Offr. G. Narayana (NCCA/8789), (1st Sep. 1970 to 2nd Nov. 1970).

No. 347, dated 1st Feb. 1971.—The President is pleased to discharge the following officers from the NCC w.o.f. 22nd Dec. 1970. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the NCC :—

*Senior Division (Army Wing)**Madhya Pradesh*

Capt. R. K. Rai (NCC/1884), (25th July, 1969 to 21st Dec. 1970). Lt. P. K. Deshmukh (NCC/2150), (1st Apr. 1969 to 21st Dec. 1970).

Bihar

Capt. H. P. Singh (NCC/3564), (25th Jan. 1969 to 21st Dec. 1970).

Uttar Pradesh

Lt. R. S. Yadav (NCC/4950), (6th Apr. 1970 to 21st Dec. 1970).

Himachal Pradesh

Lt. P. S. Rawat (NCC/6466), (14th Mar. 1967 to 21st Dec. 1970).

Kerala

Lt. A. R. Balakrishna Pillai (NCC/7865), (18th July 1968 to 21st Dec. 1970).

2/Lt. T. T. Daniel (NCC/7948), (1st Mar. 1968 to 21st Dec. 1970), 2/Lt. P. V. Chakkunni (NCC/7949), (1st Aug. 1968 to 21st Dec. 1970), Lt. K. J. Joseph (NCC/7782), (1st Aug. 1968 to 21st Dec. 1970).

Rajasthan

Lt. D. S. Yadava (NCC/9286), (28th Aug. 1969 to 21st Dec. 1970), 2/Lt. O. George (NCC/9453), (17th Sep. 1969 to 21st Dec. 1970), Lt. M. J. Khan (NCC/9384), (11th Sep. 1969 to 21st Dec. 1970), Capt. J. N. Bohra (NCC/9150), (26th July, 1969 to 21st Dec. 1970).

Gujarat

2/Lt. V. C. Patel (NCC/10094), (1st Feb. 1969 to 21st Dec. 1970).

*Senior Division (Air Wing)**Mysore*

Flg. Offr. G. Shivaram Prasad (NCCA/7391), (1st Aug. 1968 to 21st Dec. 1970).

*Senior Division (Army Wing)**Tamil Nadu*

Capt. S. Kulandainathan (NCC/1278), (15th June, 1970 to 2nd Nov. 1970), Lt. A. G. Ramachandran Nair (NCC/1511), (18th May, 1968 to 2nd Nov. 1970).

Madhya Pradesh

2/Lt. Yashwant Singh (NCC/13055), (4th July 1970 to 2nd Nov. 1970).

Uttar Pradesh

Lt. K. C. Shah Jagati (NCC/5019), (23rd July, 1968 to 2nd Nov. 1970), Capt. K. S. Nagar (NCC/4250), (1st Aug. 1970 to 2nd Nov. 1970), Lt. P. B. Verma (NCC/4674), (1st July 1969 to 2nd Nov. 1970), Lt. A. P. Baijal (NCC/4253), (1st Feb. 1970 to 2nd Nov. 1970), Lt. R. S. Tripathi (NCC/4255), (1st Oct. 1969 to 2nd Nov. 1970).

Punjab

2/Lt. A. S. GILL (NCC/6248), (24th Nov. 1964 to 2nd Nov. 1970). Lt. K. J. Singh (NCC/6243), (1st Nov. 1967 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. B. L. Kapur (NCC/6376), (4th July, 1968 to 2nd Nov. 1970), Lt. Jagtar Singh (NCC/6054), (22nd Dec. 1966 to 2nd Nov. 1970).

Assam

Lt. S. K. Bardhan (NCC/6558), (19th Dec. 1967 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. Shiva Kumar Tewari (NCC/6646), (1st July, 1964 to 2nd Nov. 1970).

Mysore

Lt. K. Sreenivasa Rao (NCC/7139), (15th Oct. 1968 to 2nd Nov. 1970), Lt. A. L. Pius (NCC/7207), (15th Oct. 1968 to 2nd Nov. 1970), Lt. G. Nagabhushanachari (NCC/7215), (31st July, 1968 to 2nd Nov. 1970), Lt. H. Krishnappa (NCC/7209), (1st Aug. 1968 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. S. Honnaiah (NCC/7493), (15th Oct. 1968 to 2nd Nov. 1970).

Kerala

Capt. K. G. Murari Nair (NCC/7609), (1st June, 1967 to 2nd Nov. 1970).

Gujarat

Lt. M. I. Shah (NCC/9967), (15th Nov. 1969 to 2nd Nov. 1970), Lt. H. B. Naik (NCC/9695), (22nd June, 1968 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. R. C. Patel (NCC/10083), (15th June 1969 to 2nd Nov. 1970), Maj. N. N. Udawadia (NCC/9628), (27th Jan. 1969 to 2nd Nov. 1970), Lt. D. V. Mehta (NCC/9856), (1st Dec. 1969 to 2nd Nov. 1970), Lt. K. M. Patel (NCC/9901), (29th Dec. 1969 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. M. S. Patel (NCC/9961), (15th June, 1966 to 2nd Nov. 1970), Capt. N. M. Patel (NCC/9631), Lt. R. S. Loiwai (NCC/9707), Lt. V. N. Sathe (NCC/9657), Lt. N. B. Joglekar (NCC/9644), Lt. Y. A. Raikar (NCC/9782), and 2/Lt. L. F. Rabari (NCC/9734), (1st July, 1964 to 2nd Nov. 1970), Lt. N. T. Sheth (NCC/9632), (21st Aug. 1961 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. K. R. Dixit (NCC/9692), (14th Oct. 1962 to 2nd Nov. 1970), Lt. R. M. Thakkar (NCC/9711), (1st July, 1965 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. A. P. Dalwadi (NCC/9820), (15th June, 1965 to 2nd Nov. 1970), Lt. D. J. Jani (NCC/9900), (4th June, 1967 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. A. D. Satvedi (NCC/9870), (1st June, 1966 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. R. R. Rathod (NCC/9957), (15th June, 1966 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. M. M. Oza (NCC/9899), (14th June, 1966 to 2nd Nov. 1970), Lt. T. G. Sharma (NCC/9749), (11th June, 1965 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. N. P. Shastri (NCC/9844), (15th June, 1965 to 2nd Nov. 1970), Lt. S. Swadia (NCC/10068), (30th Mar. 1966 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. T. S. Devidas (NCC/9704), (15th June, 1963 to 2nd Nov. 1970), Lt. R. J. Sarvaiya (NCC/9811), (18th Sep. 1967 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. S. C. Sheth (NCC/9843), (1st Dec. 1965 to 2nd Nov. 1970), Capt. P. B. Vaidya (NCC/9601), (8th Aug. 1958 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. P. D. Desai (NCC/9849), (12th June, 1964 to 2nd Nov. 1970), Lt. N. J. Patel (NCC/9719), (1st Feb. 1966 to 2nd Nov. 1970), Lt. G. V. Gaglani (NCC/9947), (15th June, 1970 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. C. C. Vyas (NCC/10062), (1st Feb. 1969 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. M. M. Patel (NCC/9867), (1st Dec. 1965 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. K. M. Patel (NCC/9779), (1st Oct. 1964 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. R. M. Desai (NCC/9852), (1st July, 1966 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. M. P. Dwivedi (NCC/9818), (1st Aug. 1964 to 2nd Nov. 1970), Lt. L. B. Rathod (NCC/9816), (15th June, 1967 to 2nd Nov. 1970), Lt. N. R. Patel (NCC/9839), (31st May, 1970 to 2nd Nov. 1970), Lt. B. M. Desai (NCC/9785), (18th July 1970 to 2nd Nov. 1970), Lt. D. C. Bansal (NCC/10037), (15th June, 1970 to 2nd Nov. 1970), Lt. C. D. Desai (NCC/9754), (1st Feb. 1969 to 2nd Nov. 1970), Lt. S. N. Date (NCC/9877), (1st Aug. 1969 to 2nd Nov. 1970).

Jammu and Kashmir

2/Lt. R. P. Manhas (NCC/10282), (1st Oct. 1967 to 2nd Nov. 1970), Lt. M. L. Raina (NCC/10252), (31st July, 1969 to 2nd Nov. 1970), Lt. R. P. Sharma (NCC/10247), (1st July, 1969 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. G. J. Dhar (NCC/10285), (28th Feb. 1968 to 2nd Nov. 1970), 2/Lt. Baldev Singh (NCC/10274), (1st May, 1970 to 2nd Nov. 1970), Lt. Y. A. Bajowala (NCC/10276), (21st July, 1966 to 2nd Nov. 1970).

*Senior Division (Naval Wing)**Gujarat*

Sub Lt. N. V. Dave (NCCN/9978), (15th Aug. 1969 to 2nd Nov. 1970).

*Senior Division (Air Wing)**Kerala*

Flg. Offr. P. John (NCCA/7669), (19th Sep. 1967 to 2nd Nov. 1970).

Jammu and Kashmir

Flt. Lt. M. L. Kaul (NCCA/10223), (23rd May, 1969 to 2nd Nov. 1970).

No. 348, dated 1st Feb. 1971.—The President is pleased to discharge the following officers from the NCC w.e.f. the date shown against their names:—

*Senior Division (Army Wing)**Andhra Pradesh*

Lt. N. Munaswamy Naidu (NCC/8673), 18th Dec 1967.

Kerala

Capt. K. V. Jacob (NCC/7621), 1st Sep. 1970.

Madhya Pradesh

2/Lt R P Awadhya (NCC/2233), 10th Jan 1968.

Mysore

Lt M. Puttasubhanna (NCC/7173), 10th June, 1969.

Lt. Kariguddaiah (NCC/7323), 9th July, 1968.

No. 349, dated 8th Jan. 1971.—The President is pleased to transfer the following officer from Junior Division (Army Wing) to Junior Division (Naval Wing) w.e.f. the date indicated against his name:—

*Junior Division (Naval Wing)**Orissa*

Third Officer HIMANSU BHUSAN DAS (Old P. No. NCCJ/61301) (New P. No. NCCJN/61301), 5th July 1970.

No. 350, dated 19th Jan. 1971.—*Corrigenda*.—(i) In M. of D. Notn. No. 1649, dated 27th June 1969 published in the G. of J. dated 12th July 1969, under the sub headings 'Junior Division (Army Wing)' and 'To be Third Officers' below 'Himachal Pradesh' for 'RAM PAL MISRA (NCCJ/23716)' read 'RAM PAL MISRA (NCCJ/23745)'

(ii) In M. of D. Notn. No. 2464 dated 26th Aug. 1970 published in the G. of J. dated 19th Sep. 1970, under the sub heading 'Junior Division (Naval Wing)' and 'To be Third Officers' below 'Delhi' for 'Phool Singh REVALIA (NCCJN/5737)' read 'Phool Singh REVALIA (NCCJN/6309)'.

V. FERRAO, Dir. of Pers.

Directorate General of Inspection of Warship Projects

No. 351, dated 15th Jan. 1971.—On attaining the age of superannuation, Shri B. L. Passi, Permt. Supdt. Dte. of Warship Project, Min. of Def. is transferred to pension establishment w.e.f. 15th Jan. 1971 (FN).

Directorate General Armed Forces Medical Services

No. 352, dated 4th Feb. 1971.—The President is pleased to appoint Shri J. K. Gupta, Permt. Asstt. to be Supdt. in an offg. capacity from 12th Oct. 1970 to 22nd Dec. 1970 vice Shri Prakash Prashar Permt. Supdt., proceeded on leave.

RAGHBIR SINGH, Asstt. C.A.O.

(ARMY BRANCH)

No. 353, dated 27th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointments:—

*COMDS. & STAFF**To be Comdr., a Corps Arty. Bde.*

Brig. M. S. Uberoi (IC 1353) Artillery, 29th Apr 1970.

To be Comdr., an Inf. Bde.

Lt Col (A/Brig.) A. P. Bhardwaj (IC 3966) V.S.M., Guards 30th June 1970.

To be Comdr., a Mtn. Bde.

Lt Col (A/Brig.) J. C. Joshi (IC 4186), Para 18th Oct. 1970.

Lt. Col. (A/Brig.) W. S. Bakshi (IC 4189) Raj. Rif., 8th Dec 1970.

Lt. Col. (A/Brig.) A. H. E. Michighan (IC 4190) Grenadiers, 9th Dec 1970

To be Comdr. an Arty. Bde.

Lt. Col. (A/Brig.) Jagjit Singh (IC 1541) Artillery, 23rd Dec. 1969

K. C. BOSE, Dy. Secy.

*Army Headquarters**G. S. Branch*

No. 354, dated 27th Jan. 1971.—On attaining the age of superannuation, Shri J. S. Bhatnagar, Permt. Supdt., transferred to pension establishment, 3rd Dec. 1970.

No. 355, dated 22nd Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointments:—

*Army Headquarters**E-In-C's Branch*

On transfer from DGAFMS, Shri J. K. Gupta, Permt. Asstt., to be offg. Supdt. in the A.F.H.Q. Civil Service w.e.f. 22nd Dec. 1970 (A.N.), until further orders, vice Shri R. C. Sud, transferred. He will be on probn. for two years.

Medical Dte.

1. Shri R. P. Bhatnagar, Permt. Supdt., to be CSO in an offg. capacity for the period of 17th Nov. 1970 to be 26th Dec. 1970 vice Shri R. C. Jain, CSO granted leave.

2. Shri K. B. Singh, Permt. Asstt. to be Supdt. in an offg. capacity for the period from 17th Nov. 1970 to 26th Dec. 1970 vice Shri R. P. Bhatnagar, Supdt., promoted.

3. Shri Maharaj Krishan, Permt. Supdt., to be CSO in an offg. capacity for the period from 2nd Dec. 1970 to 2nd Jan. 1971 vice Shri Vijaya Bahadur, CSO, granted leave.

4. Shri K. L. Gupta, Permt. Asstt. to be Supdt. in an offg. capacity for the period from 2nd Dec. 1970 to 2nd Jan. 1971 vice Shri Maharaj Krishan, Supdt., promoted.

5. Shri R. C. Chetal, Permt. Asstt. to be Supdt. in an offg. capacity for the period from 2nd Nov. 1970 to 19th Dec. 1970 vice Shri Jagjit Singh, Supdt. granted leave.

R. D. JAIN, Asstt. C.A.O.

(MS Branch)

No. 356, dated 27th Jan. 1971.—On attaining the age of superannuation, Shri Parkash Chand Sood, Permt. Supdt., retired from service w.e.f. 22nd Dec. 1970 and transferred to pension establishment from the same date.

D. J. BARAT, Asstt. C.A.O.

No. 357, dated 4th Feb. 1971.—The President is pleased to appoint the undermentioned General Officer as Col. of 61 CAVALRY w.e.f. the 13th Jan. 1971 for the period of his tenure as the Chief of the Army Staff:—

Gen. S. H. F. J. MANEKSHAW (IC-14), MC.

P. KRISHNAMURTI, Jt. Secy.

No. 358, dated 27th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointments:—

*Army Headquarters**To be D.D.M.T. (A)*

Brig. S. K. Joshua (IC 957), 23rd Nov. 1970.

To be Director of Works (Army), E-In-C's Branch

Brig. T. B. Nanda (IC 1001) Engineers, 25th Nov. 1970.

To be Director of Works (Air) E-In-C's Branch

Lt.-Col. (A/Brig.) R. K. Kalra (IC 4205) Engineers, 9th Nov. 1970.

K. C. BOSE, Dy. Secy.

No. 359, dated 23rd Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

To be Lts. w.e.f. 16th Apr. 1970 on relinquishing their Emergency Commission with seniority for pay and promotion from the date shown against each :—

Jaspal Singh SETHI (VE 1108 now V 251) RVC, 11th Oct. 1966.

Rajwant Singh BAJWA (VF 1123 now V 252) RVC, 18th Jan. 1967.

Gurcharan Singh MONGA (VE 1125 now V 253) RVC, 18th Jan. 1967.

Govind Swarup SRIVASTAVA (VF 1109 now V 254), RVC 11th Oct. 1966.

Surya Pal SINGH (VE 1118 now V 255) RVC, 12th Oct. 1966.

Shravan Kumar BISHNOI (VE 1106 now V 256) RVC, 11th Oct. 1966.

[AUTHORITY :—AI 219/50 read with Govt. of India, Min. of Def. letter No. A/00080/Q/RVI/819-R/D(QS), dated 4th May 1965].

V. S. RAGHAVAN, Under Secy.

No. 360, dated 20th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointment with an ante-date for seniority for pay and promotion from the date shown against her name under the provisions of AI 222/57 read with Min. of Def. letter No. 15158/DGAFMS/MNS/1638/S/D(Med.), dated 31st Dec. 1966.

REGULAR ARMY

*Military Nursing Service (Tempy.)**To be Lieut.*

Miss Bisibon, DIENGDOH NS-14695, 21st Nov. 1969 with seniority from 21st Nov. 1967.

No. 361, dated 29th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointment under AI 222/57 as amended :—

REGULAR ARMY

*Military Nursing Service (Tempy.)**To be Lieut.*

(Miss) PECHI MUTHU VASANTHA KUMARI (NS-14766), 1st July 1970.

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

Military Engineer Services

No. 362, dated 22nd Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointments :—

Shri P. C. SIBAL. Permt. Supdt. B/R Grade I and tempy. AEE, appointed to carry out the current duties of GE (P) No. 1 MISSAMARI in addition to his own for the period from 24th Apr. 1970 to 10th June 1970 (inclusive).

Shri D. P. MATHUR Permt. Supdt. C1 and Tempy. AO II, appointed to carry out the full duties of AO I in addition to his own in the office of CE, CZ NAGPUR for the period from 2nd June 1970 to 4th July 1970 (inclusive).

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

No. 363, dated 25th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointment under AI 13/S/65 :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned ECO is granted Permanent Commission w.e.f. 1st Aug. 1968 in the rank of 2/Lt. with seniority for promotion from 15th July 1965 but for increments of pay from 26th Jan. 1964 under AI 13/S/65 on relinquishing his Emergency Commission from 1st Aug. 1968. His inter-se-seniority *vis-a-vis* ECO granted Permanent Commission, will however, remain the same as allocated in the Gazette Notn. of Emergency Commission. By virtue of his

seniority, he is promoted to the rank of Lt. w.e.f. 1st Aug. 1968 with seniority in that rank from 15th July 1967 :—

P. S. SURIA PANDIAN (EC 54666 now IC 20801), ENGRS.

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

No. 364, dated 22nd Jan. 1971.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers consequent on the completion of the probationary period :—

REGULAR ARMY

Short Service Commission

Capt. H. S. BHATIA (MS-7983), AMC, 22nd July 1968.

Capt. G. V. RAMANA (MS-8058), AMC, 27th Jan. 1969.

Capt. S. V. CHANDORKAR (MS-8059) AMC, 27th Jan. 1969.

Capt. K. P. UNNI (MS-8060) AMC, 27th Jan. 1969.

Capt. B. K. MOHANTI (MS-8061) AMC, 27th Jan. 1969.

Capt. Y. S. BHATNAGAR (MS-8073) AMC, 13th Apr. 1969.

Capt. V. W. MAHAJAN, (MS-8079) AMC, 13th Apr. 1969.

Capt. N. A. N. MURTY, (MS-8081) (11999), AMC, 13th Apr. 1969.

Capt. A. N. DAN (MS-8097) AMC, 13th Apr. 1969.

Lt. A. K. MALAVIYA (MS 8100) AMC, 13th Apr. 1969.

No. 365, dated 25th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**Maj. to be subs. Lt. Col. (Time-scale)*

H. Singh (IC 9755), Inf., 13th Oct. 1970.

Capt. to be Maj

P. S. Choudhury (MR-1581) AMC, 8th Oct. 1969.

D. S. Sethna (MR-1678) AMC, 5th Sep. 1970.

I. S. Baj (IC 10002), S. K. Behl (IC 10020), S. S. Bajwa (IC 10029), A. K. Chatterjee (IC 10037), I. S. Sethi (IC 10047), S. P. Sharma (IC 10051), S. K. Gupta (IC 10057), E. V. Rozario (IC 10061), A. K. Gour (IC 10083) and U. K. Bhargava (IC 10095), Arty., 15th Dec. 1970.

D. Macfarland (IC 10014), K. S. Sinha (IC 10022), Surjit Singh (IC 10035), Arbail Singh (IC 10039), Hari Prakash (IC 10042), V. D. Sharma (IC 10048), Sukhdev Singh (IC 10056), S. M. Hinduja (IC 10090), M. S. Dhillon (IC 10118) and I. Lokendar (IC 10121) Arty., 15th Dec. 1970.

Lt. to be Capt.

S. Sathe (IC 12993), Arty. 17th Dec. 1967.

M. Chander (IC 15017) and Amrao Singh (IC 14599), Inf., 30th June 1969.

S. D. Prasad (IC 16072), Engineers, 2nd Aug. 1970.

K. D. Segan (IC 15586), Arty., 2nd Sep. 1969.

*(Emergency Commission)**Capt to be Quasi-subs. Maj.*

(Mrs.) Vallamma Lakshmi Mrunalini Ethirajulu (nee) (Miss) S. I. Mrunalini (M-30541) (8091) AMC, 22nd June 1970.

R. S. Kale (M-30481) AMC, 8th Sep. 1970.

*Short Service Commission**2/Lts. to be Lts.*

A. K. Sen Gupta (SS 20002) A.O.C., 6th Aug. 1969

*(Military Nursing Service)**(Permanent Commission)**Lt. to be Capt.*

Miss S. DHINDSA NS-13088, 8th Feb. 1970.

No. 366, dated 25th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following promotion under Min. of Def. letter

No. 15158/DGAFMS/MNS/1638/S/D(Med.), dated 31st Dec. 1966 :—

REGULAR ARMY

Military Nursing Service (Tempy.)

Lt. to be Quasi Subs. Capt.

Miss T. SARASWATHI NS-13849, 7th Nov. 1970.

No. 367, dated 4th Feb. 1971.—The President is pleased to make the following promotions :—

Regular Reserve of Officers (Class 'A')

Lt. to be Capt.

M. S. Taher (RR-32), A.S.C., 26th Nov. 1969.

Infantry

The Dogra Regt.

To be Nb. Sub.

CHM Babu Ram (No. 3943268 now JC-58980), 4th May 1970.

CHM Mangal Singh (No. 3947290 now JC-58981), 19th June 1970.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 1st June 1970 without effect on pay and allowances).

1 GR

To be Nb. Sub.

Hav. Sher Bahadur Pun (No. 5031732 now JC-59008), 1st Sep. 1970.

4 GR

To be Nb. Sub.

Hav. Chitra Bahadur Gurung (No. 5032089 now JC-59009), 23rd May 1970.

11 GR

To be Nb. Sub.

Hav. Budhifang Limbu (No. 9402576 now JC-59015), 19th June 1970.

Hav. Harishjang Rana (No. 9403298 now JC-59016), 11th Aug. 1970.

The Mahar Regiment

To be Nb. Sub.

Hav. Sayaji Salve (No. 4533167 now JC-58982), 2nd May 1970.

Hav. Milkhi Ram (No. 3940209 now JC-58983), 5th May 1970.

Hav. Munshi Ram (No. 9200139 now JC-58984), 15th May 1970.

Hav. Davindar Nath (No. 9200229 now JC-58985), 15th May 1970.

Hav. Sadashiv Janjawle (No. 4533719 now JC-58986), 22nd May 1970.

The Maratha LI

To be Nb. Sub.

Hav. Govinda Jadhav (No. 4141663 now JC-58987), 25th Mar. 1970.

Hav. Umakant Naik (No. 2744083 now JC-58988), 26th Mar. 1970.

Hav. Dnyanu Kadam (No. 4143332 now JC-58989), 1st May 1970.

Hav. Dinkar Savant (No. 2738457 now JC-58990), 25th May 1970.

The Punjab Regiment

To be Nb. Sub.

Hav. Bagh Singh (No. 2437377 now JC-59003), 29th Apr. 1970.

Hav. Hari Dass (No. 2437568 now JC-59004), 15th May 1970.

Hav. Joginder Singh (No. 2439445 now JC-59005), 27th June 1970.

Hav. Rangila Ram (No. 2438277 now JC-59006), 20th July 1970.

Hav. Kewal Singh (No. 2440135 now JC-59007), 22nd July 1970.

The Parachute Regiment

To be Nb. Sub.

Hav. Sivi Narayan Singh Vikhwakaram (No. 5032183 now JC-58991), 27th Apr. 1970.

CHM Narain Singh (No. 4144091 now JC-58992), 6th June 1970.

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Vijai Singh (No. 2740108 now JC-58998), 23rd July 1970.

The Rajput Regiment

To be Nb. Sub.

Hav. Ratan Lal (No. 2943729 now JC-59017), 19th Mar. 1970.

Hav. Ram Singh (No. 2493736 now JC-59018), 23rd May 1970.

Hav. Ram Pratap Singh (No. 2944275 now JC-59019), 24th May 1970.

Hav. Dadhi Bal Singh (Nb. 2943631 now JC-59020), 1st July 1970.

Hav. Uttam Singh (No. 2945094 now JC-59021), 13th July 1970.

The Sikh Regiment

To be Nb. Sub.

Hav. Kirpal Singh (No. 3338359 now JC-59022), 2nd May 1970.

Hav. Sham Singh (No. 3344120 now JC-59023), 26th July 1970.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 5th May 1970 without effect on pay and allowances).

Hav. Nirmal Singh (No. 3344538 now JC-59024), 23rd May 1970.

CHM Tarlok Singh (No. 3340395 now JC-59025), 13th June 1970.

Hav. Harbhajan Singh (No. 3344289 now JC-59026), 20th June 1970.

CHM Kabal Singh (No. 3343882 now JC-59027), 20th June 1970.

CQMH Inder Singh (No. 3338694 now JC-59028), 23rd June 1970.

CQMH Bahadur Singh (No. 3343947 now JC-59029), 24th June 1970.

Hav. Rachhpal Singh (No. 3338454 now JC-59030), 11th July 1970.

Hav. Karnail Singh (No. 3338517 now JC-59031), 12th July 1970.

Hav. Sawaran Singh (No. 3338053 now JC-59032), 15th July 1970.

Hav. Awtar Singh (No. 3341067 now JC-59033), 30th July 1970.

CHM Joginder Singh (No. 3344587 now JC-59034), 2nd Aug. 1970.

Regiment of Artillery

To be Nb. Sub.

RHM Dharm Singh Gill (No. 1145395 now JC-59010), 20th May 1970.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 15th May 1970 without effect on pay and allowances).

Special List

Regiment of Artillery

To be Nb. Sub. (Religious Teacher)

Sep./AA Ambika Pathak (No. 6809776 now JC-59014), 27th June 1970

*The Garhwal Rifles**To be Nb. Sub.*

Hav. Jagat Singh Aswal (No. 4034071 now JC-59040), 16th Mar. 1970.

Hav. Shyam Singh Rawat (No. 4034859 now JC-59041), 27th Mar. 1970.

Hav. Bijai Singh Rawat (No. 4031385 now JC-59042), 9th May 1970.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 5th May 1970 without effect on pay and allowances).

Hav. Satya Kishore Biniwal (No. 4034578 now JC-59043), 11th June 1970.

Hav. Hari Prasad Thapliyal (No. 4035089 now JC-59044), 14th June 1970.

*The JAK Rif.**To be Nb. Sub.*

Hav. Partap Singh (No. 13717392 now JC-58993), 23rd Mar. 1970.

Hav. Keshab Chander (No. 13718736 now JC-58994), 11th July 1970.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 29th Mar. 1970 without effect on pay and allowances).

Hav. Ajmer Singh (No. 13717963 now JC-58995), 14th Apr. 1970.

Hav. Daya Krishan (No. 13713731 now JC-58996), 7th May 1970.

Hav. Uttam Singh (No. 13718128 now JC-58997), 4th June 1970.

*Brigade of The Guards**To be Nb. Sub.*

Hav. Jagjiwan Ram (No. 4139896 now JC-59012), 29th June 1970.

Hav. Girdhari Lal (No. 3950255 now JC-59013), 19th July 1970.

*The Grenadiers**To be Nb. Sub.*

BHM BAGH SINGH (No. 13406126 now JC-59035), 23rd June 1970.

BHM MANGLA RAM (No. 2634111 now JC-59036), 1st July 1970.

QOMH BALAK RAM (No. 2634365 now JC-59037), 1st July 1970.

QOMH NARAIN SINGH (No. 2634052 now JC-59038), 1st July 1970.

CHM PIRTHI CHAND (No. 2640661 now JC-59039), 12th July 1970.

*Armoured Corps**To be Nb. Ris.*

SDM K. Jorawat Singh (No. 1022237 now JC-58999), 14th May 1970.

SDM R. Ravindran Nair (No. 1022292 now JC-59000), 13th July 1970.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Ris. w.e.f. 19th May 1970, without effect on pay and allowances).

Dfr. Gurdial Singh (No. 1011903 now JC-59001), 29th May 1970.

Dfr. Mela Singh (No. 1011875 now JC-59002), 10th July 1970.

*Army Educational Corps**To be Nb. Sub.*

Hav. Shiv Chand Yadav (No. 9500722 now JC-59011), 1st May 1970.

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

No. 368, dated 23rd Jan. 1971.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

*Infantry**The Kumaon Regt.**To be Sub.*

Nb. Sub. Nandan Singh (JC-37032), 16th Aug. 1970.

Nb. Sub. Nita Nand (JC-36882), 16th Nov. 1970.

Nb. Sub. Narendra Singh (JC-36144), 24th Nov. 1970.

To be Sub. (Clerk)

Nb. Sub. Clk. Krishan Singh (JC-39289), 11th Dec. 1970.

4 GR

To be Sub.

Nb. Sub. Nun Bahadur Gurung (JC-25504), 1st Dec. 1970.

Nb. Sub. Gagansingh Gurung (JC-27373), 18th Dec. 1970.

*JAK Rif.**To be Sub.*

Nb. Sub. Gambhir Singh (JC 33953), 15th Aug. 1970.

Nb. Sub. Sewa Singh (JC-35940), 3rd Oct. 1970.

Nb. Sub. Lal Bahadur (JC-27554), 11th Oct. 1970.

Nb. Sub. Bir Singh (JC-32953), 24th Oct. 1970.

Nb. Sub. Hans Raj (JC-41740), 4th Nov. 1970.

Nb. Sub. Durga Parshad (JC-34253), 1st Dec. 1970.

*The Raj Rif.**To be Sub. Maj.*

Sub. Sujan Singh (JC-5759), 1st Nov. 1969.

Sub. Bahadur Singh (JC-9738), 1st Nov. 1969.

Sub. Surajbhan Singh (JC-5497), 20th Dec. 1969.

Sub. Mukand Singh (JC-12890), 16th Sep. 1970.

Sub. Hanuman Singh (JC-7407), 28th Oct. 1970.

Sub. Molhar Singh (JC-7403), 21st Nov. 1970.

*The Grenadiers**To be Sub.*

Nb. Sub. Munir Ahmad (JC-33995), 8th Dec. 1969.

Nb. Sub. Fatch Singh (JC-28924), 1st Apr. 1970.

Nb. Sub. Nasir Khan (JC-27378), 24th July 1970.

*Brigade of The Guards**To be Sub. (Clk.)*

Nb. Sub. Clk. Dalip Singh (JC-26095)—24th Oct. 1970.

*Pioneer Corps**To be Sub. (GD)*

Nb. Sub. Mangat Ram (JC-31995), 30th Oct. 1970.

Nb. Sub. Jhaber (JC-31996), 31st Oct. 1970.

Nb. Sub. Ram Kumar (JC-31998), 9th Dec. 1970.

*Corps of Signals**To be Sub. Maj. (Clerk)*

Sub. Clk. Jagdish Sahai Kapila (JC-1074), 2nd Dec. 1970.

To be Sub. (GD)

Nb. Sub. Judson (JC-32116), 2nd Dec. 1970.

Nb. Sub. Laloo Singh (JC-32470), 7th Dec. 1970.

Nb. Sub. Guru Dass (JC-32471), 12th Dec. 1970.

Nb. Sub. T. Sankara Narayanan Namboodiri (JC-32472), 16th Dec. 1970.

Nb. Sub. Mohan Singh (JC-32476), 23rd Dec. 1970.

Nb. Sub. Baldev Singh (JC-32484), 23rd Dec. 1970.

Nb. Sub. Swaran Singh (JC-32488), 28th Dec. 1970.

Nb. Sub. Ram Lal (JC-32489), 30th Dec. 1970.

To be Sub. (Clerk)

Nb. Sub. Ck. C. Kumaran Ezhuthachan (JC-28038), 2nd Dec. 1970.

Nb. Sub. Ck. P. Krishnan Nair (JC-28039), 4th Dec. 1970.

To be Sub. (Cipher)

Nb. Sub. Sohan Singh (JC-30264), 27th Dec. 1970.

To be Sub. (F. of S.)

Nb. Sub. Bhim Sain (JC-49733), 28th Dec. 1970.

Nb. Sub. Y. Redha Krishnan (JC-49734), 28th Dec. 1970.

Nb. Sub. Rama Krishnan P. C. (JC-49735), 28th Dec. 1970.

Nb. Sub. Virendra Singh Raghava (JC-49738), 28th Dec. 1970.

P. K. KUMARAN, Under Secy.

No. 369, dated 17th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Corps of E. and M. E.

To be Sub. Maj. Armt. Art & Artz (Eligible Categories)

Sub. Gangadhar Prasad (JC-3516), 1st Jan. 1969.

Sub. Bachan Singh SOHAL (47650-JC), 1st Apr. 1969.

Sub. V. Lazar Pavamani (JC-3563), Sub. Amrit Chandra Shyam (JC-3565), Sub. Gunde Rao KULKARNI (JC-3485), Sub. P. Jayaraj THOMAS (JC-3568), Sub. MK Vasudev PILLAI (JC-3594) and Sub. Sunder Singh (JC-3596), 1st Oct. 1969.

To be Sub. Maj. Storekeeper Tech.

Sub. Saudagar Singh (51014-JC), 1st Nov. 1969.

To be Sub. Maj. Driving Wing

Sub. Balvinder Singh (IC-3404), 1st Jan. 1969.

Sub. S. Solomon (JC-3416), 1st Mar. 1969.

T. JACOB, Under Secy.

No. 370, dated 20th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Corps of E. and M. E.

CHM : to be Nb. Sub. Armt. Art (Radar)

Ram Krishna Dikshil (No. 7031570 now JC-58770), 1st Aug. 1970.

Ghisa Ram Yadav (No. 7033041 now JC-58771), 1st Oct. 1970.

Tangudu Ganapati (No. 7029867 now JC-58772), 1st Aug. 1970.

CHM : to be Nb. Sub. Armt Art (Radio)

J. Arockia Swami (No. 7034500 now JC-58773), 1st Oct. 1970.

CHM : to be Nb. Sub. Armt Art (Elect)

Murli Manohar (No. 7019225 now JC-58774), 1st Aug. 1970.

Dina Nath (No. 7020397 now JC-58775), 14th Aug. 1970.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f., 1st Aug. 1970 without effect on pay and allowances).

CHM : to be Nb. Sub. Armt Art (Inst)

Sultan (No. 7028997 now JC-58776), 1st Aug. 1970.

Balkrishnan Prasad Naithani (No. 7028940 now JC-58777), 1st Sep. 1970.

Maya Ram Kandwal (No. 4035398 now JC-58778), 1st Sep. 1970.

Kulwant Singh (No. 7029977 now JC-58779), 1st Sep. 1970.

CHM : to be Nb. Sub. Armt Art 'B' (Veh)

Hira Ballabh (No. 7030525 now JC-58780), 1st Aug. 1970.

Jaggiwan Singh (No. 7024908 now JC-58781), 25th Aug. 1970.*

Laxman Singh (No. 7023720 now JC-58782), 1st Aug. 1970.

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f., 1st Aug. 1970 without effect on pay and allowances).

CHM : to be Nb. Sub. Armt Art 'B' (Veh)

Kripal Singh (No. 7023963 now JC-58783), Sukhbir Singh Sulankhi (No. 7029945 now JC-58784), Vishnu Dalvi (No. 7032590 now JC-58785), Sat Narain Jatukern (No. 7035978 now JC-58786), Krishna Ballabh (No. 7033290 now JC-58787), 1st Aug. 1970.

Hav. : to be Nb. Sub. Ck. (GD)

S. Manivel Swamy (No. 7025736 now JC-58788), 1st Oct. 1970.

P. M. Ephrem (No. 7026574 now JC-58789), 1st Oct. 1970.

Hav. : to be Nb. Sub. Storekeeper Tech.

Muni Lal Rai Yadava (No. 6866544 now JC-58790), 1st Aug. 1970.

SPL Lakshmanan (No. 7030830 now JC-58791), 1st Aug. 1970.

Hav. : to be Nb. Sub. Armourer

Bhagwati Prashad Parendi (No. 7008302 now JC-58792), 1st Aug. 1970.

Hardawar Singh (No. 7011921 now JC-58793), 1st June 1970.

Ialta Prasad Misra (No. 7013496 now JC-58794), 12th Oct. 1970.

Hav. : to be Nb. Sub. Artizan (Non-Eligible Categories)

Machinist

Jaswant Singh (No. 7009811 now JC-58795), 6th Aug. 1970.

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f., 1st Aug. 1970 without effect on pay and allowances).

Carp & Jnr.

Dewan Ram (No. 6347837 now JC-58796), Dharam Singh Bhandari (No. 7031366 now JC-58797) and TK Muthu Krishnan (No. 7031453 now JC-58798), 1st Aug. 1970.

Upholsterer

C. Parameswaran (No. 7031373 now JC-58799), 1st Aug. 1970.

Hav. : to be Nb. Sub. Artizan (Non-Eligible Categories)

Blacksmith

Bhim Rao Wade (No. 7028173 now JC-58800), 1st Aug. 1970.

Hav. : to be Nb. Sub. Driving Wing

Madan Mohan Sharda (No. 7010635 now JC-58801), 1st Oct. 1970.

S. Vadivelu (No. 7013581 now JC-58802), 1st Oct. 1970.

Jagat Singh (No. 7013745 now JC-58803), 8th Nov. 1970.*

Onkar Singh (No. 7022350 now JC-58804), 1st July 1970.

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f., 1st Oct. 1970 without effect on pay and allowances).

VITAI KUMAR, Under Secy.

No. 371, dated 19th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Army Service Corps

(Mechanical Transport)

To be Sub.

Nb. Sub. Lal Chand Tiwari (JC-43372), 30th July 1970.

Nb. Sub. Hirda Narain Pandey (JC-43373), 4th Aug. 1970.

Nb. Sub. Hari Singh (JC-43374), 5th Aug. 1970.
 Nb. Sub. Udevir Singh (JC-43375), 14th Sep. 1970.
 Nb. Sub. Ram Lagan Shukla (JC-43376), 14th Sep. 1970.
 Nb. Sub. Phool Singh (JC-43377), 14th Sep. 1970.
 Nb. Sub. Lal Singh (JC-43378), 14th Sep. 1970.
 Nb. Sub. Shiv Kumar Tiwari (JC-43379), 14th Sep. 1970.
 Nb. Sub. Ram Kishan (JC-43380), 18th Sep. 1970.
 Nb. Sub. Bhutanmi Misra (JC-43381), 18th Sep. 1970.
 Nb. Sub. Baij Nath (JC-43382), 18th Sep. 1970.
 Nb. Sub. Charan Singh (JC-43383), 18th Sep. 1970.

*Supply**To be Sub. Maj. (Clerk GD)*

Sub. Arcot Siddhalinga Balaram (JC-2931), 22nd June 1970.

To be Subs. (Clerk GD)

Nb. Sub. Kundan Lal (JC-44126), 29th Apr. 1970.
 Nb. Sub. Triloki Nath Pandey (JC-44127), 1st May 1970.
 Nb. Sub. Kishan Singh (JC-44128), 2nd May 1970.
 Nb. Sub. Parkash Chand (JC-44129), 14th June 1970.
 Nb. Sub. Girdhari Lal (JC-44130), 14th June 1970.
 Nb. Sub. Labh Singh (JC-44131), 14th June 1970.
 Nb. Sub. Haritharayyer Ramaiah (JC-44132), 14th June 1970.
 Nb. Sub. Bataktushna Mohanty (JC-44133), 14th June 1970.
 Nb. Sub. Sudhir Ranjan Ghose (JC-44134), 14th June 1970.
 Nb. Sub. Pilipose John Pilipose (JC-44135), 9th July 1970.
 Nb. Sub. Chattar Singh (JC-44136), 9th July 1970.
 Nb. Sub. Kolappa Chidanbaram Pillai (JC-44139), 9th July 1970.
 Nb. Sub. Panakkal Poulose Job (JC-44140), 9th July 1970.
 Nb. Sub. Gajjan Singh Kular (JC-45693), 9th July 1970.
 Nb. Sub. Thomas George (JC-45694), 9th July 1970.
 Nb. Sub. Jamiat Singh (JC-45695), 9th July 1970.
 Nb. Sub. Gian Singh (JC-45696), 9th July 1970.
 Nb. Sub. Mehanga Ram (JC-45698), 9th July 1970.
 Nb. Sub. Chattar Singh (JC-45699), Nb. Sub. Dharam Jas (JC-48651), Nb. Sub. Ram Nath (JC-48652), Nb. Sub. Ajit Chandra Chakraborty (JC-48668), Nb. Sub. Prafulla Chandra Majumdar (JC-48653), Nb. Sub. Tulsi Ram (JC-48669), Nb. Sub. Amar Kanti Nag (JC-48654), Nb. Sub. Amar Singh (JC-48655), Nb. Sub. Lakshmi Narain (JC-48670), Nb. Sub. Chandrathil Padmanabha Padmanubhan Nair (JC-48671), Nb. Sub. Birbal Singh (JC-48672), Nb. Sub. Pirthi Raj (JC-49027) and Nb. Sub. Dharam Pal (JC-49028), 23rd July 1970.
 Nb. Sub. Jagdish Chandar (JC-49029), Nb. Sub. Pallapurambal Balasubramaniam (JC-49030), Nb. Sub. Sita Ram (JC-49031) and Nb. Sub. Suraj Bansh Singh (JC-49032), 26th July 1970.
 Nb. Sub. Parayankaval Mathai Verghese (JC-49033), Nb. Sub. Palcpu Dinker Rao (JC-49201), Nb. Sub. Manindra Nath Chakraborty (JC-49681), Nb. Sub. Phani Bhusan Pal (JC-49682), Nb. Sub. Girdhari Lal Sharma (JC-49683), Nb. Sub. Sat Pal (JC-49684), Nb. Sub. Shreedharan Menon Tharainal Sankaran (JC-49685), Nb. Sub. Ram Kishan (JC-50277), Nb. Sub. Amrik Singh (JC-50278), Nb. Sub. Dhanwant Singh (JC-50279), Nb. Sub. Malkiat Singh (JC-50280).

Nb. Sub. Deo Nandan Prasad (JC-50281), Nb. Sub. Kamleshwariprasad Singh (JC-50282), 12th Sep. 1970.

To be Sub. Majors (Clerk Store)

Sub. Daya Nand Tandan (32996-JC), 12th Nov. 1969.
 Sub. Har Kishan Lall Tandon (32997-JC), 14th Nov. 1969.

To be Subs. (Clerk Store)

Nb. Sub. Jaswant Singh (JC-26877), 1st Oct. 1969.
 Nb. Sub. Gian Chand (JC-26879), 1st Oct. 1969.
 Nb. Sub. Amar Singh (JC-26882), 4th Oct. 1969.
 Nb. Sub. Keshab Chandra Mazumdar (JC-30084), 20th Oct. 1969.
 Nb. Sub. Bishamber Dayal (JC-26883), 23rd Oct. 1969.
 Nb. Sub. Baldev Raj (JC-26884), 28th Oct. 1969.
 Nb. Sub. Radhakishan (JC-29696), 1st Nov. 1969.
 Nb. Sub. Harbans Singh (JC-29697), 4th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Akant Krishan (JC-29698), 6th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Bhagwan Chandra Sharma (JC-29699), 6th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Rudra Dutt Joshi (JC-29701), 7th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Nagesh Ganesh Inamdar (JC-29703), 12th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Keshab Narayan Bose (JC-21925), 12th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Vridhi Singh Chauhan (JC-29708), 13th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Sailendra Prasad (JC-29709), 14th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Jagadish Chandra Roy (JC-29712), 14th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Shiv Narain (JC-29713), 15th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Kalipada Dey (JC-29714), 15th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Balkrishna Vaman Deshpande (JC-29715), 17th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Mohan Lal (JC-29716), 17th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Bachan Singh (JC-30085), 19th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Mullikarjun Angadi (JC-29718), 20th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Chandrika Singh (JC-29719), 21st Nov. 1969.
 Nb. Sub. Chandra Deo Chowdhary (JC-21982), 23rd Nov. 1969.
 Nb. Sub. Ramnarayan Patnaik (JC-29720), 25th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Kailash Singh (JC-30088), 25th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Gopalkrishna Bakshi (JC-29721), 29th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Kaliyadan Hamza (JC-29722), 30th Nov. 1969.
 Nb. Sub. Ram Shakal Singh Yadeo (JC-29723), 3rd Dec. 1969.
 Nb. Sub. Hoshjar Singh Rana (JC-29724), 8th Dec. 1969.
 Nb. Sub. Triloki Nath Pandith (JC-29725), 12th Dec. 1969.
 Nb. Sub. Mange Ram (JC-29726) and Nb. Sub. Ram Sanahi Lal (JC-29727), 13th Dec. 1969.
 Nb. Sub. Nahemiah Nag (JC-29728), 19th Dec. 1969.
 Nb. Sub. Kundan Singh (JC-29729), 23rd Dec. 1969.
 Nb. Sub. Vishwanath (JC-29730), 24th Dec. 1969.
 Nb. Sub. Baljit Singh (JC-29731), 25th Dec. 1969.

Nb Sub Balwant Singh (JC-29732), 28th Dec. 1969.
 Nb Sub Shri Ram (IC 29733), 1st Jan 1970
 Nb Sub Narayan Bhangale (IC-29734) and Nb Sub Hari Chand Gupta (JC 29735), 5th Jan 1970.
 Nb Sub K C Thomas Pamcker (JC-29736), 6th Jan 1970.
 Nb Sub T R Appukkuttan Nair (JC-29737), 12th Jan. 1970
 Nb Sub Dharam Singh (JC 29738) 15th Jan, 1970
 Nb Sub Kartar Singh (JC-29739), 22nd Jan 1970
 Nb Sub V R Narayana Rao (JC-29740), and Nb, Sub Mohan Raj Vidhate (IC-29741) 23rd Jan 1970
 Nb Sub Bhawani Phci Shukla (IC-29742), 27th Jan 1970
 Nb Sub Madan Lal Bah (IC 29743), 28th Jan 1970
 Nb Sub Harbhajan Singh (IC-29744), 30th Jan 1970.
 Nb, Sub Madhukar Bhatawadekar (JC 29746), 4th Feb 1970.
 Nb Sub Amalikas Acharyya (JC-29748), 5th Feb 1970
 Nb Sub Satyanarayan Singh (JC-29749) and Nb Sub Mohindai Singh (IC 29750), 10th Feb 1970
 Nb Sub Khushal Singh Negi (JC-29752) 10th Feb 1970
 Nb Sub Ram Saran Kotnala (JC-29753), 23rd Feb 1970
 Nb Sub. M Krishnan Thampy (JC 29754), 27th Feb 1970
 Nb Sub K Govindan Kulty (IC-29755), 4th Mar 1970
 Nb Sub Sohan Lal Yadava (JC 29758) and Nb, Sub Prabhakar Gosavi (JC-29759), 9th Mar 1970
 Nb Sub Shib Nath Mukherjee (JC 29760), 12th Mar 1970
 Nb Sub Ram Kumar Basu (IC-29761) and Nb Sub Harbans Singh (JC-29762), 16th Mar 1970
 Nb Sub Harbans Singh (JC 29763) 17th Mar, 1970
 Nb Sub Dhananjay Mukherjee (JC-29764) and Nb, Sub, Purnya Deo Chaubey (JC-29765), 30th Mar, 1970

To be Sub (Clerk GD/SD)

Nb, Sub Thoppal John John (JC-23610), 18th Dec 1969.
 Nb Sub Balbir Singh (IC 26854), 1st Jan 1970
 Nb Sub Shri Naram Tewari (JC-26855) 2nd Jan 1970
 Nb Sub Adhn Chandra Banerjee (IC-26861), Nb, Sub Sudhir Chandra Chakraborty (JC-26863) and Nb Sub Su hil Kumar Datta (IC 26866) 20th Feb 1970

To be Sub (Catering)

Nb Sub JOTI PARKASH (IC-37509) 1st Aug 1970
 V S RAGHAVAN, Under Secy

No 374, dated 3rd Feb, 1971—The President is pleased to make the following promotion —

Territorial Army

Territorial Commission

Lt. to be Capt

P K Deshmukh (TA-10678) Engineers 6th June 1967
 R K R GONFLA, Under Secy

No 375, dated 4th Feb 1971—The President is pleased to sanction the retention in service of the following substantive Maj Gens and Brigs beyond the normal minimum retirement ages for the respective ranks, for the periods indicated against their names, in terms, of Min of Def letter No. 24(4)/69/2010 S/D(AG II), dated 29th Dec 1969 and No 24(4)/69/597 S/D(AG II), dated 25th Apl. 1970

Maj. Gens.

Maj.-Gen Shiv Charan Singh (IC 334)—From 10th May 1971 to 9th May 1973.
 Maj Gen Mohinder Singh (IC 1021) A S C —From 25th Apl 1970 to 31st Jan 1972
 Maj.-Gen K A S Raja (IC 801) P V S M —From 9th Jan 1971 to 8th Jan, 1973
 Maj.-Gen. K K Singh (IC 2014) M V C —From 3rd Mar 1971 to 2nd Mar 1973.
 Maj.-Gen N S Nair (IC 2042)—From 2nd Feb 1971 to 1st Feb, 1973
 Maj.-Gen V. B Julu (IC 3470)—From 6th Jan 1971 to 19th May 1972
 Maj.-Gen S Y Munshi (IC 919)—From 19th June 1971 to 18th June 1973.

Brigs.

Brig (A/Maj Gen) Z C Bakshi (IC 1510) M V C, Vr C, V S M —From 2nd Jan 1971 to 1st Jan 1973
 Brig O P Dutta (IC 857) A V S M, Engineers—From 31st Mar 1971 to 30th Mar 1973
 Brig B N Upadhyay (IC 2958) P V S M —From 16th June 1971 to 15th June 1973
 Brig S S Panwar (IC 492) Artillery—From 1st July 1971 to 30th June 1973
 Brig. C V. Advaney (IC 2581) Artillery—From 1st May 1971 to 30th Apl 1973
 Brig F. P. Shinde (IC 1879) V S M —From 3rd June 1971 to 2nd June 1973
 Brig M P Joseph (IC 976) Engineers—From 20th Feb 1971 to 19th Feb 1973
 Brig S S Malhotra (IC 929)—From 21st Mar 1971 to 20th Mar, 1973.
 Brig B. S Chand (IC 905) V C —From 28th Mar 1971 to 21st May 1972
 Brig J S Kalra (IC 1432) Signals—From 24th May 1971 to 23rd May 1973
 Brig. B Seshamani (JC 1204) Signals—From 28th Jan 1971 to 27th Jan 1973
 Brig Kundan Singh (IC 1522)—From 15th June 1971 to 14th June 1973.
 Brig Kuldip Singh (IC 3264)—From 19th May 1971 to 9th Dec 1972.

No 375, dated 4th Feb., 1971 —The President is pleased to permit the undermentioned General Officer to relinquish the appointment of Col of 61 CAVALRY w.e.f the 30th Nov 1970.

Lt Gen. M. S WADALIA (AI-947), (Reid)

P KRISHNAMURTI Jt Secy

No. 376, dated 22nd Jan 1971—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps w.e.f 15th Mar 1970 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps w.e.f the same date under AI 191/62 as modified by Min of Def letter No 17100/DGAFMS/DG 1(X)/6910/IV/D(Med) dated 31st Dec 1965.

REGULAR ARMY

Permanent Commission

To be Capt

Harbhajan Singh BHATIA MB BS (MS-7983 now MR-2687), A M C, with seniority for pay and promotion from

22nd Jan, 1968 (includes 6 months antedate for Hospital Appointment which will not count for gratuity).

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

No. 377, dated 25th Jan, 1971.—The President is pleased to award Territorial Army Medals to the undermentioned Territorial Army Junior Commissioned Officers and NCOs :—

Territorial Army

Infantry

112 Infantry Battalion (TA)

Sub. NAZAR SINGH (TJ-57), Sub. GURMIT SINGH (TJ-689), Sub. HOSHNAKI RAM (TJ-1174), Sub. JAGIR SINGH (TJ-1223), Sub. GURDIAL SINGH (TJ-1225), Nb. Sub. OM DHAN (TJ-1309).

124 Infantry Battalion (TA)

Sub. BALBIR SINGH MANJK (TJ-863), Nb. Sub. RAM SARUP SINGH (TJ-981), Sub. ROSHAN LAL DHUMEJA (TJ-1042), Sub. INDER SINGH (TJ-1044), Sub. SHIV LAL (TJ-1235), Sub. BALWANI SINGH (TJ-1236), Nb. Sub. SHIV DUTT SHARMA (TJ-1546).

125 Infantry Battalion (TA)

Sub. PR TONDAMAN (TJ-677), Sub. SELVARAJ (TJ-833).

Engineers (Railway)

968 HQ Rly. Engrs. (TA)

Nb. Sub. RAM SARUP (TJ-875), Hav. Clk. SHIV CHAND (No. 12088935).

No. 378, dated 23rd Jan, 1971.—The President is pleased to permit the undermentioned JCO. to retain his rank on discharge from the Territorial Army :—

Territorial Army

110 INF BN (TA)

Sub. Maj. P. GOVINDA MENON (TJ-129), 7th Nov. 1970.

Sub. ONDEN PARAMBATH SHIVASHANKAR (TJ-319), 13th Sep 1970.

R. K. R. GONELA, Under Secy.

No. 379, dated 20th Jan, 1971.—The undermentioned officer is granted the local rank of Major whilst employed as Vice Principal, Nehru Institute of Mountaineering, UTTAR KASHI :—

REGULAR ARMY

Regular Commission

Capt. VC PACHORI (IC 13800), 5/1 GR, 11th Dec. 1970.

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

No. 380, dated 23rd Jan, 1971.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service having attained the age of compulsory retirement :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Brig. E. D'Sa (IC 3122), V.S.M., Engineers, 4th Dec. 1970.

K. C. BOSE, Dy. Secy.

No. 381 dated 16th Jan, 1971.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service at his own request for personal reasons :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Brig. W. S. Ahluwalia (IC 3089), A.V.S.M., E.M.E., 7th Dec. 1970

Brig. S. Kamath (IC 5266), A.S.C., 8th Dec. 1970.

Brig. R. K. S. Bindu (IC 1930), A.S.C., 6th Jan. 1971.

Col. D. R. Puri (IC 2927), A.S.C., 28th Dec. 1970.

Col. N. L. Jamwal (IC 3263), S.C., 1st Jan. 1971.

No. 384, dated 23rd Jan, 1971.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army service at his own request for personal reasons, and to transfer him to the Regular Reserve of Officers (Class 'X') :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Col. S. K. Candade (IC 1787), 15th Dec. 1970.

K. C. BOSE, Dy. Secy.

(Military Engineer Service)

No. 383, dated 27th Jan, 1971.—The undermentioned officer retired from service with effect from the date indicated against his name :—

MES : 25007, Shri JR DHINGRA Permt. AO I, 5th Sep. 1970 (AN).

No. 384, dated 3rd Feb, 1971.—The undermentioned officer expired on the date indicated against his name :—

MES : 86, Shri SADHU SINGH Permt. Supdt, B/R Gde. I, and Tempy. E.E., 12th Jan, 1971 (FN).

T. JACOB, Under Secy.

No. 385, dated 20th Jan, 1971.—The President is pleased to release the undermentioned Emergency Commissioned Officers in terms of AI 9/S/62 (para 15(a)(iii)) w.e.f. the dates shown against each :—

REGULAR ARMY

Emergency Commission

Lt. SB Dogra (EC-52419), Infantry, 1st Nov. 1967.

Lt. TR Malik (EC-56357), Engineers, 5th Dec. 1969.

Lt. Ravinder Verma (EC-59532), Artillery, 1st Apr. 1970.

Lt. K. Chander (EC-58818), E.M.E., 10th May 1970.

Lt. R. Sivasailam (EC-59565), Artillery, 5th Jul. 1970.

No. 386, dated 20th Jan, 1971.—The President is pleased to release the undermentioned officers in terms of AI 9/S/62 (para 15(a)(iii)). w.e.f. 1st Sep. 1970 :—

REGULAR ARMY

Emergency Commission

Lt. HS Oberoi (EC-59458), E.M.E.

Lt. Dina Nath Sharma (EC-59511), E.M.E.

Lt. Mahendra Singh Yadav (EC-59536), E.M.E.

Lt. Raj Paul Gupta (EC-59617), E.M.E.

Lt. Ramesh Prasad Kapoor (EC-59642), E.M.E.

Lt. Stanley Kuruvilla Joshua (EC-59658), E.M.E.

Lt. Vallabhu Nageswara Rao (EC-59746), E.M.E.

Lt. Prem Prakash Kaushik (EC-59728), E.M.E.

Lt. Umesh Chandra Prasad Pandey (EC-59478), A.E.C.

Lt. Umesh Chandra Sharma (EC-59576), A.E.C.

Lt. Virendra Pratap (EC-59509), A.O.C.

Lt. David John Meshramkar (EC-59619), A.O.C.

Lt. Yogender Paul Malhotra (EC-59708), A.O.C.

Lt. Narendra Kumar Bhatt (EC-59711), A.O.C.

Lt. Krishan Murgai (EC-59722), A.O.C.

Lt. Khem Singh Lather (EC-59531), A.O.C.

No. 387, dated 22nd Jan, 1971.—The President is pleased to release the undermentioned officers in terms of AI 9/S/62 (para 15(a)(iii)), with effect from 30th Sep. 1970 :—

REGULAR ARMY

Emergency Commission

Lt. Virendra Kumar (EC-59557), Artillery.

Lt. SM Das (EC-58175), Infantry.

Lt. SL Datta (EC-52830), Artillery.

Lt. CPS Mann (EC-53638), A.S.C.
 Lt. CD Kukreti (EC-59237), A.S.C.
 Lt. Mohan Lal Gulati (EC-56994) Artillery.
 Lt. AS Hoskote (EC-59699), Engineers.
 Lt. S. J. Kanile (EC-59742), Engineers.
 Lt. CVR Nambiar (EC-52444), A.O.C.

No. 388, dated 29th Jan. 1971.—The President is pleased to terminate the service of the following Nursing Officer on grounds of marriage:—

REGULAR ARMY

Military Nursing Services (Temporary)

Lt. (Miss) PM VASANTHA KUMARI (NS-14766), 15th Nov. 1970.

No. 389, dated 29th Jan. 1971.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to revert to Reserve service:—

Regular Reserve of Officers (Class A)

Lt. M. S. Taher (RR-32), A.S.C., 1st Apr. 1968.

R. S. CHAUDHARI Under Secy.

CORRIGENDA

No. 390, dated 3rd Feb. 1971.—Ministry of Defence Extraordinary Notn. Nos. 8-F, 9-E and 10-E dated 12th Aug. 1970, published on 15th Aug. 1970, regarding grant of honorary commissions/ranks to ICOs/NCOs are amended as under:—

(a) In Notification No. 8-E

Under Heading: "To be Hony Captains."

Under Group: "REGIMENT OF ARTILLERY."

For "47630 JC Sub. Maj. M MADHAVEN NAIR."

Read "47630 JC Sub. Maj. M. MADHAVAN NAIR."

(b) In Notification No. 9-E

Under Headings: "To be Hony. Captains."

Under Group: "REGIMENT OF ARTILLERY."

For "JC 61385 Sub. Maj. & Hony. Lt. NAZAR SINGH—2nd Apr. 1970"

Read "61385 JC Sub. Maj. & Hony. Lt. NAZAR SINGH—2nd Apr. 1970."

(c) In Notification No. 10-E

Under Heading: "To be Hony. Nb. Ris./Nb. Sub."

Under Group: "17th HORSE."

For "1011175 Dfr. RICHPAL SINGH."

Read "1011175 Dfr. RICHPAL SINGH."

Under Group: "65 ARMD REGT."

For "1001176 Dfr. AMI CHAND."

Read "1010176 Dfr. AMI CHAND."

Under Group: "REGIMENT OF ARTILLERY."

For "1111440 Hav. KAJI MOOLAM."

Read "1111440 Hav. K. ADI MOOLAM."

For "1107202 Hav. THANGIA."

Read "1107205 Hav. THANGIA."

For "1117585 Hav. SHEODAN—15th Jan. 1970."

Read "1117585 Hav SHEODAN—18th Jan. 1970."

For "3935132 Hav. DURGA RAM."

Read "3935135 Hav. DURGA RAM"

For "1109052 Hav. KV RAMAN."

Read "1109055 Hav. KV RAMAN."

For "1124933 Hav. SKT FAUJA SINGH."

Read "1124933 Hav. (SKT) FAUJA SINGH."

For "1118343 Hav. MOHINDER SINGH."

Read "1118343 Hav. MOHINDAR SINGH."

For "1202190 Hav. C/Pl. MOHINNER SINGH."

Read "1202190 Hav. C/Pl. MOHINDAR SINGH."

For "1108154 Hav. G. VENKATACHARI."

Read "1308154 Hav. G. VENKATACHARI"

Under Group "CORPS OF SIGNALS."

For "6248269 Hav. S. DEVASIRVATHAM."

Read "6848269 Hav. S. DEVASIRVATHAM."

(ii) In M. of D. Notn. No. 3117, dated 19th Nov. 1970 published in Gazette of India dated 5th Dec. 1970 under heading 'REGULAR ARMY' sub-headings 'Infantry' and 'The Rajput Regiment' below 'To be Sub.' for 'Nb. Sub. Tej Pal Singh (JC-35516)' read 'Nb. Sub. Tej Pal Singh (JC-35516)'.
 P. K. KUMARAN Under Secy.

P. K. KUMARAN Under Secy.

No. 391, dated 25th Jan. 1971.—In M. of D. Notn. No. 1924, dated 8th July, 1970, published in G. of I. dated 25th July 1970, under the heading 'REGULAR ARMY' and sub-heading 'Army Service Corps', 'Supply' and 'To be Nb. Sub. Clerk GD(SD)', below 'Hav Dalip Singh Sikka (6630706 now JC-57431), 6th Nov. 1969. *(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f., 6th Oct. 1969 without effect on pay and allowances)."

For 'Hav. Jai Pal Singh (6630707 now JC-57432), 12th Oct. 1969.'

Read 'Hav. Jai Pal Singh (6630707 now JC-57432), 12th Oct. 1969.'

V. S. RAGHAVAN, Under Secy.

No. 394, dated 22nd Jan. 1971.—In the Min. of Def. Notn. No. 2704, dated 18th Sep. 1970 published in the G. of I. dated 10th Oct. 1970 under the heading "TERRITORIAL ARMY" sub-heading "Territorial Commission", below "Capt. to be Maj." for V. R. Putri (TA-40167), read Y. R. Puri (TA-40167).

R. K. R. GONELA, Under Secy.

(NAVY BRANCH)

Naval Headquarters

No. 392, dated 23rd Jan. 1971.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Sohi, pmt. Asstt. as Supdt., in an offg. capacity from 17th Sep. 1970 to 17th Oct. 1970 vice Shri B. D. Bhaduri, granted leave.

R. D. JAIN Asstt. C.A.O.

No. 393, dated 4th Feb. 1970.—The President is pleased to make the following appointments in the Executive Branch of the Indian Navy under Section II of Chapter IV, Part III of Regs Navy:—

*Indian Navy**(Short Service Commission)**Executive Branch**To be Av. Sub. Lt. on probn.*

Ashit BHATTACHARJEE, Bharat BHUSHAN, Beheram Dorab Ardeshir DRIVER Baljinder Singh GREWAL Dilip Kumar KALRA, Ramesh Manohar KANITKAR, Koddri Ramachandras RAO Chamaranagar Venkatesh SATHYAN-DRANATH, Ramaswami Iyengar SFSHADRVASAN, Dharampal SINGH and Arvind Kumar WILSON, to-date 10th Nov 1969.

Samirkanti BASU Sri Ram KUMAR and Shashi PRAKASH, to-date 11th Nov 1969.

Kuldip Chand KAUSHAL, to-date 13th Nov. 1969.

JAWAHIR SINGH, Under Secy.

No. 394, dated 22nd Jan. 1971.—The President has been pleased to make the following appointment on his Personal Staff :—

To be Aide-de-Camp

Lt DARSHAN LAL, I.N. w.e.f., 12th Dec. 1970 (F/N), vice Lieutenant R. A. M. GUPTA, I.N. vacated,

L. B. PARIYAR, Under Secy.

No. 395, dated 25th Jan. 1971.—The President is pleased to make the following appointments :—

Shri V. RANGIAH, Pmt. Senior Foreman (Ammn.) to be offg. Civilian Technical Officer (Ammn. & Explosives), 27th Nov. 1970.

Shri VR GOPAL, Pmt. Foreman (Mechanic) and offg. Senior Foreman (Mechanic) to be offg. Civilian Technical Officer (Mech.), 4th Dec. 1970.

They will be on probn. for 2 years.

Shri C. SUDARSAN, Foreman of Stores appointed to be in charge of the current duties of Asstt. Naval Store Officer independently for the period vice Shri G. V. Karnik Assistant Naval Store Officer, granted leave from 14th Sep. 1970 to 15th Oct. 1970.

Shri NS SAHOTA, Pmt. Chief D'man (Elect), to carry out the current duties of Technical Assistant (Design/Electrical) independently vice Shri N. Krishnamurthy, Technical Assistant (Design/Electrical) granted leave from 20th Jul. 1970 to 29th Aug. 1970.

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

Indian Navy

No. 396, dated 4th Feb. 1971.—The President is pleased to make the following promotions :—

(Special Duties List)

Executive Branch

Lt. (SDB) to be Lt. Cdr. (SDB)

K. Chandran, 30th Sep. 1970.

Lt. (SDAV) to be Lt. Cdr. (SDAV)

Niranjan Singh, 30th Sep. 1970.

Sub. Lts. (SDG) to be Lts. (SDG)

SN Sarin Rameshwar Singh and Gandharv Singh, 30th Sep. 1970.

Sub. Lts. (SDB) to be Lts. (SDB)

Nutha Singh, Sheo Bharat Singh, Mahabir Singh and DS Tatwalia, 30th Sep. 1970.

Sub. Lts. (SDH) to be Lts. (SDH)

Harbhaian Singh (Sr.), 30th Sep. 1970.

Sub. Lts. (SDPR) to be Lts. (SDPR)

VK John and DS Chauhan, 30th Sep. 1970.

Sub. Lts. (SDC) to be Lts. (SDC)

MP Mehta and VK Neir, 30th Sep. 1970.

Sub. Lts. (SDAV) to be Lts. (SDAV)

CF Henzie, Gurdial Singh and JSR Kshirsagar, 30th Sep. 1970

Engineering Branch

Sub. Lts. (SDME) to be Lts. (SDME)

Balbir Singh and NS Bains, 30th Sep. 1970.

Sub. Lt. (SDAE) to be Lt. (SDAE)

Heshiar Singh, 30th Sep. 1970.

Sub. Lt. (SDSW) to be Lt. (SDSW)

MPT Mathew, 30th Sep. 1970.

Electrical Branch

Sub. Lt. (SDAL) to be Lt. (SDAL)

C Regis, 30th Sep. 1970.

Sub. Lt. (SDR) to be Lt. (SDR)

JC Bajwa, 30th Sep. 1970.

Sub. Lt. (SDAR) to be Lt. (SDAR)

KPNK Menon, 30th Sep. 1970.

Supply & Secretariat Branch

Lt. (SDW) to be Lt. Cdr. (SDW)

KC Lakshmanan, 30th Sep. 1970.

Sub. Lt. (SDS) to be Lt. (SDS)

NKJ Pillai, 30th Sep. 1970.

Sub. Lt. (SDW) to be Lt. (SDW)

Inder Singh, 30th Sep. 1970.

Permanent Commission

Electrical Branch

EAAR 3, No. 50825 M. V. PAUL to be Ag. S/Lt. with effect from 10th Feb. 1969 vide N.I. 141/61. Ag S/Lt to Lt

M. V. P. 15th Feb. 1970 with seniority of (for promotion only) 10th Feb. 1969 vide N.I. 141/61.

JAWAHIR SINGH, Under Secy.

No. 397, dated 25th January 1971.—With reference to G Notn. No. 1043 dated 15th Apr. 1969 published in the G of I dated 26th Apr. 1969 and No. 445 dated 3rd Feb. 1970 published in the G of I dated 14th Feb. 1970, the President is pleased to allow SARVASHRI ASHOK KUMAR ANAND and MAHINDER NARAIN MATHUR to continue as tempy. Translation Officers (Russian Language) upto 31st Dec. 1971 or till such time as Service Officers become available, whichever ever is earlier.

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

Air Headquarters

No. 398 dated 25th January 1971.—The President is pleased to appoint Shri Rattan Lal, pmt. Asstt. as offg. Supdt. in the AFHQ Civil Service w.e.f. 18th July, 1970, until further order, vice Shri K. R. Krishnamurthi, Supdt., proceeded on deputation to Min. of Fin.

He will be on probn. for two years.

R. D. JAIN, Asstt. CAO

(AIR BRANCH)

No. 399, dated 11th Jan. 1971.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probn.) to be under-mentioned under A.F.I. 49/51 and 23/48 as amended read in conjunction with Govt. of India, Min. of Def. letter No. Air HQ/6765/42/PO2/5814/D(A), dated 28th Apr. 1952 as amended :—

Indian Air Force

G.D. (Nav) Branch

(Ex N.D.A. Flt. Cdts. to be Pilot Officers)

Gurbax Singh GADHOKE (12420), Raj Pal KAPOOR (12421) Dev Dutt KAKRA (12422), Ashok Gobindram THADANI (12428), Soumendro Kumar PATNAIK (12429), and Conrad Anthony DALTON (12430), 13th June, 1970.

(Ex. airmen Flt. Cdts. to be Pilot Officers)

Devi Shanker TRIVEDI (12426) and Mohd. Farooq SIDDIQUI (12427), 13th June, 1970.

R. B. PATHAK, Under Secy.

No. 400, dated 14th January 1971.—The President is pleased to grant Short Service Commission (on probation) to the

Undermentioned under A.F.I. 19/63 read in conjunction with A.F.I. 4/S/50 :—

Indian Air Force
Tech./Sigs. Branch

(Ex-Airman Flt. Cdt. to be Pilot Officer)

(202151) W. O. SHANGARA SINGH (12120), 30th Aug 1969.

HOSHNAK SINGH, Under Secy.

No. 401, dated 8th January 1971.—The President is pleased to promote the undermentioned officer to the acting rank of Gp. Capt.

Indian Air Force
G.D. (N) Branch

Wg. Cdr. E.P.R. Nair (3837), 18th May, 1970.

KULWANT SINGH, Dy. Secy.

No. 402, dated 12th January 1971.—The President is pleased to promote the undermentioned Flt. Lt. to the subs. rank of Sqn. Ldr.

Indian Air Force
G.D.(P) Branch

V. Taveira (5679), 7th Feb. 1970.

No. 403, dated 12th Jan. 1971.—The President is pleased to promote the undermentioned Fg. Offr. to the substantive rank of Flt. Lt. :—

Indian Air Force
Tech./Sigs.) Branch

N. J. Pillai (8802); 3rd July, 1969.

G.D. (P) Branch

S. C. Batra (8739); 1st Aug. 1969.

No. 404, dated 12th Jan. 1971.—The President is pleased to terminate the probationary Short Service Commission of the undermentioned officer.

Indian Air Force
Tech./Sigs.) Branch

Plt. Offr. J. P. Gupta (11749), 21st June, 1969.

HOSHNAK SINGH, Under Secy.

